

श्रीः ।

दामोदरपण्डितोदृतः-

# यन्त्रचिन्तामणिः ।

मुरादाबादनिवासिपण्डितबलदेवमसादजीमिश्रकुल-

भाषाटीकोपेतः ।

---

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

मालिक—“ लक्ष्मीविष्णुटेश्वर ” स्टीम् प्रेस,

---

कल्याण-वर्म्बई.

संवत् १९९३, शके १८५६.

मुद्रक और प्रकाशक-

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

मालिक—"लक्ष्मीवेङ्टेश्वर" एटीम-प्रेस, कल्याण-वंवड.

सन् १८६७ के आकट २५ के मुजब रजिष्टरी सब हक

प्रकाशकने अपने आधीन रखा है।

## प्रस्तावना ।



**मिथ्य महानुभावों !**

यह बही प्रथ है कि, जिसके लिये आप चिरकालसे उत्कंठित हो रहे थे । संसारमें जितने प्रथ दिखाई देते हैं उनमें यह मंत्रशास्त्र बड़ा अलौकिक है, कारण इससे मनुष्यकी आकांक्षा बहुतही शीघ्र पूर्ण होजाती है, किर यह शास्त्र वेदोंसे निकला है इसलिये इसकी सत्यतापर तो किंचिन्मात्रभी सन्देह नहीं किया जा सकता वरन् इसके वाक्य ग्रन्थवाक्य समझे जाते हैं । मंत्रशास्त्रके अन्तर्गतही यंत्र और तंत्रशास्त्र भी हैं ।

प्राचीन कालमें हमारे महान् आचार्य ऋषि मुनियोंने इसी मंत्र ( यंत्र-तंत्र ) शास्त्रके द्वारा अपना जीवन सुखमय बनाया था । इन दिनों मंत्र-शास्त्रका प्रचार बहुत कम होने तथा इस विषयपर अच्छे सरल प्रथ न रहने एवं जनताकी अश्रद्धा बढ़ने आदिसे यह शास्त्र प्रायः लुप्तसा होरहा है, किन्तु अब भी इस विषयका जो कुछ प्रचार श्रेय रहगया है उसपर यदि पाठक भलीभांति ध्यान देकर अध्ययन तथा मनन करें तो इस मंत्रवाक्यसे अत्पकालमें ही उनकी वह चिर अभिलाषा पूरी हो सकती है कि जो मरणपर्यन्त अन्य शास्त्रोंके पठन पाठनसे नहीं हो सकती ।

इस कर्मभूमिमें सिद्धि प्राप्त करानेके लिये अनेक अन्यान्य शास्त्र हैं और मंत्रशास्त्रभी । उसमें जहाँ और और शास्त्र दूध अथवा दहीके सदृश हैं वहाँ मंत्र शास्त्र मक्खनके सदृश होरहा है । मक्खनमें दूध वा दहीसे अवश्यही पहुत अधिक स्वाद और अधिकशक्ति होती है । यह इससेभी सिद्ध है कि खाद्यपदार्थमें श्रीकृष्ण भगवान् माखनको ही ऐसु समझते थे । अबः शीघ्रही मनुष्योंके अभिलिप्त फल प्राप्त होनेके लिये मंत्रशास्त्रसे बढ़कर कोई दूसरा उपयोगी शास्त्र नहीं है । मंत्रशास्त्रके अन्तर्गतही यह “यंत्रचिन्तामणि” है कि जिसमें अनेक प्रकारके सिद्धिदायक मंत्र और यंत्र भरेहुये हैं ।

परमपूज्य महात्मा गांगाधरजीके पुत्र दृष्टि कलाओंमें चतुर श्रीगणेशजीके परमभक्त महायशस्यों परेम सुदिमान् दामोदरजी उत्पन्न हुये । उन्होंने जग शिवोक्त-सवोक्त देव्युक्त प्रभूति अनेकों शास्त्रोंको विस्तारपूर्वक देखकर उन-

मुद्रक और प्रकाशक-

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

मालिक—“लक्ष्मीविहारे श्वर” एस्टीम्-प्रेस, फल्याण-वंवई.

सन् १८६७ के आकट २९ के मुजब रजिस्टरी सब हठ  
प्रकाशकने अपने धाधीन रखा है।

## प्रस्तावना ।



**प्रिय महानुभावों ।**

यह वही प्रथ है कि, जिसके लिये आप चिरकालसे उल्कांठित हो रहे थे । संसारमें जितने प्रथ दिखाई देते हैं उनमें यह मंत्रशास्त्र यड़ा अलौकिक है, कारण इससे मनुष्यकी आकांक्षा बहुतही शीघ्र पूर्ण होजाती है, फिर यह शास्त्र घेदोंसे निकला है इसलिये इसकी सत्यतापर तो किंचिन्नात्रभी सन्देह नहीं किया जा सकता बरन इसके वाक्य व्रजवाक्य समझे जाते हैं । मंत्रशास्त्रके अन्तर्गतही यंत्र और तंत्रशास्त्र भी हैं ।

प्राचीन कालमें हमारे महान् आचार्य ऋषि मुनियोंने इसी मंत्र ( यंत्र-तंत्र ) शास्त्रोंके द्वारा अपनाएँ जीवन सुखमय बनाया था । इन दिनों मंत्र-शास्त्रका प्रचार बहुत कम होने तथा इस विषयपर अच्छे सरल प्रथ न रहने एवं जनताकी अश्रद्धा बढ़ने आदिसे यह शास्त्र प्रायः लुप्तसा होरहा है, किन्तु अब भी इस विषयका जो कुछ प्रचार शेष रहगया है उसपर यदि पाठक मर्दीभाँति ध्यान देकर अध्ययन तथा मनन करें तो इस मंत्रवाक्यसे अल्प कालमें ही उनकी वह चिर अभिलापा पूरी हो सकती है कि जो मरणपर्यन्त अन्य शास्त्रोंके पठन पाठनसे नहीं हो सकती ।

इस कर्ममूलिमें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये अनेक अन्यान्य शास्त्र हैं और मन्त्रशास्त्रभी । उसमें जदौं और और शास्त्र दूध अथवा दृष्टिके सटश हैं वहाँ मंत्र शास्त्र भक्त्यनके सटश होरहा है । भक्त्यनमें दूध वा दृष्टि अवश्यही बहुत अधिक स्वाद और अधिकशक्ति होती है । यह इससेभी सिद्ध है कि खाद्यपदार्थमें श्रीकृष्ण भगवान् माखनको ही थेषु समझते थे । अतः शीघ्रही मनुष्योंके अभिलपित फल प्राप्त होनेके लिये मंत्रशास्त्रसे बदकर कोई दूसरा उपयोगी शास्त्र नहीं है । मंत्रशास्त्रके अन्तर्गतही यह “यंत्रचिन्तामणि” है कि जिसमें अनेक प्रकारके सिद्धिदायक मंत्र और यंत्र भरेहुये हैं ।

परमपूज्य महात्मा गुणाधरजके पुत्र ६४ कलाओंमें चतुर्थ श्रीगणेशजप्ति परमभक्त महायशस्त्री पर्वम बुद्धिमान् दामोदरजी उत्पन्न हुये । उन्होंने जब दिघोक्त-सर्वोक्त देव्युक्त प्रभूति अनेकों शास्त्रोंको विस्तारपूर्वक देखकर लोकों

प्रकारके लिये स्वयम् मन्त्रयुक्त यंत्रोंके संप्रह करनेकी इच्छा की, उसी समय स्वप्रावस्थामें श्रीशंकर महाराजकी प्रेरणा हुई तब उक्त महापंडित दामोदर-जीने इस चिन्तामणिरूपी यंत्रोंका संप्रह किया ।

फिर तंत्रोंके आदि अनुवादक, अनेक ग्रंथोंके सुप्रसिद्ध टीकाकार, रचयिता संपादक और महानिर्वाण तंत्र-कामरत्न तंत्र, आश्र्वय योगमालातंत्र, गुप्त स्थनतंत्र, गौरीकांचलिकातंत्र-गुरुतंत्र, नित्यतन्त्र आदिके भाषान्तरकर्ता गुरु दायाद निवासी परमपूज्य मेरे पितृत्र्य पांडित बलदेवप्रसादजी मिश्रने ई मंथका सरल हिन्दी भाषामें अनुवाद किया, जिसके लिये तांत्रिक समाज उनका चिर कृतज्ञ रहेगा, किन्तु दुःखकी बात है कि, हमारे पितृत्यजी इस प्रथके प्रकाशनके पूर्वही अपनी जीवनयात्रा समाप्तकर ब्रह्ममें लीन होगये ।

यद्यपि कलियुगी जीव इस विद्याकी सिद्धि कर सकते हैं किन्तु जिस प्रकार करना चाहते हैं वैसे यह विद्या सिद्धिप्रदान नहीं करसकती, पृथ्वी निर्विर्य नहीं है । आजभी यदि पूर्ण विधिसे अनुष्ठान किया जाय तो अवश्यही सिद्धि प्राप्त हो सकती है ।

पूर्वकालमें जितने प्रथं मंत्र .( यंत्र-तंत्र ) विद्याके मिलते थे, आज वह अदृश्य होरहे हैं किन्तु बड़े आनंदकी बात है कि ऐसे समयमें भी यंत्र-मंत्र तथा तंत्र मंथोंके प्रकाश करनेकी राधि फिर मनुष्योंके हृदयोंमें लहराने लगी है ।

मंत्र इत्यादिके प्रयोगोंकी सिद्धि कही नहीं गई है किन्तु सिद्धिकी आभिलाषा रखनेवाले ही नहीं हैं । जो मनुष्य मंत्र ( तंत्र-यंत्र ) विद्याको सीखता चाहे है वह प्रथम सद्गुरुकी खोजकरे । खोजकरनेपर वया नहीं मिलता है संते गुरुके मिलजानेपर उनसे यथाविधिदीक्षा लेवें और उनके पत्तायेमार्गका अनुसरण करें तो किर सिद्धि प्राप्त करलेना कुछ फठिन नहीं है ।

शेषमें साधकगणोंसे हमारी विनम्र प्रार्थना यही है कि, कशाचित् यथा-विधि प्रयोग करनेपरभी आपको सिद्धि प्राप्त न हो तो यह दोष शास्त्रका न समझकर अपनाही समझिये और पुनर्वारि साव गर्नीके साथ कार्यमें प्रवृत्त होजिये, तो आपसी मनोकामना अवश्यही फड़ीनूत होगी । ऐसा मेरा दृढ़ विधास है ।

इस प्रथको पूर्ण संशोधनकर अतेक शिष्टभासेको वा पदोंको सरल तथा स्पष्टकर तात्रिक प्रेमियोंके और भी परमोपयोगी बनादिया है ।

यदि मंत्र-यंत्र-तंत्र-प्रेमी श्रिय पाठक, प्राहक, अनुप्राहक इसका आवरकर एक एक प्रति अपने पास रखते तो हम अपने विशेष उद्योग तथा अनुवाद-के परिअम्लको सफल समझेंगे ।

यदि इसमें कहीं कोई श्रुटि नरधर्मानुसार रहगयी हो तो पाठक महाशय उसको क्षमा करते हुए सूचना देनेकी कृपा करें । पुनराश्रितिमें इसका सुधार करादिया जायगा ।

इसके लिये उदारचेता प्रेसाध्यक्ष सर्वगुणसम्पन्न परमादार दावसाहब थीमान् सेठ रंगनाथजी तथा सेठ श्री श्रीनिवासजीको अनेकानेक हार्दिक धन्यवाद है कि, जिन्होंने इस मुस्तकके प्रकाशन तथा सर्वाङ्गसुन्दर बनानेमें कोई घात उठा नहीं रखती है । असः प्रकाशकके इस अद्वितीय उत्साहकी हम अत्यंत सराहना करते हैं ।

चित्रपति शित-

बम्बई.

}

जगदीशप्रसाद मिश्र.  
सुराक्षावाद,



# यन्त्रचिन्तामणेविषयानुक्रमणिका ।

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
महालाचरणम् ....	१	उचिद्धृपिशाचियन्त्रम् ....	२८
ग्रन्थकर्तुः प्रशस्तिः ....	२	दुष्टोहनकरं कण्टकयन्त्रम् ....	२९
प्रयोजनादिः ....	३	क्रोधशमनं जामदन्ययन्त्रम् ....	३०
पन्त्रलेखनविधिः ....	४	लीसौभाग्यकरं ललितायन्त्रम् ....	३२
सिद्धमाध्यादिविचारः ...	५	लीसौभाग्यकरं यन्त्रम् ....	३३
महामोहनयन्त्रम् ....	६	लीवद्यकरं कामराजयन्त्रम् ....	३४
यीजसम्पुट राजवश्यकरं यन्त्रम् ....	७	लीवद्यकरं मदनमर्दनयन्त्रम् ....	३६
यावज्ञीव स्वामिवश्यकरं यन्त्रम् ....	८	कामाक्षं यन्त्रम् ....	३७
दिव्यस्तमनयन्त्रम् ....	९	विजययन्त्रम् ....	३९
राजमोहन दृष्टमुखस्तमनं यन्त्रम्	१०	कर्मलास्ययन्त्रम् ....	४१
महामृत्युजययन्त्रम् ....	११		
विवादविजययन्त्रम् ....	१२	आकर्षणाधिकारः ।	
मायामययन्त्रम् ....	१३	माणिमद्ययन्त्रम् ....	४३
दुष्टोहनयन्त्रम् ....	१४	मित्रदर्शनयन्त्रम् ....	४४
व्यवहारविवादजयदं यन्त्रम् ....	१५	त्रिपुराकाल्ययन्त्रम् ....	४५
यावज्ञीवं वश्यकरं गाणपत्यं यन्त्रम्	१६	ललनाकृति कामराजयन्त्रम् ....	४६
यावज्ञीवं जनवश्यकरं यन्त्रम् ....	१७	देवमातृकं चक्रम् ....	४७
जाग्रूवश्यकरं यन्त्रम् ....	१८		
पिशाचियन्त्रम् ....	१९	स्तम्भनाधिकारः ।	
कूरवश्यकरं कालानलयन्त्रम् ....	२०	शत्रुमुखगतिमतिस्तम्भनपन्त्रम् ....	४९
		यात्रास्तम्भनयन्त्रम् ....	५०
		प्रतिवादिमुखस्तम्भनयन्त्रम् ....	५२

विषयः	पृष्ठांकः	विषयः	पृष्ठांकः
शत्रुमुखस्तम्भनयन्त्रम्	.... ९३	सर्वजनोचाटनयन्त्रम्	.... ७६
वहिस्तम्भनयन्त्रम्	.... ९४	शत्रोरुचाटनयन्त्रम्	.... ७७
अग्निस्तम्भनयन्त्रम्	.... ९९	त्रिया उचाटनयन्त्रम्	.... ७८
यात्रास्तम्भनयन्त्रम्	.... १०६	त्रैलोक्योचाटनयन्त्रम्	.... ७९
शत्रुमुखस्तम्भनयन्त्रम्	.... १७	परमोचाटनयन्त्रम्	.... ८०
पिशुनमुखस्तम्भनयन्त्रम्	.... १९	शान्त्यधिकारः ।	
विद्रेषणाधिकारः ।		शान्तिपौष्टिकयन्त्रम्	.... ८२
नरनारीविद्रेषणयन्त्रम्	.... ६१	सर्पादिभयनाशनयन्त्रम्	.... ८३
शत्रुविद्रेषणयन्त्रम्	.... ६३	वन्ध्यागर्भधारणयन्त्रम्	.... ८९
यन्धुविद्रेषणयन्त्रम्	.... ६४	ज्वरनाशनयन्त्रम्	.... ८६
स्वामिभृत्यविद्रेषणयन्त्रम्	.... ६५	यालरक्षाकरणयन्त्रम्	.... ८७
विश्वविद्रेषणयन्त्रम्	.... ६६	तृतीयज्वरनाशनयन्त्रम्	.... ८८
मारणाधिकारः ।		ज्वरशमनयन्त्रम् ....	.... ८९
शत्रुमारणयन्त्रम् ( १ )	.... ६८	यालानां ज्वरादिस्तम्भन	
शत्रुमारणयन्त्रम् ( २ )	.... ६९	यन्त्रम्	.... ९०
देशान्तरस्थशत्रुमारणयन्त्रम्	.... ७०	यालदोषनाशनयन्त्रम्	.... ९१
सर्वजनमारणयन्त्रम्	.... ७१	सर्पस्तम्भनयन्त्रम् ....	.... ९२
नरनारीमारणयन्त्रम्	.... ७३	भूतत्रासनयन्त्रम् ....	.... ९३
उच्चाटनाधिकारः ।		एकान्तज्वरनाशनयन्त्रम्	.... ९४
शत्रुचाटनयन्त्रम् ....	.... ७४	गर्भरक्षाकरणयन्त्रम्	.... ९५
सयुडचाटनयन्त्रम्	.... ७६	सुखप्रसवकरणयन्त्रम्	.... ९६

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
भूततीयज्वरनाशनयन्त्रम्	.... ९७	मोक्षाधिकारः ।	
सर्वतोमद्रयन्त्रम् ....	... ९८	दुष्टसच्चप्रमोचनयन्त्रम् ....	१०३
द्यूतविजयकरयन्त्रम्	.... ९९	वन्धमोचनयन्त्रम् ....	१०४
वन्धमोक्षणयन्त्रम्	.... १००	निगडमोचनयन्त्रम् ....	१०५
भवसोचनयन्त्रम्	.... १०२	वन्धमोक्षकरयन्त्रम् ....	१०७
		सर्वसाधारणयन्त्रविधिः	.... १०९

इति अनुक्रमिका समाप्ता ।



॥ श्रीः ॥

# यन्त्रचिन्तामणिः । भापाटीकोपेतः ।

मङ्गलाचरणम् ।

थं ध्यायन्ति सुरासुराश्च निखिला यक्षाः पिशाचोरगा  
राजानश्च तथा मुनीन्द्रनिवहाः सर्वार्थिदं सिद्धये । भक्तानां वर-  
दाभयप्रदकरं पाशाङ्कुशालंकृतं चत्वर्बाहुरवीज्यमानमनिश्चं  
सोऽहं श्रये शङ्करम् ॥ १ ॥ वभार दुःस्थान्सुनिपुङ्गवान्यो  
कुद्धचाऽथ मन्त्रैश्च दुरासहीजाः । जाज्वल्यमानो दिशि इश्यते  
यः स भार्गवो मामवताच्छुरण्यः ॥ २ ॥ यस्य प्रसादाद्वलिनो  
भवन्ति जानन्ति देत्या विविधां च मायाम् । गो लब्धवान्  
मन्त्रबरं पठन्नं मृत्युञ्जयं देववराद्वणेशात् ॥ ३ ॥ प्रथकर्तुः प्रशस्तिः—  
जालन्धरे पीठवरे प्रसिद्धे प्रत्यक्षरूपा भुवि वर्तते या । गोत्रे  
तस्मिन्वेदविद्याप्रवीणे योऽन्वाजैपीत्रास्तिकान्वेदवाह्यान् ॥ ४ ॥

सम्पूणे सिद्धियोंके अर्थ जिन शिवजी महाराजका सुर, असुर, यक्ष, पिशाच,  
उरग (सर्व) राजा मुनिगण आदि ध्यान करते हैं, जो भक्तोंको वर और  
अभय देते हैं, एवं पाश और अंकुशके धारण करनेसे शोभायमान हैं,  
जिनपर निरन्तर चंचल दुलजा रहता है, उन श्रीशिवजीमहाराजका मैं वार-  
म्वार आश्रय लेताहूँ ॥ १ ॥ जो प्रतापशिल श्रीशुक्राचार्यजी गुप्त भावसे  
रहनेवाले मुनिश्रियोंको मन्त्रवलसे जानकर धारण करतेहुए वह आकाश मंडलमें  
प्रकाशमान शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले श्रीभार्गवजी गुप्त शरणमें आयेकी  
रक्षा करें ॥ २ ॥ जिनकी प्रसन्नतासे दैत्यगण वलयान् होवें और अनेक  
प्रकारकी मायाओंको जानते हैं, उन्हीं शुक्राचार्यजीने देवताओंमें श्रेष्ठ  
श्रीगणेशजीसे मृत्युको जीतनेवाली श्रेष्ठ पठङ्गमेत्र विद्याको प्राप्त किया ॥ ३ ॥  
प्रसिद्ध और पवित्रस्थान जालन्धर नाम नगरकी सुन्दर पुण्य भूमिमें उत्पन्न,  
वेदादि शास्त्रोंसे विमुख नास्तिकोंका पराजय करनेवाले पठङ्ग शास्त्रादिकोंके  
ज्ञाता जो उक्त भार्गवजीसे बंदोंमें कोई महान् पुरुष उत्पन्न होगये हैं ॥ ४ ॥

१ यहांपर नाम न लेनेका कारण यह है कि—“आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिइपण्ड्य  
प” अपना नाम, गुरुदेवजा नाम और यहे कृपगदा नाम नहीं लेना चाहिये । इस शास्त्र द्वी  
मर्यादापै नाम नहीं लिया ।

तदन्वये पण्डितः स त्रृसिंहो ज्वालासुखीं नौमि महाप्रभावाम् ।  
 यां योगमार्थां परमार्थविद्यां विशेषवन्द्यां भृगुवंशजानाम्॥५॥  
 तस्यात्मजोऽभृद्गुवि धर्मशीलो नाम्ना महादेव इति प्रसिद्धः ।  
 निसर्गवर्वरं प्रजहुः सुसत्त्वा यं प्राप्य दुष्टाहितरक्षसङ्घाः ॥ ६ ॥  
 तस्मादासीत्सुमतिविकसदेवदत्तः कलावान्मान्यो राज्ञो सदसि  
 विदुषां गद्यगङ्गाप्रवाहाः । उत्कल्पोलां दिशि दिशि जनाः कीर्ति-  
 पीयूपसित्तुं यस्याद्यापि श्रवणपुटकेः कुञ्जिताक्षाः पित्रनित  
 ॥ ७ ॥ गङ्गाधरस्तत्तनयो बभूव विवेकगाम्भीर्यगुणेरुदारः ।  
 यं प्राप्य लक्ष्मीश्च सरस्वती च तत्पादयुग्मं स्थिरतो च नृनम्  
 ॥ ८ ॥ दामोदरः सर्वकलाप्रवीणस्तस्मादभृद्वीणणनायभक्तः ।  
 लब्धप्रतिष्ठो गुरुदेवभक्तो मान्यः सतो धर्मपरा-यणोऽयम्॥९॥  
 प्रथोजनादिः—दृष्टाऽनेकशिवागमांश्च बहुलांश्चालोक्य सौरा-  
 गमान्देवीशाद्यमहागमांश्च विविधानालोक्य विस्तारतः ।

उन्हीं महात्मा भृगुवंशीके वंशमें उत्पन्न होकर मैं त्रृसिंह नामक पंडित महा-  
 प्रभावशालिनी श्रीज्वालासुखी देवीको प्रणाम करता हूँ। जो जगज्जननी योग-  
 मार्थां परम विद्या भृगुवंशियोंको विशेषकर बन्दन करनेके योग्य है ॥ ५ ॥  
 उन त्रृसिंहजीके पुत्र पर्मात्मा महादेव हुए, जिन महात्मा महादेवको प्राप्त  
 करके जीवेने स्वाभाविक वैर होड़दिया और दुष्ट आहितके करनेवाले राक्ष-  
 सादि भी स्वाभाविक वैरको त्यागकर प्रीति फरनेलगे ॥ ६ ॥ महादेवजीके  
 पुत्र हुद्विमान् ६४ कलाओंमें निपुण राजाओंके माननीय पंडितोंकी समांगें  
 गदयपद्यात्मक वाणीके बोलेवाले देवदत्त हुए । जिन महात्माजीके ऊँची  
 बहोलबाली कीर्तिलुप नदीके अमृतहृप रसको सम्पूर्ण दिशाओंमें भाजतक  
 भी कुञ्जिताक्ष मनु-य श्रवणपुटोंसे पान कर रहे हैं ॥ ७ ॥ देवदत्तजीके पुत्र  
 विवेक गंभीरतादि शुणोंसे उदार गंगाधर हुए, जिन महात्मा गंगाधरजीके  
 दोनों चरणकमलोंको पाकर लक्ष्मी और सरम्बतीजी रिधर भवको प्राप्त हुई ॥ ८ ॥  
 गंगाधरजीके पुत्र ६४ कलाओंमें चतुर, गणेशजीके भक्त दामोदरजी  
 उत्पन्न हुए, यह वडे प्रतिष्ठित गुरुदेवके भक्त, भक्तपुरुषोंके माननीय और  
 जपने धर्ममें वत्पर हुए ॥ ९ ॥ शिशीक, सौरोक, देवकुक्त प्रभूति अनेकों  
 शास्त्रोंको विस्तार पूर्वक देखकर परम युद्धेमान् दामोदरजी लोकोपकारके

कर्तुं वाञ्छितसंग्रहं सुमतिमान्दामोदरः । स स्वयं लोकानां च  
हिताय यन्वनिकरं मन्त्रेण युक्तं स्फुटम् ॥ १० ॥ प्रेरितश्वन्द्र-  
चूडेन स्वप्ने तु द्विजपुङ्गवः । चकार कल्पं यन्वाणां चिन्ता-  
मणिरिति स्फुटम् ॥ ११ ॥ पुरा कैलासशिखरे नानाधातुवि-  
चित्रिते । नानादुमलताकीर्णे नानापुण्योपशोभिते ॥ १२ ॥  
अप्सरोगणसंकीर्णे सिद्धचारणसेविते । शिवभक्तेः सुरैर्दैत्यैः  
पन्नगैश्च विराजिते ॥ १३ ॥ योगध्यानैकनिपुणैस्तत्त्वविद्धिः  
सुसेविते । आयुधैश्चेतनावद्विरुद्धीरितजयस्वनैः ॥ १४ ॥  
एकनेत्रैर्द्विनेत्रैश्च त्रिनेत्रैरप्यनेककैः । एकपादैर्द्विपादैश्च त्रिपादैश्च  
सहस्रशः ॥ १५ ॥ महाकूर्महार्भार्मीयैः करालैश्च विराजिते ।  
कम्बलाश्वतरैर्नार्गीतध्वनिविराजिते ॥ १६ ॥ इन्द्राद्यैलोक-  
पालैश्च बाणाद्यैरसुरैस्तथा । दुर्वासाद्यैश्च मुनिभिः समन्तात्परि-  
सेविते ॥ १७ ॥ एवंभूते च कैलासे देवदेवः स्वयंप्रभुः ।  
ज्योतिर्मयोऽमृतमयो योगचिन्त्यः सदाशिवः ॥ १८ ॥ अव्यक्तो

लिये स्वयं मन्त्रयुक्त यंत्रोंके संग्रह करनेकी इच्छा करते हैं, स्वप्रावस्थामें श्रीशिवजी  
महाराजकी प्रेरणाको स्वीकारकर दामोदर पंडित इस चिन्तामणिहृषी यंत्रोंका  
संग्रह करते हुए ॥ १० ॥ ११ ॥ पूर्वकालमें कैलास पर्वतकी चोटी नानाप्रकाश-  
रकी धातुओंसे विचित्र, अनेक प्रकारके युक्त और लताओंसे व्याप्त और  
अनेक प्रकारके पुष्पोंसे विराजमानधी ॥ १२ ॥ अप्सराओंके समूहसे शोभित,  
सिद्ध चारणादिकोंसे सेवित शिवभक्त, सुर, दैत्य और पन्नगोंसे विराजमान  
॥ १३ ॥ योगध्यानमें चतुर, तत्वोंके जानेवालोंसे निपेवित, चेतनावाले आयु-  
धोंसे युक्त जयशब्दसे गुञ्जायमानधी ॥ १४ ॥ त्रिनेत्रवाले, दो नेत्रवाले, एक  
नेत्रवाले और अनेक नेत्रवाले, तीन चरणवाले, दो चरणवाले, एक चरणवाले,  
हजारों महाकूर अतिभयंकर, कराल सम्बल ( पशुविशेष ), अधर ( खिदर )  
और हाथियोंके शब्दोंकी ध्वनिसे गर्ज रही थी ॥ १५ ॥ १६ ॥ इन्द्रादि लोक-  
पालोंसे, बाणादि असुरोंसे, दुर्वासादि मुनियोंसे सब प्रकारसे सेवित थी  
॥ १७ ॥ ऐसे कैलासपर्वतके शिखरपर ज्योतिमय, अमृतमय, योगचिन्त्य  
सदाशिव अव्यक्त ( नहीं प्रकाशव्यहर ) अकहर विन्गुमगवान्‌से सुतिको

व्यक्तरूपोऽसौ यत्रास्ते तु स्वयं शिवः । विष्णुना स्तूयमा-  
नस्तु प्रहृष्टस्तु सदाशिवः ॥ १९ ॥ कदाचिदुपविष्टोऽयमे-  
कान्ते परमेश्वरः । हृष्टस्तुष्टः प्रसन्नात्मा स्थृष्टिसंहारकारकः  
॥ २० ॥ चिन्तामणौ कल्पवरे सुतन्त्रे श्रीचन्द्रचूडस्य मुखा-  
द्विनिर्गते । तस्मिन्मयाऽऽद्या किल पीठिकेयं कृताऽन्न दामोदर-  
पण्डितेन ॥ २१ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे  
दामोदरपण्डितोऽन्ते प्रथमपीठिका समाप्ता ॥

प्राप्त प्रफुल्लित सदाशिव, हृष्ट, पुष्ट, प्रसन्न आत्मा, स्थृष्टि और संहार करने-  
वाले देवताओंके देवता स्वयं प्रकाशमान श्रीशङ्करजी महाराज विराजमान  
थे ॥ १८-२० ॥ श्रीशिवजी महाराजके मुखकम्लोंसे निकले कल्पोंमें श्रेष्ठ  
सुतन्त्र यन्त्रचिन्तामणि कल्पकी यह पूर्वपीठिका दामोदर नाम पांडितने इस  
अंथमें ३२ प्रकार कल्पना की है ॥ २१ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर-  
सम्बोद्द दामोदरपण्डितोऽन्ते पण्डित-बलदेवप्रसादजी मिथ-  
कृतभायाटीकासहिते प्रथमपीठिका समाप्ता ।

स पातु देव्याः कवरीविलासो लास्ये लसन्त्या गिरिराज-  
पुत्र्याः । यं पश्यतोऽवालमूर्गाङ्गमौलेः क्षणेन सर्वज्ञपदं बभूव  
॥ १ ॥ एकदा देवदेवेशं दृष्टा देवी शुचिस्मिता । उपगम्य  
शनैर्वाक्यं प्रोवाच जगदम्बिका ॥ २ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ देव-  
देव जगन्नाथ करुणाकर शङ्कर । वर्णश्रमाश्र धर्मश्र संदे-  
हाश्र महाप्रभो ॥ ३ ॥ कौतुकानि स्वकल्पानि पुराणादीनि वै  
प्रभो । शुतं सर्वं मया त्वत्तः सर्वज्ञोऽसि यतः स्वयम् ॥ ४ ॥  
मन्त्राणां विनियोगस्तु यन्त्राणां निर्णयस्तथा । आचारभेदा ये  
लोके योगाभ्यासः सुदुर्लभः ॥ ५ ॥ सुदुर्लभतरं ज्ञानं यज्ञ-  
काण्डः सुदुर्लभः । अनेकमन्त्रयोगो वै वेदोक्तोऽपि हि दृश्यते  
॥ ६ ॥ तथैवागममेदेषु उदितो हि न संशयः । एवं द्विजाश्र  
मन्त्रज्ञा दृश्यन्ते क्लेशभागिनः ॥ ७ ॥ पाखण्डभिः पराभूता  
नास्तिकैवेदनिन्दकः । विना मन्त्रैर्जपैर्होमैरल्पक्लेशेन च  
प्रभो ॥ ८ ॥ तत्क्षणाज्ञायते सिद्धिः सुसिद्धा सर्वकामदा ।  
मारणोच्चाटनाकृष्टे विद्वेषे स्तम्भन्ते तथा ॥ ९ ॥ अभिचारेषु

जिस नृत्य करती हुई गिरिराजपुत्री श्रीपार्वतीजीके कवरी (चोटी) विलासको देखकर श्रीशंकरजी क्षणमात्रमें सर्वज्ञपदको प्राप्त हुए, वह महाराणीके कवरीविलास हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥ एक समय देवताओंके देवता श्रीशिवजी महाराजको देखकर जगजननी श्रीपार्वतीजी निकट आकर कुछ एक हँसती हुई धीरे २ घोली ॥ २ ॥ पार्वतीजी घोली-हे देव जगभाष्य ! हे करुणासागर ! हे शिव शंकर ! हे प्रभो ! वर्ण, आश्रम, धर्म संदेह इत्यादि मैने सब आपके मुखारविन्दसे श्रवणकरे, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ भंडोंके विनियोग, यंडोंका निर्णय, आचार भेद, कठिनसे प्राप्त होनेयोग्य योगाभ्यास और जो अनेक वैदिक मन्त्र योग दृष्टि आरे हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ तथा आगम भेदसे सभीका आपने वर्णन किया है इन सब विशयोंके जानने-चाले द्विजाति वेदके निन्दक नास्तिकोंसे पराजित हाकर दुःख भोगते हैं ॥ ७ ॥ अतः हे प्रभो ! विनाही मन्त्र, जप, होम इत्यादेके किये सुखपूर्वक साधकको क्षणकालमें सुसिद्ध समूर्ण कामनाओंकी देनेवाली, सिद्धि प्राप्त होजाय ॥ ८ ॥ और मारण आकर्षण, विद्वेषण, स्तम्भन आदि सब प्रकारके

सर्वेषु काम्यार्थेषु च सर्वदा । विवादे च विषादे च रणे वैरि-  
जये तथा ॥ १० ॥ एतत्सर्वं यथा देव लिख्यते साधकस्य हि ।  
विचार्य देवदेवेश रहस्यं परमं बद ॥ ११ ॥ श्रीशिव उवाच ॥  
वेदाचारो मया प्रोक्तं कृपीणां तु महात्मनाम् । शिवधर्मस्तु  
मुक्तानां वैष्णवानां तु वैष्णवः ॥ १२ ॥ सौरं साहूल्यं मया  
प्रोक्तं बहुनां सिद्धिमिच्छताम् । शक्तं च बहुधा प्रोक्तं भैरवं  
बहुधा प्रिये ॥ १३ ॥ धर्मकामार्थमोक्षाणां ज्ञानं चैव प्रका-  
शितम् । रहस्यं गोपितं भद्रे सर्वत्रापि न संशयः ॥ १४ ॥ रह-  
स्यहीनो मन्त्रस्तु ध्यानेनाऽपि विशेषपतः । न सिध्यति वरारोहे  
कल्पकोटिशतैरपि ॥ १५ ॥ श्रीदेवयुवाच ॥ प्रसादं कुरु देवेश  
सुखोपायं वदस्व मे । सुरहस्यं सुबोधं च सद्यः प्रत्ययकारकम्  
॥ १६ ॥ विना होमेन जाप्येन पुरश्चरणसेवया । कलों तु सिद्धचते  
देव तथोपायं वदस्व मे ॥ १७ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ साधु साधु

अभिचार तथा काम्य अर्थं विवाद, विपाद, संप्राप्तमें वैरीका जय इत्यादि  
प्रयोग साधकको शीघ्रही सिद्ध होजाय ॥ ९ ॥ १० ॥ हे देवदेवेश !  
विचारकर उस परमरहस्यको प्रकाश करो ॥ ११ ॥ श्रीशिवजी घोले-महात्मा  
ऋपियोंका वेदाचार मैने कहा, मुक्त पुरुषोंका शिवधर्म कहा और वैष्णवोंका  
वैष्णवधर्म कहा ॥ १२ ॥ सिद्धिकी इच्छा करनेवालोंके निमित्त सौर और  
सांख्य योग कहा, हे प्रिये ! शक्त और अनेक प्रकारके भैरव दहे ॥ १३ ॥  
धर्म, काम, अर्थ, मोक्षका ज्ञानमी प्रवाश किया । हे भद्रे ! रहस्यको तो सदा  
निस्सन्देह सब स्थानोंमें गुमही रखना चाहिये ॥ १४ ॥ ह वरारोहे ! विशेष  
ध्यान करनेपरमी रहस्यहीन मंत्र अनेकों उपाय करनेसे भी सिद्ध नहीं होता  
है ॥ १५ ॥ श्रीपार्वतीजी घोली-हे देवेश ! मेरे ऊपर कृपाकर, सुरपूर्वक  
जानने योग्य शांघ विधासके देनेवाले रहस्यको मुख्यपूर्वक कहो ॥ १६ ॥  
हे देव ! विना तप, जप, होम इत्यादि पुरश्चरणोंके किये कलियुगमें  
सिद्ध होनेवाले उपायको कहो ॥ १७ ॥ श्रीशिवजी घोले-हे महा-

महाप्राज्ञे लोकानां हितकारके । इदमित्यं न केनापि पृष्ठोऽहं पद्मलोचने ॥ १८ ॥ अङ्गुष्ठैकाम्रचित्ता त्वं रहस्यं क्षणसिद्धिदम् । कल्पं चिन्तामणि नाम गुह्यादगुह्यतरं महत् ॥ १९ ॥ सर्वाङ्गभस्य सारं च मन्त्राणां सारसुत्तमम् । अथर्वणस्य वेदस्य सारात्सारतरं परम् ॥ २० ॥ अस्मिन्कल्पे भविष्यन्ति चिन्तामणिमये शुभे । यन्त्राणि बहुधा देवि काम्यकर्मकराणि च ॥ २१ ॥ एतत्कल्पं सदा यस्य लिखितं विद्यते यहै । संपूज्यते प्रतिदिनं प्रभावं तस्य वै शृणु ॥ २२ ॥ अल्पमृत्युभयं नास्ति नास्ति चौरभयं तथा । भूतप्रेतपिशाचानां प्रभावो नैव जायते ॥ २३ ॥ अन्यस्य कपटं नूनं न सिध्यति कदाचन । अविश्वासो न कर्तव्यः साधकेन वरानने ॥ २४ ॥ अभिचारो भवेत्कल्पे ह्यविश्वासान्न संशयः । संशयेन कृतं यन्त्रं विपरीतं प्रजायते ॥ २५ ॥ यन्त्रलेखनविधिः—स्नानं कृत्वा शुचिर्भूत्वा पूजयेत्कुलदेवताम् । लेखनीयं प्रयत्नेन एकान्ते यन्त्रमुत्तमम् ॥ २६ ॥ यस्य कस्य प्रयोगस्य विधिरेष प्रकीर्तिः । दिनत्रयं

प्राज्ञ ! हे लोकोंका हितकरने वाली ! तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है । हे कमलनयनि ! आजतक गुह्यसे इस प्रकारसे किसीने नहीं पूछा ॥ १८ ॥ अब तुम एकाम्रचित्त हो शीघ्र सिद्धिके देनेवाले गुप्तसे गुप्त अविश्वेष्ट चिन्तामणि कल्पको श्रवण करो ॥ १९ ॥ सम्पूर्ण शास्त्रोंके सारभूत और मंत्रोंके उत्तम सारस्पत अर्थर्थं वेदके अतिसारयुक्त इस चिन्तामणि नाम कल्पमें काम्यकर्मके करनेवाले अनेकों यंत्र हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ यह लिखित कल्प सदा जिसके स्थानमें प्रतिदिन पूजित होता है उसके प्रतापको मुनो ॥ २२ ॥ अल्प मृत्युका भय, चोरका भय, भूतप्रेत पिशाच इत्यादिकोंका किया उपद्रव उनके यहाँ नहीं होता ॥ २३ ॥ और अन्य किसी लीबका कियाहुआ कपट भी उस स्थानपर नहीं चलता है ॥ २४ ॥ हे वरानने ! साधकको अविश्वास न करना चाहिये, कल्पमें अविश्वासके करनेसे निस्सन्देह अभिचार होजाता है और संदेह पूर्वक किया हुआ विपरीत ( बस्ता ) होजाता है ॥ २५ ॥ स्नानकर पवित्र हो शुद्ध मनसे कुलदेवताका पूजन कर, फिर एकान्तमें उत्तम यंत्रको लिखे ॥ २६ ॥ सम्पूर्ण प्रयोगोंकी यह विधि कहीहै तीन दिन भौग-विधा-

प्रकुर्वीत पूजाभोगविधानतः ॥ २७ ॥ त्रिरात्रं भूमिशारी  
स्यादुव्रह्मचर्यरतः शुचिः । त्रिदिनाज्ञायते स्वप्रं साधकस्य  
वरानने ॥ २८ ॥ सिद्धादिः—सिद्धं साध्यमर्हं चैव सुसिद्धमथवा  
शुब्रम् । अवश्यं वदाति स्वप्रे मन्त्राधिष्ठानदेवता ॥ २९ ॥ यदा  
न जायते स्वप्रं तद्साध्यं विनिर्दिशेत् । नो चेद्यथाश्रुतं स्वप्रं  
तत्त्वेव विनिर्दिशेत् ॥ ३० ॥ श्रुत्वा देवमुखात्स्वप्रे फलसिद्धिं  
विधानतः । यदा निवारितः स्वप्रे तदा तद्यन्त्रमुत्तमम् ॥ ३१ ॥  
एवं विलिख्य यः कुर्यात्सिद्धिरेव प्रकीर्तिता । अतएव मयो-  
क्तानि यन्त्राणि सुबहून्यपि ॥ ३२ ॥ येन मन्त्रेण संसिद्धियं पां  
येषां प्रजायते । तेन तेन हि तद्ग्राहां निपिद्धं तु परित्यजेत्  
॥ ३३ ॥ विधिरेव प्रसिद्धोऽस्ति यन्त्राणां भूतले कलौ । मन्त्र-  
कोष्ठे तु पश्यन्ति सिद्धसाध्यादि साधकाः ॥ ३४ ॥ न तेषां  
जायते सिद्धिः कलिदोपात्कदाचन । न चेकसाधको लोके  
नैकप्रकृतिको जनः ॥ ३५ ॥ न चेकराशीनक्षत्रं न चेका कुल-  
देवता । यन्त्रं बीजं तथा मन्त्रं चतुर्धा भवाति प्रिये ॥ ३६ ॥

नसे पूजा करे । ब्रह्मचर्यका धारणकर शुद्ध अंतःकरण हो तानि दिनतक  
भूमिमें शयन करे । हे वरानने ! तोन दिनके भाँतरहीं साधकको स्वप्र होता  
है ॥ २७ ॥ २८ ॥ सिद्ध, साध्य, आरंभाव तथा सुसिद्ध इत्यादि लक्षणोंको  
अधिष्ठात् देवता स्वयं प्रकाश करदेता है ॥ २९ ॥ यदि स्वप्र न हो तो  
प्रयोगको असिद्ध समझौ, स्वप्रावस्थामें अनिवारत ( नहीं निपेष किया  
हुआ ) साधक जैसा कुछ स्वप्रमें देवताके मुखसे श्रवण कर उस कथनके  
अनुसार फलसिद्धिको विधानपूर्वक मन्त्रमें लिखकर धारंभ करनेसे निश्चय  
सिद्धिको प्राप्त होगा इस कारण मैंने घटृतसे यंत्र कहे हैं ॥ ३०-३२ ॥  
जिन जिन मन्त्रोंसे जिन २ मन्त्राकी सिद्धि कहो है उन उन मन्त्रोंको प्रहण  
करना चाहिये । निपिद्ध विधिको त्याग देना उचित है, कलियुगमें इस प्रकार  
यंत्रोंकी विधि प्रसिद्ध है । सिद्ध, साध्य, आदि साधकलेग, मन्त्रकोष्ठको देखते  
हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ अतः उनको फलिदोपसे किसी प्रकार सिद्धि नहीं  
होतो, न तो लोकमें एक साधक है और न एक प्रकृतिके मनुष्य है, न  
एक राशि है और न एक नक्षत्र है और न एक कुछदेवता है किन्तु  
अनेकों है ॥ ३५ ॥ हे प्रिये ! यंत्रधीज तथा मंत्र यह चार प्रकारके हैं-

नवैकपञ्चमे सिद्धः साध्यः षड्दशयुग्मके । विसतरुद्रे सुसिद्धो  
वेदाष्टद्वादशो रिपुः ॥ ३७ ॥ सिद्धसाध्यावारिश्वोति सुसिद्धस्तु  
तथा परः । सिद्धः सिध्याति कालेन साध्यः सिद्धचाति वा न  
वा ॥ ३८ ॥ अरिनिर्कृत्तते मूलं सुसिद्धस्तत्क्षणार्थदः ।  
तस्मादैववशाद्राणिं कालं स्वमं महोदयम् ॥ ३९ ॥ साधकस्य  
मनोभावं सम्यग् ज्ञात्वा समाचरेत् ॥ ४० ॥ एतद्रहस्यं परमं  
समीरितं मन्त्रस्य यन्त्रस्य च सिद्धिदायकम् । एताद्विदित्वाऽ  
खिलसिद्धिभाजनं भवन्तु सर्वे भुवि साधकाः सदा ॥ ४१ ॥  
चिन्तामणी कल्पवरे सुगोप्ये श्रीचन्द्रचूडस्य नियोगतो हि ।  
यन्त्रादिसाध्याङ्गमयां हि पीठिकां चकार दामोदरविप्रवर्यः ॥ ४२

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर-  
संवादे दामोदरपण्डितोद्भूत द्वितीयपीठिका समाप्ता ॥

सिद्ध, साध्य, अरि और सुसिद्ध ॥ ३६ ॥ नौ एक पौँछवेंमें सिद्ध, छः दश  
दोमें साध्य, तीन, सात ग्यारहवें सुसिद्ध और चार आठ बारहवेंमें रिपुसंज्ञक  
होते हैं अर्थात् अपनी राशिसे मंत्रधी वा यंत्रराशि (उ६) ९ । १ । ५  
पौँछवीं होतो सिद्ध छठी, दशमी दूसरीमें साद्य, तीसरी, सातवीं ग्यारह-  
वीमें सुसिद्ध और चौथी, आठवीं, बारहवींमें शत्रु होता है ॥ ३७ ॥ सिद्धते  
कुछ कालमें सिद्ध होता है, साध्य सिद्ध होता भी है और नहीं भी होता,  
अरि मूलको काटता है सुसिद्ध तत्काल फलका देता है इस कारण राशि  
काल स्वप्न, महोदय और साधकके मनोरगत अभिप्रायको भले प्रकार जानकर  
किया आरंभ करनी चाहिये ॥ ३८-४० ॥ मन्त्र यंत्रोंकी सिद्धिका देनेवाला  
यह परम पवित्र रहस्य कहा गया, इस रहस्यको जानकर सम्पूर्ण मनुष्य  
भूमंडलमें सिद्धि भावके पात्र होंगे ॥ ४१ ॥ इस प्रकार शिवजीकी आङ्गाको  
स्त्रीकारकर दामोदरजी सुगोप्य चिन्तामणि यन्त्रको यंत्रादिकोकी सिद्धि  
विधान पूर्वक द्वितीय पीठिकाको कहते हुए ॥ ४२ ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणी महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे  
दामोदरपण्डितोद्भूते पं. घलदेव प्रकाशजी मिश्रकृतभाषाटीका-  
सहिते द्वितीय पीठिका समाप्ता ॥ २ ॥

अथ वश्याधिकारः ।

एको देवः स जगति शिवः सर्वदुःखान्तकारी प्रादाच्चक्र  
नयनकमले नार्चितो विष्णुना यः । यः शृङ्गारी गिरिशतनयाद-  
त्तदेहार्द्धभागो लोकानां यो हवनविधिकृत्कालकृदं दधार ॥१॥  
राजां वश्यकराणि दुष्टपुरुषस्त्रीणां जनानां तथा तान्युदृत्य  
महागमाच्च बहुधा यन्त्राणि वीजानि च । अस्मिन्कल्पवरे  
ऋगेण विविधान् गङ्गाधरस्यात्मजो नित्यं सत्यमतिः प्रवक्ष्य-  
तितरां दामोदरः साम्प्रतम् ॥२॥ श्रीशिव उच्चाच्च ॥ राजवश्यं  
महायन्त्रं शृणु दोषि सुशोभितम् । कांस्यभाजनमानीय शुद्धं  
भस्मादिभिः कृतम् ॥३॥ जातीकाष्ठेन विलिखेद्रोचनाचन्द-  
नेन च । साध्यनाम लिखेन्मध्ये वर्तुलं वेष्टयेत्ततः ॥४॥  
तस्योपरि दलान्यष्टौ वकारांस्तत्र विन्यसेत । ततस्तद्वेष्टयेत्  
संम्यग्वर्तुलं पूर्ववत् प्रिये ॥५॥ तस्योपरि प्रकुर्वीत पद्मं  
पोडशपत्रकम् । अकरादिस्वरा लेख्या दले प्रत्येकतः  
क्रमात् ॥६॥ ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यग्प्रेखाभिस्तसृभिस्ततः ।  
मल्लिकाजातिकुसुमैः सिनाम्भोजैः प्रपूजयेत् ॥७॥

सम्पूर्ण दुर्खोंके नाशकरनेवाले कमलनयनसे पूजित विष्णु भगवानको  
चक्रके देनेवाले, शृङ्गार कियामें निपुण, गिरिराजकी पुत्री श्रीपार्वतीजीको  
अद्वीहमें धारण करनेवाले, संसारको हवनकरनेवाले कालकृदेके धारणकरने-  
वाले श्रीशंकरजी महापाजको जय हो ॥१॥ अब नृप, दुष्ट मनुष्य, छी इत्या-  
दिकोंके वश्यकारक यंत्र तथा धीजोंको शास्त्रोंसे उद्धारकर विधि पूर्वक इस  
चिन्तामणि कल्पमें गंगाधरजीके पुत्र दामोदरजी वर्णन करेंगे ॥२॥ श्रीशिवजी  
बोले-हे देवि ! राजवश्यकारक महायंत्रको सुनो, यांसीके पावको लाकर  
भसा गोमय इत्यादिसे शुद्धकरे ॥३॥ फिर जाती वृक्षकी लकड़ीसी कलम बना-  
कर गोगोचन और चन्द्रनसे लिखे, मध्यमें साध्यके नामको लिखे फिर गोलाकार  
खींचे उस गोलाभाकारेके ऊपर अष्टदल कमल बनाकर व अक्षर उनके भीतर  
भरदेवै, फिर एक और कमल दलके ऊपर गोलाकार लिखिये ॥४-५॥ उसके  
ऊपरभी पूर्वचन् सोलह दल कमल लिखे होक कमलको ब्रह्मानुसार अकारादि  
वर्णोंसे पूर्ण करदे ॥६॥ फिर तीन रेता उस सोलह कमल दलके ऊपरभी

अथ वश्याधिकारः ।

एको देवः स जयति शिवः सर्वदुःखान्तकारी प्रादाद्वक्र  
नयनकमले नार्चितो विष्णुना यः । यः शृङ्गारी गिरिशतनयाद-  
त्तदेहार्दभागो लोकानां यो हवनविधिकृत्कालकूटं दशार ॥१॥  
राजां वश्यकराणि दुष्टपुरुषबीर्णां जनानां तथा तान्युद्धत्य  
महागमाच्च बहुधा यन्त्राणि वीजानि च । अस्मिन्कल्पवरे  
ऋगेण विविधाद् गङ्गाधरस्यात्मजो नित्यं सत्यमातिः प्रवक्ष्य-  
तितरां दामोदरः साम्भृतम् ॥२॥ श्रीशिव उवाच ॥ राजवश्यं  
महायन्त्रं शृणु दोषे सुशोभितम् । कांस्यभाजनमानीय शुद्धं  
भस्मादिभिः कृतम् ॥३॥ जातीकाष्ठेन विलिखेद्रोचनाचन्द-  
नेन च । साध्यनाम लिखेन्मध्ये वर्तुलं वेष्टयेत्ततः ॥ ४ ॥  
तस्योपरि दलान्यष्टौ वकारांस्तत्र विन्यसेत । ततस्तद्वेष्टयेत्  
सम्यग्वर्तुलं पूर्ववत् प्रिये ॥ ५ ॥ तस्योपरि प्रकुर्वीत पञ्च  
पोडशपत्रकम् । अकरादिस्वरा लेख्या दले प्रत्येकतः  
क्रमात् ॥ ६ ॥ ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यग्रेखाभिस्तिसृभिस्ततः ।  
महिकाजातिकुसुमैः सिताम्भोजैः प्रपूजयेत ॥ ७ ॥

सम्पूर्ण दुःखोंके नाशकरनेवाले कमलनयनसे पूजित विष्णु भगवानको  
चक्रके देनेवाले, शृङ्गार क्रियामें नियुण, गिरिशकी पुत्री श्रीपार्वतीजीको  
अद्वीङ्गमें धारण करनेवाले, संसारको हवनकरनेवाले कालकूटके धारणकरने-  
वाले श्रीशंकरजी महाराजको जय हो ॥१॥ अथ नृप, दुष्ट मनुष्य, स्त्री इत्या-  
दिकोंके वश्यकारक यंत्र तथा वीर्जीको शास्त्रांसे उद्धारकर विधि पूर्वक इस  
चिन्तामणि कल्पमें गोपाधरजीके पुत्र दामोदरजी वर्णन करेंगे ॥२॥ श्रीशिवजी  
घोले-हे देवि ! राजवश्यकारक महायंत्रको सुनो, कांसीके पात्रको लाकर  
भस्म गोमय इत्यादिसे शुद्धकर ॥३॥ किरजाती वृक्षकी लकड़ीभी कलम बना-  
कर गोरोचन और चन्दनसे लिखे, मध्यमें राज्यके नामको लिखे किरगोलाकार  
खीचै उस गोलाभिकारके ऊपर अष्टदल कमल बनाकर व अधर उनके भीतर  
भरदेवै, किर एक और कमल दलके ऊपर गोलाकार चिह्नितये ॥४-५॥ उसके  
ऊपरभी पूर्ववन् सोढह दल कमल छिर्यै होके कमलको प्रमाणुसार अकारादि  
वर्णोंसे पूर्ण करदे ॥६॥ किर तीन रेखा उस सोढह कमल दलके ऊपरभी

अन्यैश्च श्वेतकुसुमैः सुगन्धैः श्वेतकर्पटैः । संपूज्य यन्त्रराजं तं  
महामोहनसंज्ञकम् ॥ ८ ॥ एवं सप्तदिनं कृत्वा त्रिलोहैर्वैष्टये-  
त्ततः । यो धारयेत्तं शिरसि बाहुमूले गलेऽथवा ॥ ९ ॥  
योषिद्वां पुरुषो वाऽपि कृतनिश्चयसंयुतः । किंकरा इव ते  
सर्वे वशीभूताः सदैव हि ॥ १० ॥

महामोहनयन्त्रम् ।



इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिमहाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे  
तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारे दामोदरपण्डितोदृते  
महामोहनं नाम प्रथमं यन्त्रम् ॥ १ ॥

खीचै, तत्पश्चात् मालवो चमेली श्वेत कमल इत्यादि सुगंधित द्रव्योंसे पूजन  
करै ॥ ७ ॥ उन सुगंधित द्रव्योंसे तथा श्वेत पुष्पोंसे पूजन करे इस यंत्रकी  
पूजा विधिपूर्वक करै, क्योंकि महामोहन नामक यह यंत्र है ॥ ८ ॥ इस  
प्रकार सात दिनतक पूजनकर त्रिलोह ( सोना, चांदी, रांबा, ) में बंदकर  
अर्थात् त्रिलोहके तापीजमें बंदकरके शिर, बाहुमूल, ( दंड ) वा गलेमें धारण  
करै ॥ ९ ॥ किन्तु त्रिश्वास पूर्वक धारणकरै, त्रिश्वास पूर्वक स्त्री वा पुरुषके  
धारण करनेसे सब किंकरके समान उसके वशीभूत हों जायंगे ॥ १० ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे  
दामोदर पंडितोदृते श्लोदेवप्रसादजीमिश्रकृतभायाटोकासदिते तृतीय  
पीठिकायां वशीकरणाधिकारे महामोहनं नाम प्रथमं यंत्रम् ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच-अतःपरं प्रवक्ष्यामि यन्त्रं वै वीजसंपुटम् ।  
राजवद्यकरं श्रेष्ठं जनवद्यकरं तथा ॥ १ ॥ एकमहत्कौ  
समालेख्यं ह्रींकाराणां चतुष्टयम् । ह्रींकारपुटितं पश्चात्साध्य-  
नाम लिखेदधः ॥ २ ॥ अधश्च चतुरो वीजान् ह्रींकारांश्च पुन-  
स्तथा । रेखाद्वयं चतुष्कोणं भूजपत्रे लिखेद्वधः ॥ ३ ॥ रोच-  
नाकुद्धमैनैव श्रीखण्डेन तथैव च । अनामिकारक्तमिश्रं लिखे-  
द्यन्वं सुशोभनम् ॥ ४ ॥ एतद्यन्वं तदा कुर्याद्यदा कुद्धो नरा-  
धिपः । वाऽछते निगडेव्यद्वं सर्वस्वं वाऽपि नाशितुम् ॥ ५ ॥

वीजसपुटं यन्त्रम् ।

ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं  
ह्रीं देवदत्तं ह्रीं  
ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं

तदा तद्यन्वराजं तु संपूज्य विधिव-  
स्वयम् । नानापुष्पेः सुनैवेदीर्मसिश्च  
विविधैः शुभैः ॥ ६ ॥ यथाशक्तया तु  
संभोज्याः कुमार्यो ब्राह्मणास्तथा ।


योगिन्यश्च सुवासिन्यो नमस्कृत्य

सुनिश्चितम् ॥ ७ ॥ तद्यन्वं मुष्टिमायध्य गच्छेद्वै राजमन्दिरम् ।  
तत्कोपं शामयत्याशु वशीकरणमुत्तमम् ॥ प्रसादस्तत्क्षण-  
देवि जायते नाम संशयः ॥ ८ ॥

इति यन्त्र०म्.क.उ.म.सं.त.पी.व. कोपशमने वीजसंपुटं नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥ २ ॥

श्री शिवजी घोल-राजव्यक्ति के द्वयकारक वीजसे पुटित  
परमश्रेष्ठ यंत्रको कहताहूँ ॥ १ ॥ गोत्रोचन, केशर, लालचंदन अनामिका  
(कन उंगलीके धंरेकी उंगली) का सुधिर इन सब द्रव्योंको एक-  
वितकर भोजपत्रके ऊपर दो रेखायुक्त चतुष्कोणयंत्र लिख उस यंत्रके बीचमें  
तीन रेखा कलरना कर प्रथम पंक्तिमें चार ह्रींकार वर्ण लिखे दूसरी पंक्तिमें ह्रीं  
कारसे पुटित सात्यके नामको लिखै तत्पश्चात् दूसरी पंक्तिमें फिर चार ह्रींकार  
लिखे अर्थात् १० ह्रींकार वर्ण और एक सात्यका नाम लिखे ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥  
इस यंत्रका उस समय लिखे कि, जिस समय राजा अविकुद्ध होकर समूर्ण  
पनादिक लेनेकी इच्छाकर कारण रक्षी प्राप्तिके निमित्त इच्छाकरे ॥ ५ ॥  
तब अनेक प्रकारके पुष्प नैवेद्य इत्य दे शुभद्रव्योंसे यंत्रराजका पूजन करे ॥ ६ ॥  
पीछे कुमारी, ब्राह्मण, योगिनी, सुवासिनी इनको निश्चय पूर्वक-

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि स्वामिवश्यं मनोहरम् । य हच्छेत्स्वामिनं कर्तुं यावज्जीवं हि मानवः ॥१॥ तिर्यग्रेखाद्यं कुर्यादीर्धं दक्षिणे चोक्तरे । अन्ते तु कणिकां कुर्यादक्षिणे चोक्तरे पुनः ॥२॥ प्रणवं च तथा श्रीं च साध्यनाम तथैव च । तदन्ते श्रीं च प्रणवं लिखेन्मध्ये तु साधकः ॥३॥ उपर्यपि दलांखींश्च अधोभागे त्रयं, तथा । दक्षिणोत्तरपूर्वं च यावज्जीव स्वामिवश्यकरं यन्त्रम् ।



दलेषु विलिखेत्क्रमात् ॥४॥ क्षकाराः सवि-सर्गन्ताः कोणे श्रीहार-वीजकाः। एवं लिखित्वा तद्यन्तं रोचनाभूर्जपत्रके ॥५॥ शरावसंपुटे क्षित्वा

पुटयेदग्निना ततः । उम्भूत्य स्वाङ्गशीतं च यन्त्रभस्म पिबे-न्नरः ॥६॥ यावज्जीवं भवेत्तस्य स वश्यो नात्र संशयः । तृतीयं तु समाख्यातं स्वामिवश्यकरं परम् ॥७॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी० उमाम० सं० तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारे दामोदरपणिडितोद्भृते यावज्जीवं स्वामिवश्यकरं नाम तृतीयं यन्त्रम् ॥८॥

—नमस्कारकरं भोजनं करावै ॥७॥ फिरं यंत्रराजका मुट्ठीमें दधाकर राजभवनमें जानेसे साध्य व्यक्तिका क्रोध तन् क्षण शांत हो प्रसन्नता होगी, यह उत्तम वशीकरण है ॥८॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी० महाकल्पे उमामहेश्वरसंबादे भाषाटीकासहिते तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारे कोपशमनं वाजसभुदं नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥९॥

श्री शिवजी घोले—अब स्वामी वश्यकारक मनोहर यंत्रको कहताहूँ जिसके प्रयोगके करनेसे जीवन पर्यन्त स्वामी वश्य होता है ॥१॥ दक्षिण उच्चर शृद्धि तिरछी दो रेखाकर उनके दोक्षण उत्तर भागमें दो कणिका निर्माणकर ऊर्ध्व राग तथा अधो भागमें साध्य व्यक्तिके नामको लिख फिर श्री और ओंकारको लिखकर कणिका तथा ओंकारके दलमें विसर्गसहित ध्वनि अक्षर कल्पाकर वाकी स्थानोंमें श्री इस अक्षरको लिखें ॥२-४॥ इस प्रकार उक्त यंत्रको

श्रीशिव उवाच ॥ यदा कस्यापि केनापि कार्यं निर्नाशितं  
भवेत् । तदा महाभियोगेन दिव्यं कोऽपि प्रकारयेत् ॥ १ ॥  
तदा तन्मोहनार्थार्थं कुर्यादिव्यं विचक्षणः । रोचनाकुरुमनेव  
पट्टकोणं भूर्जपत्रके ॥ २ ॥ कोणे कोणे तु ह्रींकारं मध्यदेशे  
लिखेवरः । कोणान्तराले ह्रींकारान्विलिखेतु षडेव हि ॥ ३ ॥  
साध्यताम् लिखेन्मध्ये चतुर्ह्रींकारसंपृष्ठम् । उपर्यथः पूर्वतोऽन्ते  
ह्रींकारांश्चतुरो लिखेत् ॥ ४ ॥ शरावसम्पुटे क्षित्वा पूजयेद्-  
क्तिभावतः । द्वितीयेऽहि तदाकृप्य दिव्यस्तमनयंत्रम् ।  
यन्त्रराजं सुपूजितम् ॥ ५ ॥ दिव्यकाले  
शिखायां तु बद्धवा यन्त्रं प्रयत्नतः ।  
मौनस्थश्चिन्तयेत्कालं फलं वेगेन  
मानवः ॥ ६ ॥ न तदास्य भयं किंचि-  
यन्त्रराजप्रसादतः । दिव्यस्तम्भो भवे  
त्रूनं स लोके साध्यतामियात् ॥ ७ ॥




इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी० दिव्यस्तम्भनं नाम चतुर्थं यत्रम् ॥ ४ ॥

-गोरोचनसे भोज पत्र पर ठिखकर सरव्यों धंकर अप्रिमे पुटितकरै जब  
वह डंडा होजाय तेव उसको खोल्य यंत्रराजनी भस्मको पान करे, इस प्रयो-  
गके करनेसे साध्यव्यक्ति निस्सन्देह जीवनपर्यन्त यशीभूत रहवाहै यह  
तीसरा स्वामीको वशमें करनेवाला पत्र कहा ॥ ६-७ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी० महाकल्पे उमामहेश्वरसम्बादे च० कृ० भापार्दीका-  
सहिते तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारे यावज्जांव  
स्वामिवश्यकरं नाम तृतीयं यंत्रम् ॥ ३ ॥

शिवजी वोले-जय कि किसी पुरुषने किसीके कार्यको विनाशित किया है  
तब वस पुरुषके मोहनार्थ गोरोचन, कुंकुम इन दो वस्तुओंसे भोजपत्रपर पट्ट  
कोण दिव्ययंत्र लिखे ॥ १ ॥ तत्पश्चात् पूर्व और पश्चिम इन दो कोणोंमें  
दो ह्रींकाराश्र लिख इनके अन्तरालमें दो ह्रीं काराश्र और लिखे एवं आ  
ह्रींकार छाए । पुनः पट्टकोण यंत्रके भीदरके भागमें ह्रींकाराश्र संपुटिन् स

श्रीशिव उवाच ॥ यदा कस्योपरि कुद्धो राजा वाञ्छति  
मारितुम् । तदा तन्मोहनार्थाय दुष्टनिग्रहणाय च ॥ १ ॥ रोच-  
नाकुद्धमेनैव लिखेद्यन्वं तु भूर्जके । ह्रींसश्च साध्यनाम च  
ह्यन्ते ह्रींसस्तथैव च ॥ २ ॥ पश्चात्तद्वेष्टयेत्सम्यक चतुष्कोणे  
तु रेखया । उपर्यधो दलांखींखीन्कोणे कोणे लिखेद्वृधः ॥ ३ ॥  
ह्रींकारं च सकारं च - सकारं ह्रीं तथैव च । एवं दलेषु प्रत्येकं  
राजमोहनं, दुष्टमुखस्तम्भन यन्त्रम् ।



लिखेद्वृजिज्चतुष्टयम् ॥ ४ ॥ शरावसंपुटे  
क्षिस्वा संपूज्य च  
विधानतः । दुष्टानां  
च मुखस्तम्भः स  
वश्यो भवति  
क्षणात् ॥ ५ ॥

राजकोपहरं नाम दुष्टमोहनकं परम् । एवं सतादिनं कार्यं  
संसिध्यति न संशयः ॥ ६ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी महाकल्पे राजमोहन दुष्टमुखस्तम्भन नाम पञ्चमयन्त्रम् ॥

-साध्य मनुष्यके नामाक्षर लिख अन्य चार कोणोंको भी ४ ह्रींकाराक्षरसे  
बेष्टिकर दिव्य यंत्रराजको पूर्ण करै । एवं सब १६ ह्रींकाराक्षर हुए ॥ ३ ॥  
॥ ४ ॥ इस प्रकार यंत्रराजको निर्माणकर शराव ( सरदया ) सम्पुटमें  
रखकर भक्तिभावसे पूजनकर दूसरे दिन शरावमेंसे निकालकर ऐष्ट सुहृत्तमें  
यत्पूर्वक शिखामें धौथे फिर वेगसे भीन हो काढ और फलका चिन्तवन करे  
॥ ५ ॥ ६ ॥ तो इस साधक व्यक्तिको किसी समयमें भी किसीसे भय नहोगा  
फिन्तु दिव्यस्तम्भन होकर लोकमें साध्य भावको प्राप्त होगा ॥ ७ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी महाकल्पे प्रत्यक्षिद्विप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे  
५० घलडेवप्रसादमित्रकृतभाषाटीकासाहिते तृतीयपीठिकायां वशी-  
करणाधिकारे दिव्यस्तम्भनं नाम चतुर्थं यन्त्रम् ॥ ४ ॥

श्री शिवजी थोले-जव कि, किसी समय किसीके ऊपर राजा कुद्ध होकर,  
उसको मारनेकी इच्छा कर तब राजाके मोहन तथा दुष्ट राजानुयायी पुढ़ोंके

श्रीशिव उवाच ॥ यदा कुद्रः प्रभुर्नन् धातं कर्तुं हि वाञ्छ-  
ति । तदा स्वजीवरक्षार्थं यन्त्रं मृत्युञ्जयं लिखेत् ॥१॥ आनीय  
भूर्जपत्राणि लिखेत् पत्रद्वयोपारि । मध्ये नाम लिखित्वा तु  
चतुष्प्रकोणं तु रेखया ॥ २ ॥ एवं सप्तचतुष्प्रकोणं लिखेष्ठोहश-

महामृत्युञ्जययन्त्रम् ।



लाक्या । तस्योपारि दलांब्रांश्च  
चतुर्दिक्षु विलिख्य च ॥ ३ ॥  
ईशानादौ लिखेष्ठ ला लि ली  
लु लू च दक्षिणे । ले लै लो  
लौ पश्चिमे च लं लः स्पादय  
चोत्तरे ॥४ ॥ एवं द्वादशादलेषु  
प्रत्येकं वीजमेकक्षम् । त्रिशूलं  
च चतुष्प्रकोणे सविन्दुं विलिखे-  
न्नरः ॥५॥ एवं यन्त्रद्वयं लेख्यं सं-  
पुटं कारयेत्ततः । निक्षिप्य भूमौ

तद्यन्तं साधकश्चोत्तरासुखः ॥ ६ ॥ तस्योपारि क्षिपेत्रूनं महतीं च  
—निमहके अर्ध गोरोचन और कुंकुमसे भोजपत्रपर इस प्रकार यंत्रको लिखे  
॥ १ ॥ कि, चौकोर टम्बी रेखा यैच कर्णिका युच्छर ऊपर नीचे के भागमें  
तीन दल स्थापितकर हीं सः सः हीं इस प्रकार प्रत्येक दलके भीतर उक्त  
चार वीजोंको लिखकर रेखाके मध्यभागमें हीं सः इन दो वीजोंसे पुष्टि  
कर साध्यव्यक्तिका नामाक्षर लिखे, शरायमें संपुष्टिकर पूजन करेतो दुष्टोंका  
मुखरतंभन होगा और साध्यव्यक्ति वशीभूत होगा ॥ २-५ ॥ राजकोपका  
नाशक दुष्टोंके मुखरतंभनकारक इस यंत्रका सात दिनतक पूजन करनेसे  
निसन्देश कार्य मिढ़ होता है ॥ ६ ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणी भद्राकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर -  
सम्बादे वलदेवप्रसादमिश्रविद्वित्तमापाटी कासाद्विते  
कृतीयर्थिकात्मां चशीरणायिकारे राजमोहनं  
दुष्टमुरापत्तमनं नाम पंचमं यंत्रम् ॥५॥

श्रीशिवजी बोले—जब कि, स्वामी कोधित होकर धात करनेवा इच्छा कैरतथ  
अपने जीवनकी रक्षाके लिये मृत्युञ्जयनाम यंत्रको लिखे । भोजपत्रके दो टुक-

शिलां दृढाम् । पश्चात्तसंसुखे गच्छेत्कोपस्तस्य प्रशाम्यति  
॥ ७ ॥ मृत्युञ्जयं महायन्त्रं प्राणरक्षाकरं परम् । यदा कस्यो-  
परि कुञ्जः कालोऽपि हि दुरासदः ॥ ८ ॥ नदापि यन्त्रराजोऽयं  
रक्षत्येव न संशयः ॥ ९ ॥

इनि श्रीयन्त्रविन्नामणौ० वशीकरणाधिकारे महामृत्युजयं नाम षष्ठ्य यन्त्रम् ॥६॥

विवादविजयंत्रम् ।

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः

संप्रवल्प्यामि विवादे विजयं  
नृणाम् । यन्त्रं कुर्यात्प्रयत्नेन  
सर्वलोकमनोहरम् ॥ १ ॥ मध्ये  
नाम लिखित्वा तु वर्तुलं वेष्टये-  
त्ततः । चतुर्दलं ननः कुर्या-  
द्वीजयुक्तं तु मानवः ॥ २ ॥ द्वाँ  
गैँ ह्रीं गैँ ह्रीं प्रनिदले रोचनाकुञ्ज-  
मेन च । भूर्जपत्रे समालिख्य  
पूजयेद्वक्तिमान्वरः ॥ ३ ॥ धूपे-

—डोके ऊपर पृथक् २ घटुञ्जोण (चीकोर) सात रेखायाला चारों भागमें तीन २  
कमलदलसे सुशोभित और चारों कोनोंमें त्रिशूल लगाकर लोहेकी कलमसे यंत्र-  
राजको लिखै । तत्प्रान् वक्त्रके भीतर सात्य मनुष्यके नामके अक्षर लिख  
ईशान विशावक द, ला, लि, ली, लु, लु, ले, लै, लो, ली, लं, लः इन वारह  
अधरोंको प्रत्येक फोष्टमें लिखै, इस प्रकार साथरु दो यंत्रोंको लिखकर उस-  
रकी ओर मुख्यकर बैठ गृहीमें रक्खी हुई एक भारी शिलासे दाखकर यदि  
माध्यव्याप्तिके समुद्र जायगा तो वह साध्यव्याप्ति शोधहो दूर करके प्रसन्न  
होगा, कारण कि यह मृत्युञ्जयनामरु यंत्र प्राणोंकी रक्षा करनेवाला है,  
इसका प्रताप एकबार कालके फोष्टमें शांवकर रक्षा करनेको निस्सन्देह  
समर्प होगा ॥ १-९ ॥ इति दुष्टयद्वक्तरं महामृत्युञ्जयं षष्ठ्य यन्त्रम् ॥ ६ ॥

भीशियज्ञी बोले—भव विवादमें जयरो देनेवाले सर्व मनोहर इस यंत्रको  
विषय धूर्यक निर्माण करै ॥ १ ॥ निर्माणका विशान—एक गोलाकार यक्षहो  
कुकुमसे भोजपत्रपर रैचकर पार कमलदलोंसे युक्त हर धूपमें सात्य व्यक्तिके

सकाराः सविर्गान्ताः कोणे कोणे तु विन्यसेत् ॥ ३ ॥ प्रणवं  
मुख्यदिग्लेख्यं चतुर्दिक्षु ऋभेण च । ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यक्  
चतुष्कोणं द्विरेखया ॥ ४ ॥ खररक्तेन सलेख्यं भूर्जपत्रे मनोहरे ।  
एतद्यन्वं सुसंपूज्य प्रक्षिपेष्टुग्धमध्यतः ॥ ५ ॥ दुष्टाः सर्वे  
विनश्यन्ति राजा मानं ददानि च । एकविंश्टिनं यावत्तावत्-  
त्रैव यन्त्रकम् ॥ ६ ॥

इति यन्त्रचिन्ताम ० उ० म० स० तृतीयपौटिकायां पिशुनवद्यकरं  
नाम नवमे यन्त्रम् ॥ ९ ॥

व्यवहारविवादजयक यन्त्रम् ।



श्रीशिव उवाच ॥ अथातः  
संप्रवद्यामि विवादे जयवर्ज्ज-  
नम् । अवहारे भयहरमिदं  
यन्वं प्रश्नास्यते ॥ १ ॥ पूर्वपंक्तो  
समालेख्यं ह्रीं मा ह्रीं च तथैव  
च । तस्यापः साध्यनामं नच-  
तुष्कोणेन वेष्टयेत् ॥ २ ॥ कोणं  
कोणे दलं कुर्यान्मध्यदेशो  
तथैव च । दक्षिणे रोधवीजं तु  
नैकते अं तथैव च ॥ ३ ॥ पश्चिमे

—अष्टदलसे विभूषितकर चतुष्कोणसो दो रेखाओंसे युक्तर चक्रके भीतर  
साध्यव्यक्तिके नामाक्षर लिप्त प्रतिकोणमें विष्णु मिलाकर पूर्वादि चारोदिशा-  
आम प्रणवको लिप्ते । किर दुष्ट मोहन भेत्रक इन चंद्रका विषानपूर्वक  
पूजनकरेक २१ दिनतक दूषसे न्यापित रसनेसे दुष्टोंका मुखमर्दन होगा ॥ १-६ ॥

इनि श्रीयत्रचिन्तामणी महावत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदं उनामहेभरसंदादे  
तृतीयपौटिकायां वर्णाकरणाधिकारं पं० यल्लदेव० भा० ट००-  
सहिते पिशुनवद्यकरं नाम नवमे चंद्रम् ॥ ९ ॥

स्तम्भवीजं तु वायवे क्षं तयैव च । उत्तरे क्षोभवीजं तु  
ईशान्ये क्षं तयैव च ॥ ४ ॥ पूर्वे च मोहवीजं तु आग्रेययां क्षं  
तयैव च । एवं चाष्टदले न्यस्य वीजानि द्वादशैव तु ॥ ५ ॥  
शरावसंपुटे क्षिप्त्वा यन्त्रराजं जयावहम् । अभ्यव्यं गन्धपु-  
ण्डादीर्पिश्चाष्टभिरेव च ॥ ६ ॥ लोकपालांस्तु संपूज्य भोज-  
यित्वा कुमारिकाम् । वलिदीपैः प्रपूज्याय अष्टदिक्षु क्रमेण तु  
॥ ७ ॥ तावत्पूज्यं प्रयत्नेन यावत्कार्यं च सिध्यति । व्यवहार-  
जयं नाम विवादविजयं तया ॥ ८ ॥ राजां कुले विवादे च जये-  
न्नास्त्यत्र संशयः । मानोन्नतिभवेत्स्य यन्त्रराजप्रसादतः ॥ ९ ॥  
इति श्रीयन्त्र०दा०प०ते व्यवहारे विवादे च जयदं नाम दशमं यन्त्रम् ॥ १० ॥

**श्रीशिव उवाच ॥** यमिच्छेद्वशागं कर्तुं यावजीवं वरानने ।  
तदा यन्त्रं प्रकुर्वन्ति गाणपत्यं सुसिद्धिदम् ॥ १ ॥ भूर्जपत्रं  
समानीय विस्तृतं छिद्रवर्जितम् । अनामिकारक्तमिश्रं द्विर-  
-रेखामें हीं, माँ, हीं इन वीजोंको लिख नीचेही वर्किमें साध्यव्यक्तिके  
नामके अक्षर लिखे और उक्तदलोंमें वश्यमाण वीजोंकी पूर्ण करे । विधान  
यथा—दक्षिणदलमें रोधवीजहीं, नैऋत्यकोणमें शू धीजहीं, उत्तरदिशामें क्षोभ  
वीजहीं, ईशानकोणमें क्षं धीजसो, पूर्वदिशामें मोहवीजहीं, अप्सिकोणमें क्षं  
धीजहीं लिखे, इस प्रकार जयके देनेवाले यंत्रको निर्माणकर शरावसंपुटमें  
रखकर अष्ट गंध धूप दीप नैवेद्यादिकोंसे पूजनकर आठों दिग्भाओंमें वलि-  
दानादि क्रियाओंको विधिपूर्वीकरके इन्द्रादि लोकपालोंका पूजनकर कुमा-  
रियोंसो भोजन करावै और जयतक कार्य सिद्ध न हो तश्वक उक्त विधान-  
पूर्वक यश्रराजका पूजन करता रहे तो विवादमें यश्रराजके प्रसादसे जयको  
प्राप्त हो राजकुलमें प्रतिष्ठा और उन्नतिशा भागी होगा ॥ १-९ ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणी महाश्वल्ये प्रत्यभ्सिद्विद्वदे उमामहेश्वरतंत्रदे  
घटदेवप्रसादजीभिष्महृतभापाटी रासहिते व्यवहारे विवादे  
च जयदं नाम दशमं यंत्रम् ॥ १० ॥

श्रीशंकर वोले—हे धरानने ! यदि जीवनपर्यन्त फिसी वर्किहो वशमें  
फरनेही इच्छा हो तो शीघ्र सिद्धिके देनेवाले गणपति यंत्रसा प्रयोग करे  
॥ १ ॥ विधान यथा—पीटे और छिद्रादि भोजनवेळे दुरुदेहके ऊपर दो-  
रेखामेंसे भिप्रित चतुर्दोष यंत्रको अनामिना रूपिर, हाथीका मद, लाघवा

यावजीववस्थकरं गणपत्यं यन्त्रम् । दस्य मदं तथा ॥ २ ॥ यावकस्य  
गें गें गें गें गें गें गें गें गें

हीं हीं हीं हीं हीं हीं हीं  
कों हीं कों गें देवदत्तः गें  
हीं हीं कों हीं हीं कों हीं  
. हीं हीं हीं हीं

गें गें गें गें गें गें गें गें

रसं चैव रोचनं च तथैव च ।  
एतच्छतुष्कं संयोज्य जातीकाष्टेन  
संलिखेत ॥ ३ ॥ ह्रांकाराः सत्  
संलेख्याः पूर्वपंक्तौ वरानने ।  
अधः पद्मकौ तु संलेख्यं क्रों हीं  
कलीं गें तथैव च ॥ ४ ॥ साध्य-  
नाम तथा गं च ततः पंक्तौ  
तृतीयके । क्लीं ह्रां क्रों च विवी-

जानि ह्रां क्लीं क्रों ह्रां तथैव च ॥ ५ ॥ ततः पद्मकौ चतुर्थ्या  
च ह्रांकाराणा चतुष्टयम् । एवं संलेख्य वीजानि विविशाति-  
समूहकम् ॥ ६ ॥ पश्चात्तद्वेष्येत्सम्यक् चतुष्कोणं तु रेखया ।  
गैंकारा दश संलेख्याः पूर्वं पश्चिम उत्तरे ॥ ७ ॥ प्राद्यमुखास्तु  
सुसंलेख्यास्त्रिशत्संख्या गकारकाः । सुक्षेत्रात् समानीय  
मुत्तिकाँ कृष्णवर्णकाम् ॥ ८ ॥ तथा गणपतिं कृत्वा यन्त्रं  
तस्योदरे क्षिपेत् । संष्टुप्य गन्धपुष्पाद्यैरिमं मन्त्रमुदीरयेत्  
॥ ९ ॥ देवदेव गणाध्यक्षं सुरासुरनमस्कृतं । देवदत्तं महावद्यं

—स, गोरोचन, इन सम्पूर्ण वस्तुओंको एकत्रितकर जातीयुक्तकी लकड़ीकी  
कलम बना भोजपत्रके ऊपर दो रेखावाले चतुष्कोण यंत्रको खंडकर उक्त  
यंत्रके भीतरके भागमें४ तिरछो रेखा लिखे । फिर प्रथम रेखामें सात हीं बीज  
और दूसरी रेखामें क्रों, हीं, क्लीं, गें इन चार बीजोंको आदिमें लगाय साध्य-  
व्यक्तिके तांमक्षरको लिख अन्तमें एक गं बीज और लिखे, पुनः तीसरी  
पीक्षमें छीं हीं, क्लीं, ह्रां, क्लीं, क्रों, हीं इन सात बीजोंको स्थापितकर चौथी  
पंक्तिमें हीं हीं, हीं, हीं, इन चार बीजोंको लिख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशामें  
दश दश गोवीज लिखे, अर्थात् यंत्रके पूर्वादि भागोंमें लिखे दक्षिणमें नहीं ।  
तत्पश्चात् पवित्र स्थानसे काली मिठी लाकर गणेशजीकी प्रतिमाको निर्माण-  
कर उक्त यंत्रको गणेशजीके उदरमें स्थापितकर गंथ पुष्पादिकोंसे पूजनकर  
“ देवदेव गणाध्यक्षं सुरासुरनमस्कृतं । देवदत्तं ( यदा साध्यव्यक्तिक

यावज्जीवं कुरु प्रभो ॥ १० ॥ इमं मन्त्रं समुच्चार्य हस्तमात्रं  
निखन्य च । क्षित्वा तत्र गणाध्यक्षं पूर्यित्वा तु मृत्तिकाम्  
॥ ११ ॥ यावज्जीवं भवेद्दृश्यो गणराजप्रसादितः ॥ १२ ॥

इति श्रीप० वशी० यावज्जीववद्यकरं गणपत्यं नामैकादशं यन्त्रम् ॥ ११ ॥


श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवद्यामि जनवश्यकरं परम् ।  
मध्ये नाम लिखित्वा तु ईकारं विलिखेदधः ॥ १ ॥ त्रिरावृत्तं  
तु संवेष्ट्यभूर्जपत्रे सुविस्तुते । चतुर्दले लिखेत्पश्चात्पूर्वादौ  
दिक्कचतुष्टये ॥ २ ॥ ॐ नमो ॐ नमो लेख्यं पश्चिमे पूर्वके दले ।

यावज्जीवं जनवश्यकरं यन्त्रम् ।

ॐ अजिते अजिते चैव लिखेन  
दक्षिण उत्तरे ॥ ३ ॥ राज-  
वश्यकरं नाम यन्त्रराजं मनो-  
हरम् । विद्रिनं पूजयेत्त्रित्यं  
त्राह्मचर्यरत्तो नरः ॥ ४ ॥  
त्राह्मणं भोजयेत्त्वैकं चतुर्ये-  
ऽहनि सुप्रभे । त्रिलोहवेष्टितं  
कृत्वा बाहुभूले च धारयेत्  
॥ ५ ॥ हैमं च राजतं चैव  
ताम्रं चैव विशेषतः ॥ यन्त्रस्य

—नामोदारण करना योग्य है ) महावश्यं यावज्जीवं कुरु प्रभो॥” इस मंत्रका  
दर्शाण करता हुआ हाथभर जमीनको रोदकर उसमें गणेशजीकी प्रतिमाको  
बदंकर ऊपरसे मिट्ठी बाल यन्त्र कर दे, साथ्य व्यक्ति गणेशजीके प्रसादसे  
जीवनपर्यन्त वशमें रहेगा ॥१-१२ ॥ इति यावज्जीववश्यकरं यंत्रम् ॥ ११ ॥

भीशिवजी योछे—हे प्रिये ! जन वश्यकारक यंत्रको कहता हूं, उसकी  
प्रियिको मुनो । हीन रेता युक्त एक गोडाकार घकडो कपूर, कुंकुम, गोरो-  
चन, कलूरी इन सब बखुओंकेद्वारा भोजपश्चके ऊपर लिए पूर्वादि घारों  
दिलाओंको कमल दलसे खेष्टित कर, तत्पश्चान् उक यंत्रके मध्यमें साथ्य-  
व्यक्तिके नामाशयोंको अन्तमें ईकार द्वागाढ़र लिते और पूर्व पश्चिमदलोंमें  
अजिते इनको स्थापितकर मन्त्रवर्यपूर्वक तीन दिनतक गन्य पुस्तादिहाँसे  
पूजन कर दीये दिन एक श्रावणकी भोजन करा प्रातःहाटोंके समय त्रिलोह



धारणं श्रेष्ठं बाहुमूले गलेऽथवा ॥ ६ ॥ सर्वेषां चैव  
यन्त्राणां विधिरेष उदाहृतः । सुभगो दर्शनीयश्च स्वजनानां  
विशेषतः ॥ ७ ॥ यन्त्रस्य धारणादेवि स भवेन्नात्र संशयः ।  
कर्ष्णरुक्मुमाभ्यां च रोचनागरुकेसरैः ॥ ८ ॥ लिखेद्यन्तवरं  
श्रेष्ठं मन्त्रतन्त्रविचक्षणः ॥ ९ ॥

इति श्रीयन्त्रविद् ० म० प्र० उ० त० पी० व० दा० यावज्जीवे  
जनवद्यकरं नाम द्वादशं यन्त्रम् ॥ १२ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ जगद्वद्यर्थं महायन्त्रं शृणु देवि सुशोभ-  
नम् । कर्ष्णं मृगनाभिश्च चन्दनं सोचनं तथा ॥ १ ॥ जातीका-  
त्रेन संलेख्यं भूर्जपत्रे प्रयत्नतः । प्रणवं च वकारं च जे ही  
डं च तथैव च ॥ २ ॥ पूर्वपद्मतौ तु संलेख्यं ताराद्यं बीजप-  
जगद्वद्यकर यन्त्रम् ।

ॐ वं जे ही डं
डं ही अ० डं
व डं जगत् वं ऊ ही

ञ्चकम् । दं ही ऊ प्रणवं चैव डंकारं  
च तथैव च ॥ ३ ॥ पंक्ती द्वितीये  
संलेख्यं यत्नतो बीजपञ्चकम् ।  
तृतीयपक्षों संलेख्यं वंकारं तदनन्त-  
रम् ॥ ४ ॥ उकारं च जगत्राम  
वंकारं तदनन्तरम् । हीकारश्च  
ततश्चान्ते एवं वै बीजपञ्चकम् ॥ ५ ॥

( सोना, चांदी, तांदा ) में वेष्टितकर दण्ड भथवा गलेमें धारण करेगा तो  
इस मनोहर राज्य वद्यकारक यंत्रधरके प्रतापसे इवयन्त्रुणका दर्शनीय  
तथा अति मानोद्देय होंगा ॥ १-५ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादं  
प० वल्लदेवपसादभिन्नकृतभाषणटीकासहिते तृतीयपोठिकायां  
यावज्जीवे जनवद्यकरं नाम द्वादशं यंत्रम् ॥ १२ ॥

श्रीशंकरजी थोले-हे देवि ! जगन्‌के वद्यकारक अतिशोभायमान यंत्रको  
श्रवण करो । उसका विधान यह है-दो रेखायुक्त एक धीकोर यंत्रको भोज-  
पत्रक ऊपर चमोलीकी लकड़ीकी कलम बनाकर, केशर, कम्ती, लालचन्दन,  
गोरोचनसे लिखकर उक्त यंत्रके भाँतर तीन तिरछी रेखा लेंचकर पहली  
नेत्रामें औं, वं, जे, ही, डं; दूसरी रेखामें दे, हं, ही, ओं, डं; तीसरों रेखामें वं,

तत्रापि विलिखेन्नुनं टंकारं तु चतुर्थकम् । पवं वीजानि संलेख्य  
चतुःकोणं तु कारयेत ॥ ६ ॥ द्विरेखया महाकार्यं जगद्गृह्यकरं  
परम् । पूजयेत्विदिनं देविसुगन्धेः सुमनोहरेः ॥ ७ ॥ विलोहं-  
वेष्ठितं कृत्वा भारत्येष्टाहुमध्यतः । जगद्गृह्यं भवेत्स्य यन्त्रं  
यावत्तु तिष्ठति ॥ ८ ॥ संपूज्य नित्यमेवादौ यन्त्रं देवार्च-  
नादिषु ॥ ९ ॥

इति श्रीशिवचिं ० म० प्र० ३० त० त० व०दा० जगद्गृह्य ग्रयोदश यन्त्रम् ॥ १३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ यदा स्वभृत्यः कुद्धः सन्मर्म सर्वं प्रका-  
शते । न शक्यते निराकर्तु देशकालवलेन च ॥ ? ॥ तदा  
तन्मोहनार्थाय मूर्कायार्थम्य सिद्धये । यन्त्रं पिशाचिकानाम  
कर्तव्यं सुविचक्षणः ॥ ? ॥ साध्यनाम लिखित्वा तु वर्तुलं  
पिशाचियन्मम । वेष्ठयेत्ततः । चतुर्दलं प्रकर्तव्यं वीजयुक्तं

<sup>दी</sup>  
<sup>देवदत्तः</sup>  
<sup>४५</sup>

मनोहरम् ॥ ३ ॥ हीँकाराशतुरो  
लेख्या दलमध्ये चतुर्दिशम् । गोचना  
भूर्जपत्रे तु लेखन्या विलिखेत्रः ॥ ४ ॥  
संपूज्य गन्धपुष्पादैर्घ्यपैर्नानाविधेरपि ।

टं, जगन् वं, उ, हो थीजोंको लिखे । तत्पश्चात् तीन दिनतक गन्ध पुष्पादि-  
फो से पूजनकर प्रियोहमें पंदकर दंडमें धारण करे ती जरतक यह यंत्र दंटमें  
धंधा रहेगा तथतक जगत् वद्य रहेगा । परन्तु प्रथम देवता आराधनके समय  
प्रतिदिन नियमपूर्वक यंत्राजका पूजन करना योग्य है ॥ १-९ ॥

इति धीयंत्रचिन्तवामणो महाइत्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे तृतीय-  
पीठिकायां यगी करणापित्तरे पं० यत्तदेवप्रसादमिश्रहृतभाषाटीकासदिते  
जगद्गृह्यं ग्रयोदशं यंत्रम् ॥ १३ ॥

भीषितजी येले, हे प्रिय ! यदि सेवक कुद्ध होकर ममूर्ण घनादिकहो  
प्रदाशकर नादा करनेके यत्नमें उद्यत हो परन्तु देशकाटके यशसे स्वामी उससे  
किसी प्रकार निषेधमो न पर सहे, तथ उसके वश्यके लिये एक वर्तुल शक्त  
भोजपत्रके ऊपर गोरोधनसे गोपकर पूर्णादि धारो दिग्भाओंमें एमउ दृढ़मे

ततस्तदधिमध्ये तु क्षिपेद्यन्तवरं शुभे ॥ ५ ॥ स वश्यो जायते  
नूनं यन्त्रराजप्रसादतः ॥ यन्त्रं पिशाचिकं नाम भृत्यवश्यकरं  
परम् ॥ ६ ॥ न देयं यस्यकस्यापि स्वयं रुद्रेण भाषितम् ॥ ७ ॥

इति यं० चिं० भृत्यवश्यकरं पिशाचिसंज्ञं चतुर्दशं यन्त्रम् ॥ १४ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ क्रूरप्रकृतिकः स्वामी यदा संसेव्यते जनैः  
सेव्यमानोऽपि दि सदा भवत्येवं दुराग्रही ॥ ? ॥ खलेः परिवृतो  
नित्यं दुराचारो महीपतिः । उत्तमो वाऽधमो वाऽपि म्लेच्छो वा  
प्रभुतां गतः ॥ २ ॥ यन्त्रं कालानलं कुर्यात् दा तद्वश्यसिद्धये ।  
साध्यनामाक्षरं लेख्यं ह्रीँ कारे गर्भमध्यगम् ॥ ३ ॥ यावन्तश्चा-  
क्षरा नाम्नि तावन्तश्च तथा लिखेत ॥ ईकारमन्ते संलेख्यं रोच-  
नाभूर्जपत्रके ॥ ४ ॥ विरावर्तं चतुष्कोणं दीर्घेण फलवत्कृतम् ।  
क्रूरवश्यकरं कालानलयन्त्रम् ।

ह्रीँ ह्रीँ ह्रीँ ह्रीँ ई

-युक्तकर चक्रके भीतर सेवकके नामके अक्षरोंको लिख पूर्वादि चारों दिशाओंमें हींकार बीजोंको स्थापितकर पिशाचिका नाम यंत्रको लिखे । फिर गंध पुष्पादिकोंसे उक्त यंत्रका पूजनकर दर्हीके भीतर रखदे तो वह सेवक व्यक्ति-निधय वशीभूत होगा । यह पिशाचिका नामक यंत्र सेवक व्यक्तिके वशका परम स्थान है । इसको श्रीशिवने स्वयं प्रकाशित किया है, अतः प्रत्येकको न देना चाहिये । किन्तु अधिकारिकोही देना योग्य है, नहीं तो गुप रखेये ।

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणीं महाकल्पे प्रत्यश्शसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे  
तृतीयपीठिकायां बलदेवप्रसादमिश्रकृतभापाटीकायां भृत्यवश्य-

करे पिशाचिसंज्ञं चतुर्दशं यंत्रम् ॥ १४ ॥

श्रीशिवजी बोले—हे शैलमुरे ! यदि दुष्ट पुरुषोंसे युक्त क्रूरप्रकृति स्वामी  
मनुष्योंके यथायोग्य सेवन करनेपरभी अपने दुरामह भास्तको न छोड़, तथ  
उसके मोहनके लिये गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर तेन रेतासे मिथित चतु-  
ष्कोण कालानल यंत्रको लियकर हीं बीजकी रेताके भीतर साध्यव्यक्तिके  
नामके अक्षर लिख भंतमें ईस बीजको लिखे । परन्तु जितने साध्यव्यक्तिके

राजिकाप्रतिमां कुर्यात्तपादस्य च पांसुना ॥ ५ ॥ हन्मध्ये  
प्रक्षिपेत्तस्य यन्त्रं कालानलं महत् । संपूज्य प्रतिमां तां तु  
चुल्लीपार्श्वे निखन्य च ॥ ६ ॥ पूरयेत्तां प्रयत्नेन चतुर्दश्यां महा-  
निशि ॥ एतत्करणमात्रेण स वश्यो जायते ध्रुवम् ॥ ७ ॥ अजा-  
रत्तेन संमिश्रं भक्तं पूर्पं तथैव च । वलिदानं प्रदत्तव्यं दिव्या-  
लप्रीतये तदा ॥ ८ ॥ महाकालाय स्वाहेति मन्त्रेण जुहुया-  
ततः । एवं क्रमेण संस्कृत्य तत अष्टोत्तरं शतम् ॥ ९ ॥ तदेव  
भक्तं साज्यं तु रक्तपुष्पेश्च मिश्रितम् । यन्वं कालानलं नाम  
त्रिदशैरपि पूजितम् ॥ १० ॥


इति श्रीयंत्रचिन्तामणी कालानलं नाम पञ्चदशं यंत्रम् ॥ ११ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ वाणिज्यार्थं तु वाणिज्यं लाभार्थं वाञ्छितं  
पथि । तेषां मध्ये यदा कोऽपि प्रदुष्टो जायते नरः ॥ १ ॥  
मार्गदेशो प्रभुर्वापि तदा यन्त्रं प्रकल्पयेत् । ह्वाँकारोदरमध्ये  
तु साध्यनाम लिखेन्नरः ॥ २ ॥ उपरिष्टाच्चतुर्दिक्षु स्वाहान्ते  
—नामके अक्षर हों वरनेही ही वर्णके होने घाहियं, अर्थात् हीं पीजोंकी कोई  
मुख्य गणना इस प्रसंगमें नहीं है, इसका उदाहरण यंत्रमें देसना, घट्यशात्  
शृश्के नीचेसे धूलिलाकर एक राजिका प्रतिमाको निर्माणकर उस प्रतिमाके हृश्य  
मागमें उक्तकालानल यंत्रको स्थापितकर गंधादिकोंसे पूजन करके कृप्यापश्चकी  
राधिमें धूलेकी कर्वटमें रोदकर उक्त प्रतिमाको मन्त्रसहित गाढ़दे, फिर उक्तरेके  
ग्निरसे मिले भातस दिव्यालोकी प्रसन्नताके लिये वलिदानकरके उक्त पदार्थमें  
घी लाल धूल औं महाकालायेति मन्त्रसे अष्टोत्तरशत जपकरे तो इस देवताओंके  
पूजित काटानलके प्रयोगसे साध्यमनुष्य निश्चय बशीभूत होजायगा ॥ १-१० ॥

इति भाषाटीकासदित यंत्रचिन्तामणिही एवीयपीठिकामें काटानल-  
नामवाला पंद्रहव्यां यंत्र ॥ १५ ॥

भीशिवजी घोडे-यदि वाणिज्य व्यवहारके करनेवाले सुगरोंको वाणिज्य  
मार्गमें प्रभु अपवा अन्य कोई व्याप्ति दुष्यद्वार्ह हो तो उनके बशके लिये  
स्वरूप गोरोधनसे भीजपत्रके ऊपर दो रेतावाले चतुर्दश्यां यंत्रको ठिसरकर  
भीचरके भागमें ही पीजिरेस्ताके मध्यमें साध्यशाहिके नामाश्रयेदो निर्माणकर

प्रणवादिकम् । मध्ये आकर्षय लिखेच्चतुर्दिशु क्रमेण तु ॥ ३ ॥  
पथातद्वेष्टयेद्यन्तं चतुर्कोणं द्विरेखया । कोणे कोणे विशूलै  
द्वौ चतुर्दिशु प्रकल्पयेत् ॥ ४ ॥ एवं कृत्वा प्रयत्नेन पूजयित्वा  
उचित्पृष्ठपिशाचयन्त्रम् ।




सुगन्धकेः । स्वरक्तेन तु संमिश्रं रोचनाभूर्जपञ्चके ॥ ५ ॥  
लिखित्वा खण्डवल्कृत्वा रहसि प्रक्षिपेत्ततः । ओमाकर्षय  
स्वाहा इमं मन्त्रं जपेतदा ॥ ६ ॥ नक्षणाजाग्रते वश्यो महा-  
कूरोऽपि मानवः ॥ ७ ॥

इति य० चि० ना० म० प्र० उ० स०त० पी० व० दामोदरपण्डितो-  
द्वै दृष्टवशीकरणं उचित्पृष्ठपिशाचिकं नाम षोडशं यन्त्रम् ॥ १६ ॥

-पूर्वादि चारों दिशाओंमें ओं आकर्षय स्वाहा इसके यंत्रके भीतरही लिखे  
कि, जिससे साधकके नामके अक्षर मध्यगत हो जाय, परन्तु यंत्रके चारों  
कोनोंमें दो त्रिशूल भी लिखने योग्य हैं । किरणशादिकोंसे पूजन ओं आक-  
र्षय स्वाहा, इस मन्त्रको पढ़कर यंत्रके दुकडेकर उक्त मार्त्तमें ढालदें तो अवि-  
कृ प्रकृतिवाला मनुष्यभी उसी समय वशीभूत हो जायगा ॥ १-७ ॥

इनि भाषाटीकासहित यंत्रचिन्तामणिका वृत्तियसीठिकामें उचित्पृष्ठ-  
पिशाचिनामक सोलहवां यन्त्र ॥ १६ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ यदा महाबलः शत्रोर्धार्तं कर्तुं हि वाञ्छति ।  
 तदा तन्सानुकूल्यार्थं यन्वं कुर्वीत कण्ठकम् ॥ १ ॥ साध्य-  
 नाम लिखेन्मध्ये वर्तुलं वेष्टयेत्ततः । ईकारश्च भ्यकारश्च विस-  
 गान्तश्चतुर्दशाम् ॥ २ ॥ एकैकं तु लिखित्वा तु वर्तुलं वेष्टये-  
 दुष्टमोहनकरं कण्ठकर्यन्तम् । ततः । इमशानभस्मना लेख्यमर्क-  
  
 पत्रद्वयोपारि ॥ ३ ॥ संसुटं मेलयित्वा तु  
 वेष्टयेत्ततः । निशिपूजितम् ॥ ४ ॥  
 वलिदानं प्रदातव्यं भूतेऽहि प्रयतो  
 न्तरः । तत्क्षणाज्ञायते शब्दः सानुकूलो  
 न संशायः ॥ ५ ॥ कण्ठकाख्यं महा-  
 यन्वं दुष्टमोहनकं परम् । स्वशक्त्या  
 दक्षिणां द्व्यात्कालरात्रिः प्रीयतामिति ॥ ६ ॥

इति महाशब्दानुकूल्यकर कण्ठकाख्यं नाम ममदानं यन्त्रम् ॥ १७ ॥

श्रीशिवजो योगे—जब कि, अतिवर्द्धान् शब्द घात करनेकी इच्छा करता  
 हो तो उसको अनुकूल करनेके बास्ते इमशानकी भस्म लाकर दो आकके पत्तीं-  
 पर पृथक् २ एक गोठाकार चक्र खीचकर उसके भीतर साथ व्यक्तिके नामके  
 अशर लिह “ईभ्यः” विसर्ग मिथित इन दो धीजोंको पूर्वादिचारां दिशाभोग्यमें  
 लिपकर किर एक गोलाकार चक्र और खीचे कि जिसके खीचनेसे उक्तचक्र  
 मध्यवर्ती होजाय, तत्पश्चान् दोनों पत्रोंको संसुटमें लेकर कौटोंसे देढ़कर कृष्ण-  
 पश्चकी यात्रिमें पूजन करके इमशानभूमिमें खोदंगर गाटदे और भूतादि वटि-  
 प्रदान करे नो शब्द उसी समय वशीभूत होजायगा, यह दुष्टमोहनकालकेटक  
 नाम यंत्र है, इसका यथायोग प्रयोगकर “ हे कालरात्रि ! प्रसन्न हो ”  
 उसको उमारण पर ग्राहणोंको निभिणा दे ॥ १८ ॥

इति द्वेष्टयित्वा १८ सर्वी पाठे १८ वल १८ भागाटीकाख्यं कण्ठकाख्य-  
 नामवाल्मी दुष्टमोहनयन्त्र ॥ १७ ॥

कोणेकोणे दले न्यस्य हींकारं तु विचक्षणः । रोचना-  
कुंकुमेनैव मृगनाभिस्तु चन्दनम् ॥ ५ ॥ एकीकृत्य लिखेद्यन्वं  
भृजपत्रे सुविस्तृते । वयोदश्यां सिते पक्षे साधकशोतरामुखः  
॥ ६ ॥ तद्यन्वं पूजयेति त्यं रात्रौ रात्रौ वरानने । भोगीर्नाना-  
हींसीमाघकरं ललितायंत्रम् । विषेः पुष्पैर्वस्त्रालंकारभूषणः



॥ ७ ॥ एवं सप्तदिनं कृत्वा  
तदन्ते तव त्रृष्ण्ये । श्रियः  
सौभाग्यसंयुक्ता भोजयेत् सप्त-  
संख्यया ॥ ८ ॥ शंकरस्य पिये  
देवि ललिते प्रीयतामिति ॥  
स्थपं देहि यथो देहि सौभाग्यं  
देहि मे श्रियम् ॥ ९ ॥ भगवति  
वाञ्छितं देहि प्रियमायुप्यव-  
धनम् ।

एवं मन्त्रं समुद्धार्य ततश्चार्य विसर्जयेत् ॥ १० ॥  
तद्यन्वं धातुनावेष्ट्य सदा कण्ठे तु धारयेत् । सुभगा स्वप्संपन्ना  
पतिप्रियतमा भवेत् । ललिताल्यं महामन्त्रं स्त्रीणां सौभाग्य-  
कारकम् ॥ ११ ॥ इति श्रीपूर्णिणां सौभाग्यकरं ललिताल्यमेकोनविंश्यं पन्त्रम् ॥ १२

—हीं चीज लिखकर उक दलोंमें एक एक हीं वर्ण लिखकर कृणपक्षकी वयो-  
दशीके दिन रात्रिके समयमें उत्तरवी ओरको मुख्यरके सात रात्रितक  
निर्दम पूर्वक नानाप्रकारके भोग तथा गंधारिकोंमें तुम्हारी प्रसन्नताके कारण  
यन्त्रराजसा पूजनकर सौभाग्यवती सात खियोंको भोजन करावी । तत्पञ्चात्  
वद्यमाण मंत्रको उचारणकर विसर्जन करौ । मंत्रो यथा—शंकरस्य पिये देवि  
ललिते प्रीयतामिति । रूपं देहि यथो देहि सौभाग्यं देहि मे श्रियम् । भगवति  
वाञ्छितं देहि प्रियमायुप्यवधनम् ॥ फिर गंत्रको धातुके बने नाथोजमें बन्द  
करके जो छीं केठमें धारण करेगा वौ वह यन्त्रराजके स्थित रहनेतह  
सौभाग्य तथा हृपादिसं युक्त प्रीतमको अत्यन्त प्यारी होगी । वह ललिता-  
व्ययंत्र खियोंको अग्रिक सौभाग्यदायक उन्नीसवाँ यन्त्र ॥ १-११ ॥

इति यंत्र० ललितानाम सौभाग्यदायक उन्नीसवाँ यन्त्र ॥ ११ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रसन्नेन यन्त्रं भर्तृप्रसादनम् ।  
संलिख्याथ मियं नाम सांकारुष्टितं शुभम् ॥ १ ॥ अधोपरि  
तथा लेख्यं सांकारद्वितयं शुभम् । ततस्तद्वेष्ट्येत्सम्यक् वर्तुलं  
रेख्यैकया ॥ २ ॥ तस्योपरि दलान्यष्टौ ह्रींकारसहिताँलिखेत ।  
रोचनाकुङ्गमेनैव भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥ ३ ॥ विदिनं पूजयेन्नित्यं  
रात्रौ रात्रौ तु पूर्ववत् । ततः स्नात्वा चतुर्थऽह्नि पूजयेत्सुभगा-  
त्रयम् ॥ ४ ॥ अनङ्गवल्लभे देवि त्वं च मे प्रीयतामिति ।



ह्रींसौभाग्यकरं यन्त्रम् । एनं मियं महावद्यं कुरु त्वं स्मरवल्लभे  
॥ ५ ॥ एतन्मन्त्रं समुच्चार्य पूजयित्वा  
तु ताः स्थियः । तद्यन्तं धातुनाऽऽवे-  
ष्ट्य कृत्वा कण्ठे प्रधारयेत ॥ ६ ॥  
पतिर्दीसो भवेत्तस्या यन्त्रराजप्रसा-  
दतः । सौभाग्यमतुलं तस्या जायते  
नात्र संशयः ॥ ७ ॥ न सपल्लीं

गणयति सौभाग्यमददर्पिताम् । एका सुवासिनी भोज्या चतु-  
र्दद्यां सितेतरे ॥ ८ ॥ पक्षे पक्षे रतिप्रीत्ये पूजयं यन्त्रं हु नित्य-  
शः । यासां तासां न दातव्यं यन्त्रं सौभाग्यवर्धनम् ॥ ९ ॥

इति यं० स्त्रीगां सौभाग्यकर विशितिनं यन्त्रम् ॥ २० ॥

थीशिवजी योले-हे देवि ! प्रसन्न मन होकर पतिवद्यकारक यंत्रको सुनो ।  
गोलाकार एक चक्रको गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर रेंचकर अट्टलसे वेष्टि-  
तकर उक्त गोलाकार यंत्रके भीतर पूर्वादि चारों भागोंमें सांबीजको लिखकर  
अनुस्वार युक्त साध्यव्यक्तिके नामके अशुरोंको लिखे और उक्त आठ दलोंमें  
ह्रीं धीजोंको लिखा । तीन रात्रिका यंत्रका गंधादिकोंसे पूजनकर चौथे दिन  
विधानपूर्वक सौभाग्यवती ३ खियोंको पूजितकर वद्यमाण मंत्रका नष्टारण  
करे । मंत्र यथा—“अनङ्गवल्लभे देवि त्वं च मे प्रीयतामिति ।” एनं मियं महावद्यं  
कुरु त्वं स्मरवल्लभे ॥ ” इस प्रकार यंत्रका पूजनकर धातुवेष्टित कर कंडमें  
पारण कर दो परि दासकी समान होजायगा और यंत्रराजके प्रतापसे इस द्वा-

श्रीशिव उवाच ॥ योपिद्वद्यं प्रवक्ष्यामि शुभु देवि सुशो-  
भनम् । रोचनाकुहुमर्नेव श्रीखण्डमृगनाभिना ॥ १ ॥ भर्ज-  
पत्रे तु संलेख्यं जातीकाष्टेन यन्त्रकम् । ऐं ह्रीं क्लीं च ततो  
नाम ऐं ह्रीं क्लीं च पुनस्तथा ॥ २ ॥ एवं संधुटिं कृत्वा चतु-  
ष्कोणं लु वेष्टयेत् । उपर्यधोऽपि विलिखेत्पत्र वीजानि यततः  
॥ ३ ॥ ऐं ह्रीं क्लीं च तथा क्लीं च ऐं चान्ते च पुनस्तथा ।  
कोणेषु विन्यसेद्वीजान ऐं ह्रीं क्लीं च तथेव च ॥ ४ ॥ दलाकृ-  
तिस्तु कर्तव्या वीजानामुपारि क्रमात् । एवं चतुर्दलं कृत्वा  
यीजयुक्तं मनोहरम् ॥ ५ ॥ राजिका प्रतिमा कृत्वा मदनस्य  
लु काष्टके । तस्या हृदि तु संस्थाप्य तद्यन्तं पूजयेत्ततः ॥ ६ ॥  
भोगेश विविधं गन्धं धूपं दीपिः फलैः शुभैः । रात्रो रात्रौ  
प्रकर्तव्या दिनान्ते प्रत्यहं शुभे ॥ ७ ॥ ८ एवं रुते च

-प्रताप अतुल होगा। इत्यादि उपरोक्त क्रियाओंके करनेपर भी पवि सामाध-  
मद्दसे दर्शित खीको कुछ न समझे तो शुभपक्षकी प्रति घनुर्दर्शिमे रविकी  
प्रीतिके लिये एक सौभाग्यपती खीको भाजन कराकर पुनः यंवराजकापूजन  
करें, यह सौभाग्यवर्द्धकयंत्र विना अधिकारीके और किमीको न देवै ॥१-९॥

इति यन्त्रचिन्तामणिकी यं० बलदेवप्रमाणमित्रहृतभासटीरातुयु


वीसरी पाठिकामे श्रीसौभाग्यकारक नामयात्रा

वीसर्वा यंत्र ॥ २० ॥

श्रीशिवजी बोले-दे देवि ! सौभाग्यशारक अनिर्ध्रु दंत्रदो कदाहुँ अद्व  
वरो । गोरोचन, तुकुम, लालचंदन, कम्ली इन सव यमुओंको इकट्ठावरणों  
भोजपत्रपर चमेलीकी छलमसे एक अंगुलके अंतरमें कणिका युक्त दीं रोक  
ओंके ऊपर नीचे दो आकार कल्पना परे । फिर कणिकाओंमें, हीं, क्लीं, हृ-  
शीजोंको पूर्णकर इक दोनों दलाकारोंमें, ह्रीं, क्लीं, क्लीं, एं इन वीजोंको लियका  
रेयाओंके भीतर हे, हीं, क्लीं, इन वीजोंको आदि अनमें लगाकर अनुस्थारु  
साक्षयकिंक नामको लिये । तप्पभानु काष्टके ऊपर(राजिका)यांसे पात्र  
देवकी प्रतिमाको निर्माणकर उक यंत्रको हृदय भागमें स्थापितहरनंथ, तुन  
धूप, दीप, पट्ट, नेवेष इत्यादि शाम यमुओंमें सायंकाल्पे समय मिद्धिर्पर  
प्रयेक रात्रिम घट्यमाण गंत्रको इषारणहर कामदेयका पूजन करे ॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रब्रह्म्यामि; मानिनीमानमर्दनम् ।  
 यन्त्रं सुदुर्लभं लोके विक्ष्यातं मानमर्दनम् ॥ १ ॥ हुर-  
 गस्य तु रक्तेन रोचना भूर्जपत्रके प्रणवं च ततो ह्रीं च साध्य-  
 नामाक्षरं पृथक् ॥ २ ॥ नामाक्षराणि ह्रींकारपुष्टितानि विच-  
 क्षणः । आद्यात्मे प्रणवं लेख्यमेकपंक्तौ विचक्षणैः ॥ ३ ॥ तत-  
 स्तद्वेष्टयेत्सम्प्यक् चतुष्कोणं तु रेख्या । उपर्यधश्च संलेख्यं  
 पूर्ववद्वीजसंपुटम् ॥ ४ ॥ तिर्यग्भागे द्विभागे तु पूर्ववन्नाम-  
 सम्पुटम् । कोणे दलाकृतिं कुर्यान्मदनाकृतिमध्यतः ॥ ५ ॥

खीरपकर मदनमर्दनयन्त्रम् ।



एवं यन्त्रं सुसंलेख्यं मदनप्रतिमां शुभाम् । मदनस्य तु काष्ठेन  
 कृत्वा ह्रादि विनिक्षिपेत ॥ ६ ॥ सरन्त्रं हृदयं कुर्याद्यथा यन्त्रं  
 सुतिष्ठति । संबैष्ट्य प्रक्षिपेत्वूनं यन्त्रं तस्योपरि स्फुटम् ॥ ७ ॥

श्रीशिवजी बोले—हे देवि ! सुदुर्लभं लोकप्रगिद्व मानिनी खियोंके मान  
 मर्दन करनेवाले यन्त्रको कहता हैं—सुनो धोंडेके स्थिरमें भोजपत्रके ऊपर मदन-  
 काष्ठकी कलमसे एक अंगुलके अंतरमें दो तिरछों रेखा धोंचकर उनके आदि  
 अंतरमें कमलदल आकार लगाकर उक्त रेखाओंके ऊपर नोचेके दोनों भागोंमें  
 गोलाई युक्त दो रेखा चिंचे । किर्ति “आं ह्रीं देही वहीं दहीं जहीं ओ” ।  
 इन र्घारह वीजोंको प्रत्येक कोष्ठमें स्थापितकर यन्त्रदो पूर्ण करे । तत्प्राण  
 मदनकाष्ठसे एक कामदेवकी प्रतिमार्ति निर्माणपरेकि, जिसके हृदयमें रेखाएक  
 छिद्र हो कि, जिसमें उक्तयन्त्र सुभीवेके दाख प्रसिद्ध होगके, किर लालबंदन माला

रत्नचन्दनमाल्याद्यैः पूजयेत्प्रत्यहं तु तत् । एकविंशतिदिनं  
यावत्सा तस्य वशतामियात् ॥ ८ ॥

इति ये० चि० खीवशीकरं मदनमर्दनं नाम द्वाविंशं यन्त्रम् ॥ २२ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रवस्थ्यामि राजखीवश्यका-  
रकम् । यथा तद्दृष्टिपातेन कामवाणहता इव ॥ १ ॥ पतन्ति  
कामाक्षं यन्त्रम् ।

सहस्रा हृष्टा मानिन्यो मद-



विहलाः । रोचनाकुङ्कुमे-  
नैव भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥ २ ॥ कर्पूरेण समायुक्तं  
जातीकाष्ठेन यत्नतः । षट्-  
कोणस्य तु मध्ये तु सा-  
ध्यनामप्रतिष्ठितम् ॥ ३ ॥  
क्रौंकारं सर्वतो लेख्यं  
कोणोपरि प्रयत्नतः । पूर्व-  
कोणान्तराले तु ह्रीङ्का-  
रद्वितये लिखेद्यैकं ह्रींकारं पूर्वसं-

रद्वितये लिखेत ॥ ४ ॥ कोणमध्ये लिखेद्यैकं ह्रींकारं पूर्वसं-

आदिवस्तुओंसे पूजनकर यंत्रेश्वरको उच्चप्रतिमाके हृदयमें स्थापितकर इक्षीस  
दिनवक पूजन करे तो साध्यत्वकि वशमें होजायगी ॥ १-८ ॥

इति यंत्रचिन्तामणिकी तीसरी पीठिकामें खीवशीकरण  
मदनमर्दन नामवाला वार्षिक्यां देव ॥ २२ ॥

भीशिवजी घोले-अब राजखीवश्यकारक यंत्रको कहवा हूं कि, जिसके  
दर्शनमात्रसे कामवाणसे हतकी समान मानिनी लियें देखकर मद्दसे व्याकुल हो  
पतित होंगी । विधान यथा-गोरोचन, कुंकुम, कपूर इन वस्तुओंको एकत्रित  
करके भोजपत्रके ऊपर चमेलीदी कलमसे एक पट्टकोण यंत्रको निर्माणकर  
उसके धार्मिकगमें एक गोलाकार चक्र खेंचे और दक्षिणभागमें तीन और  
ईशानभागमें एक दल लिखकर उक्त पट्टकोणके भीतर साध्यत्वकि नामके

मितम् । तत्सर्वं वेष्टयेत्पश्चाद्वर्तुलं रेखया शुभम् ॥ ५ ॥  
 दक्षिणे त्रिदलं कुर्यादीशान्येऽपि दलं तथा । ह्रीङ्गारं दलमध्ये  
 तु ऋमेण प्रविलेखयेत् ॥ ६ ॥ एवं विलिख्य तद्यन्तं पूजयेद्-  
 भक्तिभावतः । गन्धपुष्पैः सुनेवेद्यैः शुक्ळाम्बरधरैः स्वयम्  
 ॥ ७ ॥ चिन्तयेत्तां स्त्रियं रात्रौ यन्त्रस्य पुरतः स्थितः । एवं  
 सत्तदिनं कृत्वा तदन्ते ब्राह्मणाः स्त्रियः ॥ ८ ॥ संभोज्या  
 विविधैभोज्यैः कामाक्षी प्रीयतामिति । शक्त्या च दक्षिणां  
 दद्यद्वोजयेत्साधकः स्त्रियम् ॥ ९ ॥ त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा वाहु-  
 मूले तु धारयेत् । तं हृष्टा राजपत्न्यश्च कन्द्रपञ्चरपीडिताः ।  
 स्वयं संप्रार्थयोनित्यं का कथेतरयोपिताम् ॥ १० ॥

इति य० चि० राजस्त्रीविद्यकर कामाक्षं नाम त्रयोविंशं यन्त्रम् ॥ २३ ॥

अक्षर लिख प्रत्येक कोणमें हींवीजको लिखे । तत्पश्चात् पूर्वकोणमें क्रोंवीजको  
 लिख दो हीं वीजोंको लिखे और पाँचों कोणोंमें सिर्फ एक एक क्रों वीजको  
 लिख उक्तदलोंमें एक एक हीं वीज लिखे । पुनः भक्तिभावसे गंध पुष्प मैवे-  
 न्नादि पदार्थोंसे यंत्रका पूजन कर शेतवस्त्रको धारण कर उक्त यंत्रको समुख  
 रखकर रात्रिके समय साध्यरूपका चिन्तवन करे । इस प्रकार सात दिनतक  
 पूजनादि क्रियाओंको करके शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंको विविध-  
 प्रकारके भोज्य पदार्थोंसे भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे कि  
 ‘‘कामाक्षी प्रीयताम्’’ फिर त्रिलोहके तावीजमें बंदकरके भुजामें धारण करने-  
 वालं साधकको देखकर कामञ्चरसे पीडितहुई राजस्त्रियां स्वयं प्रार्थना करेगी,  
 अन्यस्त्रियोंकी तो धारही क्या है ॥ १-१० ॥

इति यन्त्रचिन्तामाणिकी सीसरी पीठिकामें राजस्त्रीविद्यकारक  
 कामाक्षनामक तेईसवां यंत्र ॥ २३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रबद्ध्यामि वीजमेकं महा-  
फलम् सततं धारयेन्नित्यं स्थीणां प्रियतरो भवेत् ॥ १ ॥ स्त्री  
चेद्वारयते नित्यं सा सौभाग्यवती भवेत् । सौभाग्यजननं  
बीजं नृणां चैव विशेषतः ॥ २ ॥ एतद्वीजाक्षरं गोप्यं न देयं  
यस्य कस्यचित् । सकारं च हकारं च ककारं च तथैव च ॥ ३ ॥  
लकारं च डकारं च ईकारान्तं प्रतिष्ठितम् । एवं विजययन्त्रम् ।  
क्रमेण संयोज्य अक्षराणां च पट्टकक्तम् ॥ ४ ॥ ईकारस्वरसंयुक्तं विन्दुना परिशोभितम् ।  
रोचनानीरयुक्तेन भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥ ५ ॥ विदिनं पूजनं कृत्वा हेमा वै वेष्येन्नतः । पुरुषो  
बाहुमूले वा नारी चेद्वलके पुनः ॥ ६ ॥ धार-  
येद्वीजराजं तु स्फुटं दौर्भाग्यनाशनम् । महासौ-  
भाग्यजननं श्रीशिवेन प्रतिष्ठितम् ॥ ७ ॥

स्त्रीं

क  
ल  
ड  
इ

इति यन्त्रचिं नां म० प्र० उ० त० व० दा० सौभाग्य-  
जननविजये नाम चतुर्विंश यन्त्रम् ॥ २४ ॥

श्रीशिवजी बोले—हे प्रिये ! अत्यन्त फलदायक एक वीजको कहता हूँ कि,  
जिसके नित्य प्रति धारण करनेसे साधक विद्योंको अत्यन्त प्यारा होगा ।  
विधान यथा—जलभित्रित गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर तीन रेखा युक्त एक  
अर्द्ध चन्द्राकार लिखकर, सकार, हकार, ककार, लकार, डकार, ईकार इन  
छः अक्षरोंको ईकारमें गमितंकर उक्त अर्द्ध चन्द्राकारके धीचमें स्थापित करे ।  
तत्पश्चात् गन्धं पुष्पादिकोंसे पूजनकर सुधर्णीमें लपेटकर पुरुष भुजामें और  
स्त्री गलेमें धारण करे । मनुष्योंको यह सौभाग्यका देनेवाला अत्यन्त पवित्र  
वीजराज गुप्त भावसे रखना चाहिये विन्दु हरेकको न देना चाहिये, क्योंकि,  
उक्त यन्त्रराज शिव प्रतिष्ठित होनेसे शीघ्र दौर्भाग्यनाशक और सौभाग्य-  
जनक भावको धारण करनेवाला है ॥ १-७ ॥

इति यन्त्रचिन्तामणिकी तीसरी पीठिकामें सौभाग्यजननविजय  
नामवाला चौबीसवां यन्त्र ॥ २४ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रवद्यामि यन्त्रं सौभाग्यद्रायकम् । स्त्रीणामेव समुद्दिष्टं यन्त्रं कमलसंज्ञकम् ॥ ? ॥ तस्य संधारणादेवि वन्ध्या गर्भवती भवेत । मृतवत्सा तु या नारी सा लभेत्पुत्रसुत्तमम् ॥ २ ॥ धृत्वा तु जायते देवि जीवत्पुत्रा न संशयः । रोचनाकुंकुमेनैव भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥ ३ ॥ प्रणवं तु लिखेत्पूर्वं ह्रींकारस्तदनन्तरम् । ततो रमणनामं च ह्रींकारान्तं प्रतिष्ठितम् ॥ ४ ॥ उपर्यधोऽपि विलिखेत्क्रोकारभेककं तथा । ततस्तद्देष्टेत्सर्वं वर्तुलं रेखयैकया ॥ ५ ॥ तस्योपरि दलान्यष्टौ बीजाक्षरयुतानि च । जैँकारं च चतुर्दिक्षु दलमध्ये तु विन्यसेत ॥ ६ ॥ अँकारं च तथा ह्रीं च जैँकारं च तथैव च । ह्रींकारं च पुनर्लेख्यमेवं बीजचतुष्टयम् ॥ ७ ॥ कोणे कोणे दले लेख्यं मध्यदेशे तु साधकः । एवं यन्त्रं सुसंलेख्यं पूजयेत्तु दिनवयम् ॥ ८ ॥ भोजयेन्मिथुनं चैकं लोकेशः प्रीयतामिति । पथान्तं तन्तुनाऽवेष्ट्य त्रिलोहेन विशेषतः ॥ ९ ॥ वर्तुलं माणिवत्कृत्वा हारमध्ये तु धारयेत । धारणाज्जायते देवि सौभाग्यमतुलं महत् ॥ १० ॥ पुत्रं च लभने नन्दं वन्ध्यात्वं च प्रशा-

श्रीशिवजी बोले—अब सौभाग्यके देनेवाले यन्त्रको कहता हैं, कमल संज्ञक यन्त्रका लियोंके लिये प्रयोग करना योग्य है । विधान यथा—गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर एक गोलाकार चक्र लैंचकर वहिर्भाग अष्टदलोंसे सुशोभित कर उक्त गोलाकारके भीतर तीन रेखा कल्पनाकर ऊपर भीचेकी रेखाओंमें औं ह्रीं इन दो बीजोंको आदिमें मिश्रितकर साध्यवयक्ति अर्थात् पतिरूप नामके अक्षर लिख फिर अन्तमें सिर्फ ह्रीं बीजको लगावै । फिर पूर्वादि चारों जूँबीजको लिखकर औं ह्रीं, जूं ह्रीं इन चार बीजोंको ईशानादि चारों कोनोंमें स्थापित करे । तत्पश्चात् गन्ध, पुष्प, ताम्बूल, नैवेद्यादि पदार्थोंसे तीन दिनतक पूजनकर, ‘हे लोकेश ! प्रीयताम्’ इस वाक्यको उच्चारणकर एक श्री-पुरुषको भोजन करावै । फिर कष्ठेडोरेसे लपेटकर उक्त यंत्रेभरको त्रिलोहमें चढ़कर धारणकर तौ है देवि ! अतुलं अतिशेष सौभाग्य प्राप्त होगा । इसका और यह भी प्रताप है कि, इसके धारण करनेसे वन्ध्या स्त्री भी गर्भवती होकर

न्यति । कमलाख्यं महायन्त्रं सृष्टं तु व्रहणा पुरा । न देयं  
यस्य कस्यापि साधकेन वरानने ॥ ११ ॥

कमलाख्ययन्त्रम् ।



इति धीर्घं ० सौभाग्यजननं कमलाख्य नाम पञ्चविंश यन्त्रम् ॥ २५ ॥

स्वमेन संप्राप्य सदाशिवाच्च दामोदरोऽत्रारचयच्च कल्पम् ॥  
तस्मिन्महाकल्पवरे सुसत्ये गतः समाप्तिं प्रथमोऽधिकारः ॥ १ ॥

—उत्तम पुत्रको प्राप्त कर केयाभावसे रहितहो मृतवत्सा उत्तम पुत्रको प्राप्त हो  
जीवित पुत्रवाली होगी, इसमें किभिन्न भी संदेह नहीं । अपराह्नामें भिडाकर  
धारण करे थोंभी उठ फल प्राप्त होसकता है, इस कमलाख्य महायन्त्रको  
भीमद्वारा जीने कल्पित किया है । अतः सापड़को उपर्युक्त कि अधिकारी  
सिद्धाय और किसीको न दे ॥ १-११ ॥

इति भीयंत्र चिन्तामणिर्भी वीसरी पीठिकामें सौभाग्य-  
जनन नामपाठा दशीसर्वो यन्त्र ॥ २५ ॥

स्वप्राप्तस्थामें दिव्यवीर्यसे प्राप्त कर दामोदर पठिहतके बनाये भेषजह्य सत्य  
यन्त्रप्रधिकारामणिकल्पका प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १ ॥

सद्यन्त्रचिन्तामणिसर्वसिद्धिदे श्रीचन्द्रचूडस्य मुखाद्विनि-  
र्गते । तस्मिस्तृतीयां किल पीठिकामिमां चकार दामोदरप-  
ण्डितः सुधीः ॥ २ ॥ वश्याभिधानं प्रथमाधिकारं शृणोति यो  
भक्तियुतो मनुष्यः । तस्याशु देवो भगवान्महेशो ददाति  
लक्ष्मीं विपुलं सुसिद्धिम् ॥ ३ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरमन्वादे  
दामोदरपण्डितोद्भूते तृतीयपीठिकायां वश्याधिकारः समाप्तः ॥

इति प्रथमोधिकार ॥

अथाकर्णणाधिकारः । २

जयति जगदशोपद्योतयद्विव्यभासा विशदकिरणकान्तिः  
प्रस्फुरच्छन्द्रमौलिः । विषमविषमहाहिप्रोल्लसच्चारुहारः सतत-  
मासिनतेजा ज्ञानमूर्तिर्महेशः ॥ १ ॥ चिन्तामणौ कल्पवरे  
चतुर्थीं प्रारम्भ्यते संप्रति पीठिकेयम् । आकृष्टियन्त्राणि परि-  
स्फुटानि विचारयाम्यत्र तु पीठिकायाम् ॥ २ ॥

श्रीचन्द्रचूड शिवजीके मुखसे निकले सत् यत्रचिन्तामणिकल्पकी रीसरी पीठिकां  
पंडित प्रबर श्रीदामोदरजी इस भौतिसे करते हुए ॥२॥ इस वश्याधिकारनाम  
तीसरे अधिकारको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मुनते हैं उनको श्रीशिवजी महाराज  
प्रसन्न होकर अधिक लक्ष्मी और सुसिद्धि देते हैं ॥ ३ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरमन्वादे  
दामोदर पंडितोद्भूते पं० बलदेवप्रमादजी मिथकृत भाषाटोका  
सहितहृतीयपीठिकायां वश्याधिकारः समाप्तः ।

समस्त संसारको अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाश करनेवाले, विषम विषको  
धारण करनेवाले, सर्पोंके प्रकाशमान मनोहर हारको धोरे, मग्नस्त्रकमें घन्द्रमाको  
धारण करनेवाले और निर्मल कान्तिसे शोभायमान होनेवाले तीक्ष्ण तेजको  
धारण करनेवाले ज्ञानकी मूर्त्तिवाले श्री श्रीशिवजी महाराजकी जय हो ॥ १ ॥  
अब चिन्तामणिकल्पकी चौथी पीठिका कही जाती है, इस पीठिकामें आक-  
र्णिके यंत्रोंका रुट विचार करताहूँ ॥ २ ॥

श्रीशिव उवाच-संलिख्य नामानि च भूर्जमध्ये गोरोनना-  
कुङ्गमचन्दनाभिः । सकारदीजास्तु विसर्गयुक्तास्तस्योपरि-  
ष्टाद्विलिखेत्तु पञ्च ॥ १ ॥ इकारमन्ते विनिवेश्य पश्चाद्विसर्ग-  
युक्तौ विलिखेत्सकारौ । क्रौं ह्रीं तथा क्रौं च विलिख्य पंक्तौ  
वर्णस्य पङ्किर्महता क्रमेण ॥ २ ॥ एवं द्विपङ्क्तौ तु विलिख्य  
पश्चात्त्राम्नस्तथाऽधो विलिखेत्तु पङ्किम् । ह्रीं क्रौं तथा ह्रीं च  
तथैव च क्रौं विलिख्य नामस्तु अधोविभागे ॥ ३ ॥ ह्रीं क्रौं  
मणिभद्रवंत्रम् ।

सः सः सः सः सः इ  
सः सः क्रौं ह्रीं क्रौं

**देवदत्तः**

ह्रीं क्रौं ह्रीं क्रौं  
ह्रीं क्रौं ह्रीं दर


तथा ह्रीं च विलिख्य पङ्क्तौ तस्याप्यथो  
वै विलिखेच्च वीजे । दकाररेफौ  
तु विलिख्य पश्चात्संबेष्येत्रिः परि-  
वतनेन ॥ ४ ॥ संपूज्य यन्त्रं विधि-  
वच्च पश्चात्सत्रेण संवेष्य सुपाण्डु-  
रेण । उद्वर्तनेन स्वशारीरजेन  
विधाय मृत्ति मनुजस्य नृनम् ॥ ५ ॥  
निधाय तस्या हृदि यन्त्रराजं  
पिधाय चोद्वर्तनकेन पश्चात् । संतापयेत्तं खदिरस्य वक्त्रिना  
दिनत्रयं यन्त्रवरं विसन्ध्यम् ॥ ६ ॥ ॐ देवदत्तं वेगेन आकर्षय  
२ माणिभद्रस्वाहा ॥ तापनमन्त्रोऽयम् ॥ एवं कृतेः कर्पाति

रिवजी थोके—हे कान्त ! तीन रेखाओं युक्त एक चतुष्कोण यंत्रहो गोरो-  
चन, कुरुम, लालचंदनसे भोजपत्र पर लिखकर उक्त यथके भीतर पाँच रेखा  
कल्पनाकर प्रथम रेखामें पाँच विसर्गयुक्त सकार वीजोंको लिखकर अन्तमें  
इकार यीज लिखे । किर दूसरी रेखामें सः सः क्रौं ह्रीं क्रौं इन पाँच वीजोंको  
लिखे, तीसरी रेखामें साध्य व्यक्तिके नामके अश्वर लिखे, चौथी रेखामें ह्रीं  
क्रौं ह्रीं क्रौं लिखे और पाँचवीं रेखामें ह्रीं क्रौं ह्रीं दर इन पाँच वीजोंको लिख  
कर यंत्रका पूर्ति करे । किर विधान पूर्वक गंधारिकोंसे पूजन करके लाल-  
सूक्ष्मसे बोधे और अपने शरीरके उद्वर्तनसे मनुष्याकार मूर्तिको पनाकर उसके  
हृदयःभागमें यंत्रराजको रखकर, उद्वर्तनसे आच्छादितकर ग्रिसल्यमें सीत  
दिनतक खदिरकी अग्निमें संतप्तकर इस मंत्रको पढे । मंत्र—मौं देवदत्तं वेगेन  
आकर्षय २ माणिभद्रस्वाहा । यह तापन मंत्र है । इस विधानके परिवेष्ट

माणिभद्रो देशान्तरस्य मनुजं च ननम् । अत्यन्तदूरस्य मपि  
क्रमेण समानयेद्यन्त्रवरो हि ननम् ॥ ७ ॥ संपूजयन्त्रापनशो-  
षणाच्च श्रीमाणिभद्रो भगवान् हि वीरः ॥ ८ ॥

इति यत्रविद् चतुर्थ० आकर्षणाधिकारे माणिभद्रं नाम प्रथमं यंत्रम् ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अलः परं प्रबह्यामि यन्त्रं मित्रस्य दर्शनम् ।  
स्तुचन्द्रनमिश्रेण स्वरक्तेन च भूर्जके ॥ ? ॥ मध्ये नाम  
लिखित्वा तु वर्तुलं वेष्टयेत्ततः । चतुर्दलं ततः कुर्याद्वीजयुक्तं  
मित्रदर्शनयंत्रम् । मनोहरम् ॥ २ ॥



हृङ्कारं दलभैर्ये तु  
प्रत्येकं विलिखेत् क्रमात् । पूर्वं यन्त्रं तु  
संलिख्य पूजयेद्यन्धपुष्पकैः ॥ ३ ॥  
बलिपुष्पोपहौरेश्च सुगन्धद्रव्यसंयुतैः ।  
प्रक्षिपेद्वृत्तमध्ये तु आकृष्टिविदिनाद्व-  
वेत् ॥ ४ ॥ इदं यन्त्रं महागोप्यं रक्षणीयं  
प्रयत्ननः । कस्याप्यप्रेन वक्तव्यं यदीच्छेत्

सिद्धिमात्मनः ॥ ५ ॥

इति श्रीयन्त्रविन्तामणी मित्रदर्शनं नाम द्वितीय यन्त्रम् ॥ ३ ॥

माणिभद्रदेशांतरमें स्थित पुरुषोंको आकर्षित कर सकताहै । वीर भगवान् श्रीमा-  
णिभद्रजीनेभी तापन शोषणादि क्रियाओंसे श्रीयन्त्रवरका पूजन कियाहै १-८ ॥

इति श्रीयन्त्रविन्तामणिकी चौथा पीठिकाके आकर्षण अधि-  
कारमें माणिभद्रनाम प्रथमर्यंत्र ॥ १ ॥

श्रीशिवजी घोटे-भव मित्रदर्शननाम यंत्रको कहता हैं, विधान इस प्रकार  
है-लालचंदन, स्वरक्त इनको मिलाकर भूजपत्रके ऊपर एक गोलाकार चक्रको  
खीचकर चार दलोंसे युक्त धीचमें साध्याकिके सामुस्वार नामके अक्षर लिख  
कर उक्त दलोंमें हैं धीजको लिखें । फिर गंध पुष्पवाले इत्यादि पदार्थोंसे  
पूजनकर धूतम स्थापित कर दे तो तीन दिनमेंही आकर्षण होजायगा, इस  
यन्त्रकी घड़ यत्नसे रक्षा कर अपनी सिद्धिकी इच्छा करनेवाला इस यंत्रको  
किसीको न दे और न किसीसे कहे ॥ १-५ ॥

इति यंत्रचिन्तामणिकी चौथीपीठिकाके आकर्षणाधिकारमें  
मित्रदर्शन नामवाला दूसरा यंत्र ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि यन्त्रं त्रैपुरकं महता  
रोचनानीरयुक्तेन भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥२॥ मध्ये नाम लिखित्वा  
तु ह्रींकारपुटितं शुभम् । पट्कोणं तु लिखेत्पश्चान्नामगर्भं मनो-  
त्रैपुरकाल्ययन्त्रम् ।



हरम् ॥ २ ॥ सौकारान् विलिखेत  
कोणे मध्यतो विन्दुभृषितान् । एत-  
द्यन्तं सुसम्पूज्य धृतमध्ये विनि-  
क्षिपेत् ॥ ३ ॥ प्रत्यहं पूजयेन्नित्यं  
प्रार्थयेत् त्रिपुरान्ततः । आकर्षय  
महादेवि देवदत्तं मम प्रियम् ॥४॥  
एं त्रिपुरे देवदेवेशि तुभ्यं दास्यामि  
याचितम् । अनेन प्रार्थयेद्वाँ त्रिपु-  
रायन्त्रगां यजेत् ॥ ५ ॥ एवं कृते  
सप्तमेऽह्नि आकृष्टिर्जायने शुभे ॥६॥

इति यन्त्रचिन्ता० त्रैपुरं नाम उत्तीय यन्त्रम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि मानिन्याकर्षणं  
शुभम् । रहस्यं सर्वयन्त्राणां तत्क्षणात् सिद्धिदायकम् ॥ १ ॥  
न वाच्यं यस्य कस्यापि यन्त्रराजं सुदुप्करम् । दक्षिणानामि-

श्रीशिवजी योगे—अब त्रैपुरक यंत्रको कहता हूँ। जलमिथित गांरोचनसे  
भोजपत्रके ऊपर पट्कोण यंत्रको लिख प्रतिकोणमें सौ पीजको लिप्तकर मध्य  
भागमें हीं देवदत्त हीं इसप्रकार आदि अंतमें हीं वीजठगाकर साक्षयित्वाके  
नामाश्रर लिय उक्त यंत्रका गंधादिकोंसे विधानपूर्वक पूजकर धृतके मध्यमें  
स्थापित करे, प्रतिदिन त्रिपुरसे प्रार्थना करे । प्रार्थनामंत्रः—आकर्षय महादेवि  
देवदत्तं मम प्रियम् । एं त्रिपुरे देवदेवेशि तुभ्यं दास्यामि याचितम् ॥ हे शुभे!  
इस विधानके घटनेसे सातवें दिन आकर्षण होगा ॥ १-६॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिहीं चौथी पीठिकाके आकर्षणाधिकारमें

त्रैपुरक नामगाढा तीसरा यन्त्र ॥ ३ ॥

श्रीशिवजी योगे—मानिनी स्त्रीके आकर्षणको कहता हूँ। यह समूर्ज यन्त्रोंका  
रहस्यभूत या क्षणमें सिद्धिका देनेवाला है । यह यन्त्रराज या दुर्लभ है,  
विना अधिकारीके दूसरेते कभी न कहे । धृष्टिग भनामिरा डंगर्होंके रुग्णिसे

रक्षेन वामे करतले लिखेत ॥ २ ॥ प्रणवं च तथा ह्रीं क्लीं एक-  
ललनाहृति कामराजयंत्रम् । पंक्तौ लिखेत्तरः । तिं हां स्वा-  
हेति त्रितयं तस्याधो विलिखेते-  
क्रमात् ॥ ३ ॥ तस्याप्यधो लिखे-  
त्राम रमण्याश्चैव सुब्रते । त्रिकोणं  
वेष्टयेत्पश्चाद्विजानामुपरि प्रिये  
॥ ४ ॥ एवं कृत्वा तु संपूज्य  
तत्रैव कुसुमैः शुभैः । याममा-  
त्रेण सा नारी समायाति न  
संशयः ॥ ५ ॥ यन्त्रं श्रीकाम-

ॐ ह्रीं क्लीं  
तिं हां स्वाहा  
देवदत्तः

राजाख्यं देवानामपि दुर्लभम् ॥ ६ ॥

इति यत्रविं ललनाहृति श्रीकामराजाख्यं चतुर्थं यंत्रम् ॥ ४ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अयातः संप्रबद्ध्यामि यन्त्रं वै देवमातृ-  
कम् । कर्षणं नरनारीणां शृणु देवि महाफलम् ॥ १ ॥ लाक्षा-  
रसं हरिद्रा च मञ्जिष्ठं भूर्जपत्रके । लेखनीयं प्रयत्नेन एकान्ते  
यन्त्रमुत्तमम् ॥ २ ॥ मध्ये नाम लिखित्वा तु त्रिकोणं वेष्टये-  
त्ततः । तद्यापि वेष्टयेत्पश्चात् घर्तुलं यत्नतः प्रिये ॥ ३ ॥

याम ह्रायकी हयेलीपर एक त्रिकोण यंत्रको लिखे और उस यंत्रके भीतर  
तीन लक्षीरै सैवे, प्रथम लक्षीरमें ओं, ह्रीं, ह्रीं इन तीन लक्षीको, दूसरी  
पंक्तिमें तिं हां स्वाहा इन चारवर्णोंको और तीसरी पंक्तिमें साध्यव्यक्तिके  
नामाक्षरोंको लिये गन्ध पुष्पादिकोंसे पूजन करे तो साध्यकी एक पहरमात्रमें  
आकर्षित होगी अर्थात् च्वयं प्राप्त होगी इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं  
है । यह श्रीकामराज यन्त्र देवताओंको भी दुर्लभ है ॥ १-६ ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणिकी चौथी पीठिकोके आकर्षणाधिकारमें कामराज  
नामवाला चार्य यन्त्र ॥ ४ ॥

भीमिवजी धोलि-हे देवि ! नर और नारियोंके आकर्षणकारक, महाफल-  
दायक देवमातृक यन्त्रको कहता हूं सुनो-लाखका रस, हल्दी, मंजीठ इन  
बग्नुओंको एकत्रित करके भोजपत्रके ऊपर त्रिकोणयुक्त एक गोलाकार चक्र  
खेचकर लिर उसके पीरे एक अंगुलके अन्तरसे एक और गोलाकार चक्र-

देवमातृकं चक्रम् ।



तस्योपरि स्वरा लेख्या अकारा-  
द्यास्तु षोडश । ततस्तद्वेष्ट-  
येत्सम्यग्रेत्यया नेत्रसंख्यया  
॥ ४ ॥ तस्यैव पांदधूल्याऽय  
प्रकुर्याच्छालभजिकाम् । तस्या  
योनौ तु संक्षिप्य यन्त्रराजं  
सुर्जितम् ॥ ५ ॥ एवंकृते  
तु कृष्टा सा समायाति न सं-  
शयः । बहुनाऽन् किमुक्तेन प-  
तिना सममानयेत् ॥ यन्त्रराजो  
महागोप्यो देवमातृकसंज्ञकः ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ मानिन्याकर्षणं देवमातृकं पञ्चमं यन्त्रम् ॥ ९ ॥

चिन्तामणौ कल्पवरे सुकल्पे श्रीचन्द्रचूडस्य सुखाद्विनि-  
र्गते । तस्मिंश्चतुर्थीं किल पीठिकामिर्थां चकार दामो-  
द्रविष्वर्यः ॥ १ ॥ आकर्षणं नाम महाधिकारं पूर्णं द्वितीयं  
हि महाप्रभावम् । पञ्चैव यन्त्राणि महाप्रभावे रहस्यभूतानि तु  
कीर्तितानि ॥ २ ॥ इति यन्त्रचिन्तामणौ आकर्षणाधिकारः ॥

योंचक्रफिर उसके धारे एक अंगुलके अन्तरसे एक और गोलाकार चक्रको दो  
रेताओंसे युक्तकर रखें । फिर त्रिकोणके भीतर साध्यव्यक्तिके नामाश्रयोंको  
लिखाड़ भकारादि सोलह श्वरोंको दोनों गोलाकारोंके भीतर लिखे । पुनः  
उक्त साध्यव्यक्तिके चरणके नीचकी धृतिले लाकर एक पुतलिका यनाकर  
उसके योनि(भग)में सुर्जित यन्त्रराजहो स्थापित करें । ऐसे करनेपर आकर्षित  
दो साध्यव्यक्तिको प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं । विशेष कहनेसे  
भय है परिसहित प्राप्त होगी । इस देवमातृकसंशुद्धयेत्वको अत्यन्त गुप्त रखना  
योग्य है ॥ १-६ ॥ इति भीयंत्र० न लारी आकर्षण० मातृसंशुद्ध पौचदां यन्त्र ॥ ५ ॥

भीशिवतीं महाराजोंके मुख्यारविन्दिसे निकले कहसुभेष्ट चिन्तामणिनाम  
कहसुकीं पौपीं पीठिका इस प्रकार दामोदरजीने करी है ॥ १ ॥ महाधिकार  
और महाप्रभाव आकर्षण नाम चौथा अधिकार, इस अधिकारमें पौचदां रहस्य-  
भूत आकर्षणयंत्र वर्णित है ॥ २ ॥ इनि यंत्रप्रिवामणौ भास्तर्णगपिकारः ॥

३ पादभूता रहस्यदृतिश्च जटेत च नूने विश्वेष्यः ।

अथ स्तम्भनाधिकारः ।

नारायणीति निगदन्ति सदैव लोका यां विश्वमातरमिति  
प्रबद्धन्ति केचित् । गन्धर्वयक्षसुरसिद्धगणैः स्तुतां तां विश्वे-  
श्वरीमभयदां त्रिगुणां नमामि ॥ ? ॥ संस्तम्भनं नाम महाधि-  
कारं विचारयामोऽत्र तु पीठिकायाम् । यन्त्राणि वीजानि  
शृणुष्व देवि संस्तम्भनानि क्षणसिद्धिदानि ॥ २ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि महायन्त्रं स्तम्भनं सर्व-  
वरिणाम् । विवादे व्यवहाराणां मुखस्तम्भो भवेद्ध्युवम् ॥ १ ॥  
यदा कालवशादेवि कलहः संप्रजायते । तदा कुर्यान्महायन्त्रं  
जिह्वावेधनकं परम् ॥ २ ॥ रोचना भूर्जपत्रेण संलेख्यं  
सुविचक्षणैः । पट्टकोष्ठकं प्रकुर्बीति रेखाद्वितयकेन च ॥ ३ ॥  
कोष्ठमध्ये लिखेद्वाजं प्रतिकोष्ठमिहककम् । हकारं च मकारं  
च लकारं तदनन्तरम् ॥ ४ ॥ वकारं च रकारं च यकारं  
च प्रतिष्ठितम् । ऊकारस्वरसंयुक्तं मस्तके रेफसंयुतम्  
॥ ५ ॥ चिन्दुमात्रार्द्धसंयुक्तं संयोगे वर्णपट्टककम् । स्वर-

जिसको तीनोंलोक नारायणी इस सम्बोधनसे उघारण करते हैं, अन्य-  
जीव जिसको विश्वमाता कहकर पुकारते हैं ऐसी गंधर्व, यक्ष, सुर, सिद्ध  
गणोंसे स्तुति करी हुई अभयप्रदान करनेवाली रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण-  
रूपा विश्वेश्वरी भगवतीको नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ इस पंचमपीठिकामे  
स्तम्भन नाम महाधिदारका विचार किया जाता है—हे देवि ! क्षणमात्रमें  
सिद्धिके देनेवाले स्तम्भनयंत्र और वीजांसो श्रवण करो ॥ २ ॥

श्रीशिवजी बोल—हे देवि ! व्यपदारविवादमें सम्पूर्ण शत्रुओंके मुखस्तम्भन-  
कारक यंत्रको मुतो ॥ १ ॥ हे देवि । यदि कालवश कलह होजाय तो जिह्वा-  
वेधन नाम यंत्रको प्रयोग करे ॥ २ ॥ निधान यथा—गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर  
टूरे रेख, पट्टकोणयंत्रको लिखकर प्रतिकोणकी रेखाको त्रिशूल युक्तकरके अन्ति-  
रालमें टकार वीजांको लिख तथप्रान् प्रत्येक कोणके भीतर ह, म, ल, व, र,  
य, इन सभ वर्णोंको ऊपर नीचे स्थापितहर योजनापूर्वक अन्तमें ऊकार स्वरको  
मिलाऊर छिटु तथा रेफको ऊपरके भागमें लिखकर इकार स्वरको मिलाय गंध

—मुख्यादिकोंसे विधिपूर्वक पूजनकर निर्भित मन हो वक्ष्यमाण मंत्रका जप करे।  
मन्त्र ओं हृष्ट्यू ललडल अमुकस्य मुखं स्वम्भय ३ ठः ५ स्वाहा । विसंयाकालोमें

पुर्वैः कनकावदातैः ॥ १३ ॥ एवं कृते शत्रुगार्ति मर्ति च  
संस्तम्भयेद्यन्त्रवरो हि नूनम् । मूढो महाभूक इव प्रजायते  
अस्तो ग्रहेणैव रिपुर्महोग्रः ॥ १४ ॥

इति य० स्तम्भनाधिकारे शत्रुमुखगतिमनिस्तम्भनं नाम प्रथमं यन्त्रम् ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि यात्रास्तम्भन-  
मुक्तमम् । शिलासंपुटके लेख्यं पीतद्रव्येण शोभनम् ॥ २ ॥  
रोचनाहरितालं च हरिद्रां च मनःशिलाम् । कुङ्कुमेन समायुक्तं  
पीतद्रव्यं प्रचक्षते ॥ २ ॥ कुम्भे मोहे च वीजानि एकपङ्को

यात्रास्तम्भनयत्रम् ।

लिखेन्नरः । तस्याप्यधो लिखेन-  
त्राम मोहे चान्ते प्रतिष्ठितम् ॥ ३ ॥  
ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यक् चतुष्कोणं  
तु रेखया । कोणे कोणे त्रिशङ्कुं  
तु मध्ये मध्ये तथैव च ॥ ४ ॥  
कृत्वैवमष्टौ शिलानि यन्त्ररेखो-  
परि स्थितान् । संपूज्य पीतकु-  
सुमेर्यन्वराजं मनोहरम् ॥ ५ ॥

कुम्भे मोहे  
देषदत्तं मोहे

—तान दिनसः इम यंत्रको अष्टोत्तरशत अथवा शत उपको यत्नपूर्वक करके  
त्रिसन्ध्या कालमें सुवर्णरी वार्तिके समान पील वर्णबाले फूलोंसे पूजन करे ।  
इस विधानसे उत्तम शत्रुग्नी बुद्धि और गतिका स्तम्भन होगा और जैसे  
प्रहमे प्रह शान् नोता है । सीकारण शत्रुहर महाप्रह मूढ़की रामान मूरुभा-  
वको प्राप्त हो यान्त्र होगा ॥ १ १४ ॥

इति यंत्र०पौचर्मि० स्तम्भनाधिष्ठानुकीमुग्य गतिस्तम्भन प्रथम यंत्र ॥ १ ॥

श्रीमहादेवजी बोले—अथ यात्रास्तम्भनशारक अविडत्तम यंत्रको कहता है  
शिला संपुटके ऊपर पील द्रव्यमें चतुष्कोणयंत्रको लिखकर चारों पोनों तथा  
चारों दिशाओंमें एक । ६ शिला लियकर मध्यमें दो रेखामें कल्पना करे ।  
प्रथम रेखामें कुम्भे और मोहे और दूसरी रेखामें मोहर्यक्तिके मानुस्वार  
नामके अन्तर लिय अन्तमें दो दो यंगको दुक्क करे अर्थात् देवदत्तं  
मोहे इस प्रथा किय । तो यान्, दूसरा, मनशिला, कुम्भम इनको

धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः । एवं संपूज्य तद्यन्वं  
भूमिमध्ये क्षिपेत्ततः ॥ ६ ॥ मृदापूर्य समे देशे यन्त्रस्थोपरि  
यत्नतः । गमनं स्तम्भयत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥  
यथारोपितभाण्डोऽपि न यात्येव प्रिये सदा ॥ ८ ॥

इति यं० यात्रास्तम्भनं नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥ २ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रबक्ष्यामि वाचः स्तम्भं च  
सुन्दरि । प्रतिवादिमुखस्तम्भं यन्वं ख्यातं तु भूतले ॥ १ ॥  
पीतद्रव्येण संलेख्यं शिलासंपुटमध्यतः । रोचनाहरितालं च  
हरिद्रां च मनःशिलाम् ॥ २ ॥ कुंकुमेन समायुक्तं पीतद्रव्यं  
प्रचक्षते । मध्ये नाम लिखित्वा तु त्रिकोणं वेष्टयेत्ततः ॥ ३ ॥  
ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यग्वर्तुलं रेखयैकया । तस्योपरि दलान्त्यष्टौ  
प्रकुर्वात ततः परम् ॥ ४ ॥ दलमध्ये लिखेद्वीजं लकारं चिन्ह-  
भूषितम् । एवं चाष्टदले लेख्यं पूजयेत्कुसुमैः शुभैः ॥ ५ ॥  
पीतवर्णस्तथा धूपैर्दीपैर्नैवेद्यकैः शुभैः । व्रात्याणं भोजयेद्यैकं

-पीले द्रव्य कहते हैं, फिर मनोहर यंत्रराजका पीले फूलोंसे पूजनकर गंधादि  
शदान कर और नानाप्रकारके भक्ष्य नैवेद्यादिकोंको अर्पण करे, पृथ्वीके मध्यमें  
स्थापितकर यंत्रके ऊपर भिट्ठी ढालकर धंडकर दे वौ निश्चयही गमन रुक  
जायगा इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं । हे प्रिये ! मार्गमें आरोपित-  
भाण्डभी स्थितही रहेगा अन्यता तो कहना ही क्या है ॥ १-८ ॥

इति यन्त्राच्चित्त० पौचत्वा स्तम्भ०में यात्रास्तम्भन कारक दूसरा यंत्र ॥ २ ॥

श्रीशिव नी योले-हे सुन्दरि ! धर वाणीस्तम्भनको कहता हूं और यह  
यंत्र प्रतिवादिमुखतम्भनामसे भूतलमें प्रसिद्ध है । विधान इस प्रकारसे है,  
उक्त पीले द्रव्यने शिलासंपुटके मध्यमें त्रिकोण यन्त्रको छिपाहर गोलाकार  
चक्रमें बेष्टिहर आठ दलसे सुशोभितकर उक्त त्रिकोणके भीतर सात्य-  
व्यक्तिके नामके अअर भौंर दलोंमें छं थोजोंको स्थापित करे । किर पीले  
पर्णुक्त मुंधियाले पुम्प, धूप, दीप, नैवेद्यादिकोंसे यन्त्रराजका पूजनकर  
पायम ( मेर ) कथा गुडभित्र पदार्थोंसे एक माद्यगको भोजनकर उक्त

१ अं द्वितीय युद्धं चमां रात्रेतीम् । पर्वतं पोन्हुद्वामे नारेत्तुलेव च ॥ १ ॥-

प्रतिवादिमुखस्तम्भनयन्त्रम् ।



इ० य० प्रतिवादिमुखस्तम्भनं नाम नृतीथ यन्त्रम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रबक्ष्यामि शब्दोर्ब्रह्मस्य सुद्रणम् ।  
यदा संजायते वादः शब्दूणां सह सुव्रते ॥ १ ॥ तदा यन्त्रं  
प्रकुर्वीत सुगमं फलसिद्धिदम् । खट्टिकणा तु संलेख्यं स्वभित्तौ  
वेगतः प्रिये ॥ २ ॥ मध्ये नाम लिखित्वा तु शब्दोस्तु विधि-


—विधानपूर्वक पृथ्वीको खोदकर यंत्रको स्थापित करके ऊपर मिट्टी ढालकर<sup>१</sup>  
वन्दकर दे तो व्यवहार, विवाद, शास्त्रधर्मादिकोंमें प्रतिवादीके मुखका  
स्वंभन होजायगा । हे देवि ! यह परमगुप्त यंत्र मैंने तुमसे कहा है ॥ १-८ ॥  
इति यंत्र० पाँचवी० प्रतिवादिमुखस्तम्भन नामवाला सीसरा यंत्र ॥ ३ ॥

श्रीशिवजी बोले—हे सुव्रत ! शत्रुके साथ विवाद होनेमें शत्रुके मुखको  
यन्द करनेवाला यंत्रको कहता हूँ । हे प्रिये ! जिस समय शत्रुसे विवाद हो  
उसी समय शीघ्रसिद्धिके देनेवाले यंत्रका प्रयोग करे । विधि—अपने स्थानकी  
दीवारके ऊपर खट्टियामिट्टीसे गोलाकार चक्र रैंचकर आठों दिशाओंमें विशूल

—प्राणाण्येतानि पुष्पाणि यथादामं वरानने । अन्यानि यीदर्थानि न प्रादाणि वदाचन ॥ २ ॥  
हे वरानने । कुट्टन, चम्पा, स्वर्णेतृष्णी, घृणा, नागकेश, पौत्रकुमुके वधनां इनकेही  
यथाकृष्ण पाले कूल जितने मिले इन्हें प्रहण करना योग्य है अन्यप्रकारके नहीं ॥ १ ॥ ३ ॥

पायसेन गुडेन च ॥ ६ ॥  
ततो निखन्य भूमौ तु  
स्थापयेत् पूर्ववत्ततः ।  
विवादे व्यवहारे च  
शास्त्रधर्मासु च प्रिये ॥ ७ ॥  
प्रतिवादिमुखस्तम्भो  
जायते नाव्र संशयः ।  
एतद्यन्तं महादेवि सुगो-  
प्यं कथितं तत्र ॥ ८ ॥

शत्रुमुखस्तम्भनपन्नम् ।



तामिति ॥ ५ ॥ बादे पिशुनतार्था च सुखस्तम्भं करोत्ययम् ॥ ६ ॥

इति श्रीयन्त्रचिं ना० म० प्र० उ० प० दा० स्त० शत्रुमुखस्तम्भं  
चतुर्थं यन्त्रम् ॥ ४ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि वह्निस्तम्भं मनोहरम् । दिव्यकाले प्रकुर्वीत यन्त्रराजं सुशोभनम् ॥ १ ॥ पीत-  
द्रव्येण संलेख्यं भूर्जपत्रे वरानने । साध्यनाम लिखेन्मध्ये क्रों  
नामाद्यन्तसंपुटम् ॥ २ ॥ उपर्युधोऽपि विलिखेत्कोंकारं सुमनो-

लगाय यंत्रको निर्माणकर सानुस्वार साध्यव्यक्तिसे नामाक्षर लिखकर वही  
स्थित यंत्रका धेतपुष्प, फल, सुरंध, सनोहर धेतवष्ट इनसे पूजनकर एक  
ज्ञाहाणको भोजन करावे और “श्रीशिवः प्रायताम्” इसको पढ़ताजाय तो  
इस यंत्रके प्रतापसे वाद और पिशुनतामें शत्रुका सुखस्तम्भन होगा ॥ १-६ ॥

इवि यंत्रचिन्तामणिकी पाँचवीं पोठिकाके स्तम्भनाधिकारमें शत्रु-  
सुखस्तम्भनामक चौथा यंत्र ॥ ४ ॥

श्रीशिवजी थोले—अब मनोहर अग्निस्तम्भन यंत्रको कहता हूँ—इस यंत्रराजका  
दिव्यकालमें प्रयोग करना योग्य है । विधानयथा—पीले द्रव्यसे भोजपत्रके  
ऊपर दो रेखायुक्त चतुर्कोणयंत्रको लिखकर पुनः उसके भीतर एक चतुर्कोण  
यंत्र और लिखकर वहिर्भागिके चारों कोनोंमें दो दो त्रिशूल छाकर भीत-  
रके चतुर्कोणके ददरमें पूर्वादि चारों दिशाओंमें को बीजसे लिखकर सानु-

हरम् । ततस्तद्देष्येदेवि चतुष्कोणं तु रेखया ॥ ३ ॥ तस्योपारि चतुष्कोणं प्रकुर्वीत द्विरेखया । कोणान्तराले संलेख्यं लकारं विन्दुभूषितम् ॥ ४ ॥ एवं चतुष्यं लेख्यं लकाराणां तु बीजकम् । कोणान्ते तु पृथग्लेख्यौ विभूलौ सर्वथा प्रिये ॥ ५ ॥ एवमप्त्विशूलानि विलिख्याथ प्रपूजयेत । संपूज्य त्राह्णं वहिस्तम्भनयत्रम् ।



भोजय यन्त्रं भूमाँ विनिक्षिपेत ॥ ६ ॥ वहिद्वुदक्षां च मध्ये यन्त्रं विधाय च । यावत्तस्योपारि याति सलिलं वरवर्णिनि ॥ ७ ॥ तावद्यर्महास्तम्भो जायते नात्र संशयः । दिव्यस्तम्भकरं नाम यन्त्रं देवैः सुपूजितम् । न देयं यस्य कस्यापि यदीच्छेत्सिद्धिभात्मनः ॥ ८ ॥

इति श्रीयन्त्रचिं ना० मा० प्रा० उ० पा० स्त० दा० वहिस्तम्भनं नाम पञ्चमं यन्त्रम् ॥ ९ ॥

—स्वार साध्यव्यक्तिके नामाक्षरोंको लिय मध्यकोणके वाहिभर्गिमें लं बीजोंको लिये । फिर गंधादिकोंसे उच्च यंत्रराजका पूजनकर यथाद्वाक्ति त्राह्णाणको पूजित कर भोजनकर यंत्रको पृथ्वीमें गाढ़े और उस यंत्रके ऊपर जलका व्यवहार करे । हे वरवर्णिनि ! जबतक उसके ऊपर जल व्यवहार होता रहेगा सबतक अप्रिका महारंभन होगा । इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है । हे देवि ! दिव्यस्तम्भनकारक इस यंत्रका देवताओंने भी पूजन किया है । अपनी सिद्धिकी इच्छा करनेवाला साधक अधिकारीके विना अन्य किसीको न दे ।—  
इति यंत्रचिन्तामणिकी पाँचवीं पाठिकाके स्तंभनाविकारमें

अप्रिस्तंभनकारक पांचवां यंत्र ॥ ९ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्त्रं वह्निनिः  
वारणम् । यस्मिन्गृहे स्थितं यन्त्रं तत्र नाश्रिभयं क्वचित्  
॥ १ ॥ यस्य हस्ते सदा तिष्ठेद्यन्वराजं मनोहरम् । स्वप्ने-  
अप्यग्निभयं तस्य कदाचिन्नोपजायते ॥ २ ॥ अलात्कारेण  
कर्तव्यमग्निनिप्रहकं प्रिये । विद्यागमे तथा भन्त्वैरौषधे वा बला-  
धिके ॥ ३ ॥ पादस्मृष्टो यथा सर्पो दशत्येव न मन्यते । तथा  
स्तम्भोऽपि देवेशि बलात्कारेण वा जनेः ॥ ४ ॥ अपमृत्युं  
यथा देवि हरेद्दै वैद्यको रसः । तथा यन्त्रोऽपि देवेशि अवा-

अग्निस्तंपनयन्त्रम् ।



न्तरभयं हरेत् ॥ ५ ॥ श्रीखण्डरोचनहिमेन  
तु लेखनीयं यन्त्रं तु भूर्जे विधिवत्तु  
विस्तृते । नाम स्वकीयं तु विलित्य  
मध्ये सुवेष्टयेद्वर्तुलरेखया तथा ॥ ६ ॥  
तस्योपारि लिखेन्नानं वकारं विन्दुभूषि-  
तम् । पूर्वे च दक्षिणे चैव पश्चिमे चोत्तरे  
पुनः ॥ ७ ॥ स्तम्भर्वं तु संवेष्टय चतुष्कोणं तु रेखया ।  
विलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले गलेऽपवा ॥ ८ ॥ अथवा गृह-

श्रीशंकरजी थोले—हे देवि ! अब अग्निवारण यंत्रको कहताहूँ सुनो ।  
जिस मृहमें यह यंत्र स्थित रहेगा उस गृहमें कदापि आग्निका भय नहीं होगा  
और जिस किसीके हाथमें यह मनोहर यंत्रराज सदा वर्तमान रहेगा, स्वप्नमें  
भी उसको कदापि आग्निका भय न होगा । हे प्रिये ! विद्यागमन, मंत्र, औपय  
अथवा घलअधिक होनेपर बलात्कारसे अग्निका प्रहण करना योग्य है, हे देवेशि !  
जैसे कि पादसे स्पर्श कियाहुआ सर्प काटता ही है, ऐसेही मनुष्यों करके प्रयोग  
कियाहुआ स्तम्भनयन्त्रं फलदायक होताही है । हे देवि ! जैसे कि वैद्यका रस  
अपमृत्युको हरण करता है तैसेही यह यंत्रराज अवान्तरभयको हरण करताहै ।  
विधान यथा—लाल धंदन, गोरोचन और हिमसे सुविस्तृत भोलपत्रपर  
विधान पूर्वक एक गोलाकार चक्रक मध्यमें साध्यव्यक्तिके नामको लिख वाहिभागमें अर्थात् पूर्वादि चारों दिशाओंमें धं धीजको लिख गंधपुष्पादिकोंसे  
पूजनकर विलोहके तारीजमें धंकर गले अथवा चाहुमूलमें धारणकर,

मध्ये तु क्षीरमध्ये विनिक्षिपेत् । एवं संपूजयेन्नित्यं देवबद्देषि यन्त्रकम् ॥ ९ ॥ अग्नेः सकाशाद्वीतिर्या साऽस्मात्कापि न जायने । व्रात्मणं भोजयेदेकं यन्त्रराजस्य तुष्टये ॥ १९ ॥

रति १० विंशति २० म० प्र० द० प० स्त० अग्निस्तम्भनं नाम षष्ठं यन्त्रम् ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवद्यामि प्रियसंस्तम्भनं परम् । यदा क्तोऽपि यलाद्याति वारितोऽपि वरानने ॥ ? ॥ तदा संस्तम्भनं कुर्याद्यन्त्रराजं शुचिस्मिते । पीतद्वयेण संमिश्रं फलये काटसंभवे ॥ २ ॥ गट्टिकया लिखेद्यन्तं मूलके काष्ठ-संभवे । जकारगर्भमध्ये तु साध्यनाम प्रतिष्ठितम् ॥ ३ ॥

दात्रास्तम्भनयः प्रम् ।

१६.

८८

ज


देवताः

ततस्तन्देष्टयेत्सम्यक् चतुष्कोणं तु रेत्यया । तस्योपरि चतुष्कोणं द्विनीयं शिलिङ्गंद्वयः ॥ ४ ॥ कोणे दलाकृतिं गृग्यान्मध्यदेशो यच्चित्तरः । दलमध्ये लकारं तु यिन्दु-युक्तं लिङ्गेन प्रिये ॥ ६ ॥ पश्च शिलिङ्गप मंपूज्य शिपियद्यन्त-मुनमम् । अप्तोमुखं नियमीयात्

फलकं गृहमध्यतः ॥ ६ ॥ यात्रास्तम्भो भवेदेवि नात्र कार्या  
विचारणा ॥ तथापि गच्छते यस्तु गत्वाऽपि च समेत्यसौ ॥ ७ ॥

६० य० च० ना० प्र० उ० प० यात्रास्तम्भनं नाम सत्तमं यन्त्रम् ॥ ७ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि वैरिवाक्स्तम्भनं  
परम् । खट्टिकया तु संलेख्यं शिलासंपुटमध्यगम् ॥ १ ॥ ह्रींकार-  
शत्रुमुखस्तम्भतयन्त्रम् ।



-तो हे देवि ! यात्रा का स्तम्भन होगा, इसमें किसी प्रकार सदैह नहीं है,  
अथवा चलागया हो तो लौट आवे ॥ १-७ ॥

इति श्रीयंत्रचिन्ता० यात्रा स्तम्भनकारक सातव० यंत्र ॥ ७ ॥

श्रीशिवजी कोले—अब शत्रुकी वाणीके स्तम्भनकारक परमयंत्रको कहताहूं—  
खट्टियामिट्टीसे शिला संपुटके भीतर चार रेखावाले घुप्कोण यंत्रको लिखकर

गर्भमध्ये तु साध्यनाम प्रतिष्ठितम् । ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यकं  
चतुष्कोणं तु रेखया ॥२॥ एवं चतुश्चतुःकोणं लिखित्वा यन्त्रकं  
परम् । अन्त्यकोणे त्रिशूलानि चतुर्दिक्षु चतुश्चतुः ॥ ३ ॥  
विलिख्य पूजयेद्यन्त्रं विधिवत्कुसुमैः शुभैः । संपुटं मेलयित्वा  
तु स्थापयेद्यन्त्रकं शुभम् ॥ ४ ॥ तत्क्षणाऽजायते शत्रोमुख-  
स्तम्भो न संशयः । ब्राह्मणं भोजयेत्वैकं श्रीविद्या प्रीय-  
तामिनि ॥ ५ ॥

इनि यन्त्रनिः ० ना० म० प्र० उ० पंटितदा० स्त० शत्रुमुखस्तम्भनं  
नामाऽष्टमं यन्त्रम् ॥ ८ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि यन्त्रं पिशुनमुद्र-  
णम् । यदा राजकुले देवि पिशुनः कोऽपि वै वदेत ॥ १ ॥  
तदा यन्त्रं प्रकुर्वीत नाम्ना पिशुनमुद्रणम् । शत्रोः स्तम्भयते  
वाचं गतिं बुद्धिं वरानने ॥२॥ रोचनाभृजपत्रैण लिखेद्यन्त्रं सु-  
शोभनम् । क्रोंकारपुटितं कार्यमक्षरं नामसंभवम् ॥३॥ ह्रीङ्कार-

---

-प्रत्येक कोणकी प्रतिरेखाको विशूलयुक्तर उक्त यंत्रसे भीतर अर्द्धचंद्राकार  
और एक विन्दुको ऊपरके भागमें लगा एक ही वीजको लिखे और उस ही  
वीजकी मात्राके मध्यमें साध्यव्यक्तिके नामको लियर गंध पुष्पादिकोंसे पूजन  
कर संपुटको मिलाकर शुभर्यत्रको स्थापितर्स्त तो तत्क्षणमें शत्रुके मुखका  
स्तंभन होगा। इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है, एक ब्राह्मणको भोजन  
करावै और कह कि ' श्रीविद्या प्रीयताम् ' ॥ १-५ ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणिकी पाँचवीं पीठिकाके स्तंभनाधिकारमें  
शत्रुमुखस्तंभनकारक आठवां यंत्र ॥ ८ ॥

श्रीशिवजी योले-हे देवि, अथ पिशुन मुद्रणनाम यंत्रहो कहताहूँ । राज-  
कुलमें यदि कोई पिशुनता ( शुगली ) को करदे तो उसके मुखमुद्रणके लिये  
पिशुनमुद्रण नाम यंत्रसा प्रयोग कर । हे दरानने ! इसके प्रतापमें शत्रुकी  
याणी गति बुद्धि इनका स्तंभन होजायगा । गंतोचनमें भोजपत्रके ऊपर  
चतुर्कोण यंत्रको लिखकर प्रत्येक कोणमें एक एक दल लगाकर उक्त  
यंत्रके पादिभाग पूर्व पश्चिममें क्रों ध्वः इन वीजोंको लियर मध्यभागमें क्रों, हीं

भोजयेत्पश्चाद्वित्तशाठयविवर्जितः । तस्माद्यन्तं निखन्याशु  
भूमिमध्ये विनिक्षिपेत् ॥ ११ ॥ तुद्विभ्रंशो गतिभ्रंशो वाग्-  
भ्रंशश्च वरानने । पिशुनस्य क्षणादेवि जायते नात्र संशयः ॥१२

इति यन्त्रचिंता० ना० म० प्र० उ० स० दा० पंडितोद्धृते  
स्तं० पिशुनमुखमुदण नाम नवमं यन्त्रम् ॥ ९ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी नामिन महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धि-  
प्रदे उमामहेश्वरसंवादे दामोदरपण्डितोद्धृते पञ्चम-  
पीठिकायां स्तम्भनाधिकारः समाप्तः ॥

अय विद्वेषणाधिकारः ।

त्वरितं जानकीं द्रष्टुं निहन्तुं रावणं युधि । पूजितां राम-  
चन्द्रेण त्वरितां तां नमाम्यहम् ॥ ? ॥ विद्वेषणं नाम महा-  
धिकारं प्रारम्भते संप्रति तच्चतुर्थम् । यन्त्राणि चीजानि परि-  
स्तुटानि विचारयामोऽत्र सुपीठिकायाम् ॥ २ ॥ दौर्भाग्य-  
वैराणि परस्परं तदा विवर्जते द्वेषमतीव वन्धुषु । यन्त्रप्रभावा-  
द्भूवि मानवानां प्रचक्षमहे तानि परिस्तुटानि ॥ ३ ॥

ब्राह्मणको भोजन करावं, परन्तु वित्तशाठय विवर्जित होकर करै, फिर भूमिमें  
गढ़ा करके यंत्रको दावदे सो हेसुन्दरि ! पिशुन गतुकी धुद्धि वाणीकी गति  
इत्यादिकोंका भंश होगा ॥ १-१२ ॥

इति यंत्रचिन्ता० पिशुनमुखस्तम्भन नामक नववां यंत्र ॥ ९ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी नामिन महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर  
सम्बादे दामोदर पंडितोद्धृते पंडित बलदेवप्रसादमिश्रकृत  
भाषाटीकासहितपंचमपीठिकायां

स्तम्भनाधिकारः समाप्तः ॥

शीघ्रही श्रीमहाराणी जानकीजीके अन्वेषणके लिये और संप्राममें रावणके  
मारनेके लिये श्रीरामचंद्रजीसे पूजितहृद्द त्वरिता देवीको नमस्कारकरताहूँ ॥ १ ॥  
जब विद्वेषण नाम छठा महा अधिकार आरम्भ करा जाताहै । इस सुपीठि-  
कामें यंत्र, धीजोंका विचार करते हैं जिन यंत्रोंके प्रयोग करनेसे दौर्भाग्य,  
आपसमें धैर, पञ्चमोंमें धैर अति धृद्धिको प्राप्त हो अब उन यंत्रोंको सुट्टा-  
पूर्षक कहताहूँ ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्वं दौर्भाग्यवर्ध-  
नम् । विवादो नरनारीणा येन संजायते सदा ॥ १ ॥ रोचना-  
कुहुमेनैव भूर्जपत्रे वरानने । लिखेद्यन्वं महादेवि यन्वं सौभा-  
ग्यनाशनम् ॥ २ ॥ कुर्यात्तिर्यगता रेखाः पूर्वपश्चिमसंस्थिताः ।  
दीर्घकोष्ठाकृतिं कुर्यादृष्टसंख्याः शुचिस्मिन्ने ॥ ३ ॥ तन्मध्योप-  
रिभागेच एकैकं विलिखेत्क्रमात् । मध्ये नामाक्षरं देवि द्विवारं तु  
पुनःपुनः ॥ ४ ॥ तस्याधोधःक्रमेणैव तेनैव विलिखेत्पुनः । दुर्भगा  
चेति श्रीलिङ्गे विधिवच्च पुनःपुनः ॥ ५ ॥ पुनस्तान्पेवाक्षराणि  
कोष्ठा यावत्समापिताः । कोष्ठबाह्येऽपि विलिखेदधोपरि  
विशेषतः ॥ ६ ॥ अजितेत्युपरि संलेख्यं स्वाहान्तं प्रणवाद्रिकम् ।  
नरनारोविद्वेष्टयन्त्रम् ।

### ॐ अजितेस्वाहा

दे	व	द	त्त	दे	व	द	त्त
दु	र्भ	गा	भ	व	दु	र्भ	गा

### ॐ अपराजितेस्वाहा

श्रीशिवजी योले-हे देवि ! जिन यंत्रोंके प्रयोगकरनेसे विवादमें नर-ओर  
नारीके दौर्भाग्यकी सदा शृद्धि हो अब उन यंत्रोंको कहता हूँ भवण  
करो-हे शुचिस्मिन्ने ! गोरोचनसे विस्तारित भोजपत्रके ऊपर चतुकोण  
यंत्रको सेचकर मध्यभागमें पूर्व पश्चिमकी ओर खड़ी ९ रेखा ( कि, जिनके  
अष्ट कोष्ठ होते हैं ) लिखकर प्रतिरेखाको मिथितकर उनके ऊपर भागमें  
“ ओ अजिते स्वाहा ” नीचेके भागमें “ ओं अपराजिते स्वाहा ” इन  
पट्टोंको लियाहर कोष्ठोंके भीतर हो वार ऊपर भागमें सात्यव्यक्तिके नामा-  
क्षरोंको लिय दुर्भगा भव इन यांगोंको नीचेके भागमें लिये । यदि सात्य-  
व्यक्तिके नामके अध्यर वोष्टसंख्यासे अधिक हों तो वहिर्भागमें लियेने योग्य  
है । परन्तु श्रीलिङ्गमें अर्थात् छीकि प्रसंगमें दुर्भगाभव इसप्रकार लियना

अपराजिते अधोभागे स्वाहान्तं प्रणवादिकम् ॥ ७ ॥ एवं  
 संलिख्य यन्त्रं तु गच्छेद्यैव सरित्तदे । उभयोः कूलयोग्राह्या  
 मृत्तिका मौनिना शुभा ॥ ८ ॥ तया गणपतिं कृत्वा यन्त्रं  
 तस्योपरि क्षिपेत् । गोदुग्धस्नपनं कुर्याद्ग्रहणनाथस्य सुन्दरि  
 ॥ ९ ॥ अर्चयेद्विविधैः पुष्पेमांदकेर्वहुभिस्तु तम् । संपूज्य  
 बालकान् भक्ष्यैर्गणेशः प्रीयतामिति ॥ १० ॥ एवं संपूज्य  
 देवेशं गणराजं शुचिस्तिते । शरावसंपुटे क्षित्वा संपुटोपरि  
 विन्यसेत् ॥ ११ ॥ अघोरेति अघोरेति विलिखेत्संपुटोपारि ।  
 भूमिष्ठं सम्पुटं कुर्याद्विलक्ष्यादथ पूजयेत् ॥ १२ ॥ दौर्भाग्य-  
 मतुलं प्राप्य नारी सीदत्यहर्निशाम् । पुरुषो न सहेतां तु सुस्त-  
 पामपि सुव्रते ॥ १३ ॥ पुर्णिंगे योजितं यन्त्रं नारी न सहेते  
 तु नम् । दंपत्योद्घेषणं देवि रहस्यं परमं सदा ॥ १४ ॥  
 नान्यत्र संप्रयोक्तव्यं यन्त्रमेतत्तम मियम् न देयं यस्य कस्यापि  
 विपरीनं प्रजायते ॥ १५ ॥

इति श्रीपत्रचिं विट्ठेषणाविज्ञारे नरनारीविट्ठेषण प्रथम य-त्रम् ॥ १ ॥

-योग्य है ! हे सुन्दरि ! इस प्रकार यंत्रको निर्माणकर नदीके तटपर जाकर आरपारकी मृत्तिका लाकर मौन हो उक मृत्तिकासे गणशजीकी प्रतिगामनाकर यंत्रको उसके ऊपर रखकर गंव पुष्प मंदेकआदि द्रव्योंसे मुत्तिपूर्वक पूजनकर 'गणेशः प्रीयताम्' इ वाक्यको उच्चारणकर भक्ष्यपदार्थोंसे बालकोका पूजन करे । हे शुचिस्तिते ! इस प्रकार गणेशजीका पूजनकर शरावसंपुटमें रथ संपुटमें स्थापित करे, भूमिमें संपुट रसे दकर अघोरेति अघोरेति इस भंत्रको पढता हुआ प्रतिमाको स्थापितकर पूजनकरे । हे सुव्रते ! अति दौर्भाग्यको प्राप्त होकर नारी रातदिन दुःखी होगी, तथापि पुरुष उसको न सहनेको समर्थ होगा । चाहे यह नारी मुरुणाभी क्यों न हो ? यदि इस यंत्रका पुर्णिंग विषयमें प्रयोग किया जाय तो नारी नरको नहीं सह सकेगी, हे देवि ! यह रहस्य खीमुरुपोऽग विद्रोहकारक है । मेरे लाए इस यंत्रका अन्यविषयमें प्रयोग करना उचित नहीं है, और न किसीको देना योग्य है, क्योंकि देनेस विपरीत फलदायक होगा ॥ १-१५ ॥

अति यंत्रचिन्तामणिः ० नरनारीविट्ठेषणं न म प्रथम यंत्र ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रब्रह्मामि शत्रुविद्वेषणं परम् ।  
परस्परं महाद्वेष्यं शत्रूणां जायते परम् ॥ २ ॥ विद्वेषिरक्तयुक्तेन  
लेखन्या काकपिच्छुया । इमशानकर्पटे लेख्यं चतुर्दश्यां वरा-  
नने ॥ ३ ॥ ह्रींकारं च अ-  
कारं च विन्दुयुक्तं ततः  
परम् । ह्रींकारं च तृतीयं वे  
एकपंक्तौ लिखेहुधः ॥ ४ ॥  
अधःपंक्तौ ततो नाम  
वर्तुलं वेष्टयेत्ततः । चतु-  
र्दश्लं ततः कुर्याद्विद्व-  
तयभूषितम् ॥ ५ ॥ दल-  
मध्ये तथा लेख्यं मध्य-  
देशे तथैव च । अजा-

रक्तेनसंभिंश्च भक्तं नेवशकं भवेत् ॥ ५ ॥ वलिपुष्पेः प्रपूज्याय  
यन्त्रं रात्रौ वरानने । योगिनीं भोजयेत्वेकां गुरुं संपूज्य  
यत्वतः ॥ ६ ॥ उद्घासे शिवगेहेतु स्थाप्य यन्त्रं न संशयः ।  
इमशानेऽप्यथधा स्थाप्यं गृहे नेव कदाचन ॥ ७ ॥ शत्रूणां जायते


श्रीशिवनी थोले—अब शत्रुविद्वेषण नाम यथा को कहता हूँ, इस प्रयोगकरनेसे  
शत्रुओंका परस्पर परम विद्वेष होगा । विधान यथा—इमशानके बब्पर भूपते  
(विद्वेषके)रक्तसे कारुके पंख दीकलमसे एक गोलाकार चक्र खेतकर दो रक्षावाले  
कमलदलोंको पूर्वादि चारों भागोंमें स्थापित करे । इसकुपेछे उस गोलाकार  
चक्रके भीतर तथा चारों दल और प्रतिदलके संधिभागके समीप हीं, अं हीं,  
इन तीन धीजोंथोउपरके भागमें भौंर माध्य मतुर्दशे नामके अक्षरोंको नीचके  
भागमें लिखे अर्थात् ऊपर नीचे लिखे । हे वरानन ! इस प्रकार यंत्राजको  
निर्माण करके अजारक मिथित भात और भैवेद इनको थिल तथा गंध पुष्पा-  
दिकोंसे राखिए रामय यन्त्रराज तथा गुरुमाण्यका पूजन करके एक  
योगिनीको भोजन पराये और यंत्रका उद्घास शिवनन्दिर अथवा इमशानमें  
स्थापित करे परस्पर किसी प्रदारमां स्थितरम् पूजन न हो । इस प्रयोगके



द्वेषः क्रमेणैव न संशयः । स्वशत्रुद्वेषणं नाम यन्त्रराजं महा-  
फलम् ॥८॥ एकान्ते स्मरणीयं च लोकान्ते न कदाचन ॥९॥

इति श्रीय० ना० उ० वि० दा० शत्रुविद्वेषणं नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥१०॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं भवस्यामि चन्द्रुविद्वेषणं परम् ।  
श्मशानकर्षटे लेख्यं लेखन्या काकपिच्छया ॥ १ ॥ मेषस्य  
रुधिरेणैव वृद्धाङ्गां श्मशानकम् । साध्यनाम लिखित्वा तु  
चन्द्रुविद्वेषणयत्रम् ।



त्रिकोणं वेष्टयेत्ततः ॥ २ ॥ अधोपरि च रेफौ च संलेख्यौ  
भूतरात्रिशु । ततस्तदेष्टयेत्सम्यक् चतुष्कोणं तु रेखया ॥ ३ ॥  
कोणे कोणे त्रिश्लूनां संलेख्यं च चतुष्प्रयम् । चतुर्द्विक्षु-

--रनेसे शत्रुओंका विद्वेषण होगा, यह स्वशत्रु विद्वेषण नाम यंत्र महाफलदा-  
यक है इसका प्रयोग एकान्तमें करें, दूर छिसीके सामने न करें ॥ १-९ ॥

इति यंत्रचिऽ वि० स्वशत्रु विद्वेषण नामक दूसरा यंत्र ॥ २ ॥

श्री शिवजी थोले—अब यंत्रविद्वेषण नाम यंत्रको कहाहूँ—श्मशान वस्त्रके  
ऊपर काकपत्रकी लेखनीसे एक चतुष्कोण यंत्रको रेखचक्र उसके भीतर त्रिकोण  
यंत्रको खीच प्रत्येक कोणमें चार २ त्रिश्लू लिख पूर्वादि चारों दिशाओंकी  
रेखाओंमें दोहरे रकार न्यापित करे तःप्रधान् भूतरात्रिमें श्मशानके अंगारेको

मुखं लेरव्यं चतूरेकोपरि स्थितम् ॥ ४ ॥ एवं संलिख्य यन्त्रं तु  
संपूज्यं पूर्ववत्सुनः । सप्ताङ्गुलं निखन्यातु पूरयेद्भूमिमध्यतः ॥ ५ ॥  
यत्रास्ति तेषां मार्गश्च तत्रैव प्रक्षिपेत्ततः । परस्परं महाद्वेषं  
बन्धुनां संप्रजायते ॥ ६ ॥ यस्य पादः पतत्यत्र सोऽपि दौर्भा-  
ग्यभाजनः । जायते नात्र संदेहो यन्त्रराजप्रसादतः ॥ ७ ॥

इति श्री यन्त्रचिं० बन्धुविद्वेषणं नाम तृतीयं यन्त्रम् ॥ ३ ॥

**श्रीशिव उवाच ॥** अतः परं प्रवद्यामि विद्वेषं स्वामि-  
स्वामिभूत्यविद्वेषणयत्रम् । भूत्ययोः । विषेण रक्तमिश्रेण

लेखन्या काकपिच्छुया ॥ १ ॥  
इमशानकर्पटे लेरव्यं चतुर्दश्यर्द्धा  
महानिशि । साध्यनामाल्यगर्भ  
तु चर्तुलं वेष्टयेत्ततः ॥ २ ॥ तस्यो-  
परि अधोभागे रकारवितयं पुनः ।  
यकारं संपुटे लेरव्यं तिर्यग्भागे  
द्विबीजकम् ॥ ३ ॥ यकारं च

-मेप (मेंडा) के राधिरमें घिसकर उससे उक्त विकोणके भीतर साध्यव्यस्तिके  
नामाक्षरोंको लिख विकोणके ऊपर नीचे दो दो रकार वर्ण लिखें । इस प्रकार  
यन्त्रको लिखकर पूर्ववत् पूजनकर सात अंगुल भूमि खोद यंत्रको दाढ़े  
तब परस्परमें बन्धुओंका निश्चयही विद्वेष होगा, अधवा अन्य किसीका भी  
भूमिमध्यमें स्थित यंत्रके ऊपर पैर पढ़ेगा तो वहभी दौर्भाग्यका भागी होगा,  
इस यंत्रराजका ऐसा प्रभाव है परन्तु उस स्थानकी भूमिमें दर्शि कि, जहाँ  
शब्दुके आनेजानेका मार्ग हो ॥ १-७ ॥

इति यंत्रचिन्तामणिकी छठी पीठकाके विद्वेषणाधिकारमें बन्धु  
विद्वेषण नामक तीसरा यन्त्र ॥ ३ ॥

**श्रीशिवजी** बोल-अब स्वामी और सेवकके विद्वेषकारक यंत्रको कहता  
हूँ । विद्यान यथा-रुद्धिर मिले विषसे काकपत्रकी लेखनीके द्वारा इमशान  
कर्पटके ऊपर एक गोलाकार यंत्रको दैन्य एक अंगुलके अंतरसे उक्त यंत्रके  
बहिर्भागमें एक यंत्र और खैंचकर प्रथम चक्रके भीतर सालुखार साध्य-  
व्यक्तिके नामको लिख पुनः दूसरे यंत्रके मध्य पूर्वपश्चिम भागमें यकारपुटि,

सकारं च विसर्गान्तं प्रतिष्ठितम् । एवं संलिख्य यन्त्रं तु वर्तुलं  
वेष्टयेत्ततः ॥ ४ ॥ एवं संलिख्य यन्त्रं तु तेषां मार्गे निखन्यतु ।  
संजायते महाद्वेषः स्वामिसेवकयोः सदा ॥ ५ ॥ यावद्यन्तं तु  
भूमिष्ठं तावद्वेषः प्रजायते ॥ ६ ॥

इति श्रीयन्त्रं चिं० स्वामिभूत्ययोविद्वेषणंनाम चतुर्थं यन्त्रम् ॥ ४ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि जगद्ग्रेषणकं परम् ।  
यत्नं भयानकं नाम दौर्माग्यस्य विवर्धनम् ॥ १ ॥ काकोल्दं  
कस्य रक्तेन क्रितुरक्तेन वा पुनः । दौर्माग्यललनायाश्च लेखन्या  
काकपिच्छया ॥ २ ॥ विलिखेद्गूर्जपत्रे तु साध्यनाम निशि

## विश्वविद्येषणयन्त्रम् ।



प्रिये । कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यां लिखे-  
 द्यन्तं मनोहरम् ॥ ३ ॥ साध्य-  
 नाम लिखेन्मध्ये ठकारपरिवेष्टितम् ।  
 ठकाराणां न संख्याऽस्ति विषयमैवं-  
 ष्टयेत्सदा ॥ ४ ॥ ततस्तु वर्तुलं  
 वेष्टयं दुर्भगो भव वेष्टयेत् । एतद्यन्तं  
 तु संस्थाप्य तद्गृहे तृणमध्यतः ॥५ ॥

—३ रकार वर्णोंको और उत्तर दक्षिण भागोंमें विसर्गन्ति यकार सकारोंको  
लिखे । तत्पश्चान् गन्धपुष्पादिकोंसे यंत्रका पूजनकर स्वामी—सेवकके मार्गमें  
भूमि खोदकर दबादे तो स्वामी सेवकका प्रतिदिन विद्वेष रहेगा ॥ १-६ ॥  
इति यन्त्र चिन्तामणिकी० स्वामीसेवकविद्वेषणनामक चीथा अन्तः ॥ ४ ॥

श्रीमहादेवजी दोले-हे देवि ! अब जात् विद्रोपक नाम यन्त्रको कहता हूँ  
मुझे इस यन्त्रका भयानक नाम है और दौर्माण्यवृद्धि इसका प्रभाव है ।  
विद्याम यथा—काक, उल्क इनके रक्तसे तथा दौर्माण्यललना (स्त्री) के अतु-  
रक्तसे भोजपत्रके ऊपर काकपत्रकी लेखनीसे एक गोलाकार चक दूसरा उसके  
अंगुलमासके अन्तरसे लिखे तथा चक्रके मध्यमें साथ्यव्यक्तिके सातुर्स्वार नामका  
लिख उसके पूर्वभागमें चार ठं धीज और पश्चिम भागमें तीन ठं धीज तथा  
दक्षिण उच्चरभागमें दो दो ठं धीज लिख वहिर्मार्गके पूर्वादि चारों भागोंमें  
दुर्भगोभन इस वास्त्वको लिखे । इसके पीछे गन्ध पुष्पादिकोंसे पूजनकर घटके

यावद्गृहस्थं तद्यन्तं सोऽपि तद्गृहतः सदा । तावद्विश्वस्य  
शत्रुः स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६ ॥ पूजाक्रमस्तु पूर्वोक्तो  
यन्त्रे देवि नृणां सदा ॥ ७ ॥

इति श्री यन्त्र० विश्वविद्वेषणं पञ्चमं यन्त्रम् ॥ ९ ॥

चिन्तामणौ यन्त्रवरे सुकल्पे श्रीचन्द्रचूडस्य मुखाद्विनि-  
र्गते । तस्मिंश्वतुर्थं तु महाधिकारे पूर्णा तु पीठी कथिताऽन्त्र-  
षष्ठी ॥ १ ॥ पञ्चैव यन्त्राणि महाधिकारे चकार दामोदरविप्र-  
वर्यः । रहस्यभूतानि विचार्य लोके शृण्वन्ति ये ते सुखिनः  
सदा नराः ॥ २ ॥

इति श्रीयन्त्र चिं० महाकल्पे प्र० सि० उ० सं० दा० पंडितोद्धृते  
षष्ठीठिकायां विद्वेषणाऽधिकारः समाप्तः ॥

### अथ मारणाधिकारः ।

ब्रह्माण्डं सर्वभेतत्पचति बहुविधं यः सदा भूतजातं स  
स्तात्सर्वस्य देवैः करकलितमहाकालदण्डोऽतिरोद्धः । नत्वा  
—मध्यमें तुणमें स्थापित करदे अर्थात् धास इत्यादिकमें दबाकर रखदे । उक्त  
यन्त्र जबतक गृहमें स्थित रहेगा तबतक घरमें विद्वेष शांत न होगा किन्तु  
विश्वमात्रका शत्रुहोगा इस विषयमें किसी प्रकारका संदेह न करना चाहिये ।  
हे देवि ! पूजाका क्रम उक्त यन्त्रके समान है ॥ १-७ ॥

इति यन्त्र प० पी० में विश्वविद्वेषणनामक पौचवां यन्त्र ॥ ५ ॥

श्रीशिवजी, महाराजके मुखकमलसे निकले हुए सुकल्प चिन्तामणि नाम  
सुयंत्रकी छठी पीठिका समाप्त हुई । इस महाअधिकारमें विष्ववर्य दामोदरजीने  
पौचही यन्त्र वर्णन किये हैं । जो मनुष्य रहस्यभूत इन यन्त्रोंका श्रवण करेगे  
वे मनुष्य चिरकालतक सुखके भागी होंगे ॥ १ ॥ २ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिनामि महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर-  
संवादे षष्ठीठिकायां वलदेवभसादमिश्रकृत भाषाटी-  
कासहितविद्वेषणाधिकार समाप्त ॥

जो अनिर्वाच्य शिवस्वरूप परमात्मरौद्रसूपको धारणंहर सम्पूर्ण देवताओंके  
रवेहुए दण्डस नानारूप इस भूतजात ब्रह्मको पका रहेहै वत रौद्रस्वरूप यममार्ग-

ते कालसंज्ञं विरचयति महापञ्चमं चाधिकारं मृत्योः संदर्श-  
नाम्यं प्रकटयति महो गङ्गादत्तस्य सूतुः ॥ १ ॥ संमारणो नाम  
महाधिकारः प्रारम्भते संप्रति सप्तमो मया। सा सप्तमी स्यात्किल  
कल्पवल्ली चिन्तामणी श्रीशिवभाषितेऽस्मिन् ॥ २ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रबक्ष्यामि यन्त्रं शब्दोस्तु मारणम् ।  
एतद्यन्त्रं तु संलेख्यं कपाले तु नरस्य च ॥ ३ ॥ इमशानाङ्गारकं  
शत्रुमारणयत्तम् ।



वृप्य धन्तूरकरसे न तु । इमशाने  
चैव संलेख्यं चतुर्दश्यां महानि-  
शि ॥ २ ॥ निःशङ्केन विवर्णेण  
एकाकी यन्त्रसुत्तमम् । मध्ये नाम  
लिखित्वा तु लिखेऽम्ल-मिल-  
तथोपरि ॥ ३ ॥ अथोऽपि म्लमिल  
चीजौ द्वौ विलिख्यौ साधकेन तु ।

विकोणं वेष्टयेत्पञ्चाद्रेखाद्वितयशोभितम् ॥ ४ ॥ ऊर्ध्वरेखास्तु  
कर्तव्याः सर्वत्रापि वरानने । शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा यन्त्रं तत-

—इर्षी श्रीशिवजी महाराजको प्रणामकर मृत्युस्थान प्रकाश पंचम महाअधिकारको गंगादत्तजीके पुत्र श्रीदामोदरजी रचनापूर्वक प्रकाश करते हैं ॥ १ ॥ मैं अब पंचम मारण नाम महाअधिकारको धर्णन करता हूँ, इस शिवोक्त चिन्तामणि नामक महायन्त्रमें सप्तमी पीठिकाको सप्तमी कल्पवल्ली कहते हैं ॥ ३ ॥

श्रीशिवजी बोले । अब इत्युमारण यन्त्रको कहताहूँ—प्रयोगकरनेके समय इस यन्त्रको मरुष्यके कपालपर लिखना चाहिये । इमशानके अंगरेतो धन्तूरेके रसमें घिसकर कृष्णपथकी चतुर्दशी रात्रिको इमशानमें ही यन्त्र लिखना योग्य है । निशंक हो ० वज्रोंको त्याग इकला उक्त कपालके वीचमें साध्यव्यक्तिके सामुस्तार नामको लिख उपर नाचे मूल-मिल-इन अक्षरोंको लिखे । फिर विकोण दो रेखाओंसे बेटिनकर उपरकी मात्रा लगा शरावसम्पुटमें रख,

संप्रपूजयेत् ॥ ५ ॥ वलिमांसोपहारैस्तु स्वरक्तेन विशेषतः । एत-  
चन्त्रं तु तवैव निखन्यादय पूरयेत् ॥ ६ ॥ उपरि ज्वालयेत्रून् रात्रौ  
रात्रौ शुचिस्मिते । एवं कृते वृत्तीयेऽद्वि शत्रोः संजायते ज्वरः  
॥ ७ ॥ क्रमेणैव महाव्याधिस्ततो वे मरणं भवेत् । एकजीवं  
बहुलं दक्षा उद्गृह्णते जीवते हि सः ॥ ८ ॥ तरे चेत्यमपुरं याति  
नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ९ ॥

इति श्रीयन्त्र च० ना० उ० म० दा० सतमे मारणाधिकारे  
शत्रुमारणं नाम प्रथमे यन्त्रम् ॥ १ ॥

श्री शिवउवाच ॥ अथातः संप्रबद्ध्यामि यन्त्रं शत्रुप्रणाशनम् ।  
मारणं प्रबलस्यापि शत्रोमृत्युर्न चान्यथा ॥ २ ॥ विषेण हरि-  
शत्रुमारणपत्रम् ।



तालेन भूर्जपत्रे लिखेत्वरः ।  
साध्यनाम लिखित्वातु लेखन्या  
काकपित्त्वया ॥ २ ॥ लेखने  
तु विधिः पूर्वमुक्तो यो मारणे  
हि सः । वारं वारं किमुक्तेन  
अन्थविस्तारकारणम् ॥ ३ ॥  
ह्रींकारगर्भमध्ये तु साध्यनाम

प्रतिष्ठितम् । ततस्तद्वेष्टयेत्सम्प्यक् त्रिकोणं पूर्वेत्पुनः ॥ ४ ॥  
कोणे कोणे विशूलं च विलिख्याऽय प्रपूजयेत् । पूजने विधि-  
श्वलि, सांस, पूजा सामग्री स्वरक्त इनसे पूजनकर वहीं गाढ़वे और हे शुचि-  
स्मिते । प्रत्येक रात्रिमें उसके ऊपर भग्निको प्रश्नवित करता रहे । इस प्रकार  
करनेसे तीसरे दिन शत्रुको डबर आजायगा और क्रमानुसार रोग प्रबल  
होकर उसकी मृत्यु हो जायगी । यदि एक जीवको बलि देना तो प्राणोंसे  
रक्षित होगा, नहीं तो यस्तुरीको जायगा ॥ ३-४ ॥

इति यंत्रच० सातवीं पीठिका मारणाधिकारमें शत्रुमारणं नाम पदार्थत्र ॥ १ ॥

श्रीशिव जी बोले- भव शत्रुप्रणाशक यंत्र कहाजाता है, मारणहीसे प्रबल  
शत्रु की मृत्यु होती है अन्यथा नहीं । विवान यथा-विव, हरताल इनको एक-  
त्रितरु काकपत्रकी लेखतीसे भोजनवके कर विशुद्धक एक शिक्षण यंत्रसे

रावोक्तः सर्वत्राऽपि च मारणे ॥ ५ ॥ नराङ्गिनलिकामध्ये  
क्षिपेद्यन्तं सुपूजितम् । खात्वा इमशानभूमिष्टा नलिका तु सुपूजित्रिको ॥ ६ ॥ अकस्मान्भरणं तस्य जायते नाड्व संशयः ।  
अनुग्रहस्तु पूर्वोक्तः सर्वत्राऽपि च मारणे ॥ ७ ॥

इति यंत्रचिं भारणाधिकरे शत्रुमारण नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥ २ ॥

**श्री शिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि मारणं दूरदेशजम् ।**  
देशान्तरस्थशत्रुमारणयन्त्रम् ।



इमशानाङ्गारकं वृष्य  
अजारकं तयेव च ॥ ? ॥  
विषं चैव तु संवृष्य लि-  
खेन्नरकपालके । सम्पुद्दं  
चैव संलेख्यं लेखन्या  
काकपिञ्चया । साध्य-  
नाम लिखेन्मध्ये हुंका-  
रपुटितं शुभम् । तत-  
आष्टदलं कृत्वा यहसं-  
स्थापने यथा ॥ ३ ॥  
चतुर्दलं तु संलिख्य हुं

-खेचकर ही बीजके मध्यमें साध्यव्यक्तिके नामाक्षरोंको लिखे । लेखनका प्रकार  
मारणयन्त्रमें कह चुके हैं बारम्बार कहनेसे प्रथका विस्तार होगा । परन्तु लेखनी  
काकपत्रहीकी होनी चाहिये । इस प्रकार यंत्रको निर्माणकर उक्त विधानपूर्वक  
ही सब जगह पूजन फरना चाहिये । पुनः यंत्रका पूजनकर नरनालिकामें रख-  
कर इमशान भूमिमें खोदकर गाढ़वे तो अचानक शत्रुकी मृत्यु हो जायगी १-७  
इति यंत्र० सातवी पीठिकाके भाँ में शत्रुमारण नामक दूसरा यंत्र ॥ २ ॥

**श्रीशिवजी बोले—**अब दूरदेशमें स्थित पुरुषोंका मारण यंत्र कहताहुं इमशान  
नके अंगारेको विष और अजाके रुधिरमें मिलावर मनुष्यके कपालके मध्यमें  
काकपत्रकी लेखनीसे दो रेखायुक्त गोलाकार यंत्रको खेचकर उसके मध्यमें एक  
आठ दल रखें कि, जैसा महकांडीमें खीचा जाताहै । फिर प्रत्येक दलमें

फद्गु दलमध्यतः । ततस्तु वेष्टयेत्सम्यग्वर्तुलं तु द्विरेखया ॥४॥  
 हुंकारैर्वैष्टयेत्सम्यग्विष्मैः सर्वतः प्रिये । ततस्तत्सम्पुटं मेल्य  
 भस्मना पूरयेच्छुमे ॥५॥ अग्रेरुपारि संस्थाप्य पूरयित्वा  
 यथोदितम् । देशान्तरगतस्थापि शत्रोः संजायते ज्वरः ॥६॥  
 प्रत्यहं ज्वालनीयं तु स्तोकं स्तोकं तु सुन्दरि । दिने एकाधिके  
 विंशो सर्वं तज्जवलयेनिशि ॥७॥ तस्मिन्वेव क्षणे शत्रोमरणं  
 जायते प्रिये । अनुग्रहे तु पूर्वोक्तं विधानमिति निश्चितम् ॥८॥  
 इति यं० स० पी० देशान्तरस्थशत्रुमारणं नाम तृतीयं यन्त्रम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रबद्ध्यामि मारणं सर्वदेहिनाम् ।  
 सर्वजनमारणयन्त्रम् ।



—हुं फट् इस बोज मत्रोंको लिख वीचके भागमें हो हुंकारके वीच साध्यका नाम  
 लिखे । तस्यश्चात् संपुटमें लेहर भस्मसे पूरितकर अग्रिके ऊपर स्थापितकरे ।  
 —यदि शत्रु विदेशमें होगा तौभी उसको ज्वर आजायगा । हे सुन्दरि ! प्रति-  
 दिन थोड़ा थोड़ा ही प्रज्वालनीय है । क्योंकि, २१ में दिन यात्रिके समयमें  
 सशही जलेगा । हे प्रिये ! उसी समय शत्रुका मरण होजायगा, पूजनके  
 पृत्तान्तको अनुमहकर प्रथम चंग्रमें कह शुके हैं ॥ १-८ ॥

इति यंत्रं मारणं विदेशस्थशत्रुमारणं नामकं तीसरा यंत्र ॥ ३ ॥

श्रीशिवजी थोड़े-अर्थ सम्पूर्णे मनुष्योंका मारण कहा जाता ह । यिहि—  
 मनुष्यके रुधिरमें शमशानके अंगारेको पिसकर यिप मिलाय काँकपश्ची

रुधिरेण मनुष्यस्य शमशाना-  
 ङ्गारथर्पणैः ॥ १ ॥ विषेण च  
 तथा लेख्यं कर्षटे वै शमशा-  
 नके । साध्यनामं लिखित्वा  
 तु हुं फट् संपुटितं तथा ॥२॥  
 एवं विवारं संलिख्य त्रिपञ्चको  
 तु वरानने । ततस्तद्वेष्टयेत्स-  
 म्यग्वर्तुलं तु द्विरेखया ॥ ३ ॥  
 राजिकाप्रतिमां कुर्याच्छत्रो-  
 अरणपांसुना । हृन्मध्ये यन्त्र-  
 कं क्षिस्वा शत्रोस्ताप्या तु

राव्योक्तः सर्वत्राऽपि च मारणे ॥ ५ ॥ नराङ्गिनलिकामध्ये  
क्षिपेद्यन्तं सुपृजितम् । खात्वा इमशानभूमिष्ठा नलिका तु सुयं-  
विर्को ॥ ६ ॥ अकस्मान्मरणं तस्य जायते नाऽत्र संशयः ।  
अनुग्रहस्तु पूर्वोक्तः सर्वत्राऽपि च मारणे ॥ ७ ॥

इति यत्रचिं भारणाधिकरे शत्रुमारणं नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥ २ ॥

श्री शिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि मारणं दूरदेशजम् ।  
देशान्तरस्थशत्रुमारणयन्त्रम् ।

इमशानाङ्गारकं घृष्ण  
अजारक्तं तथैव च ॥ १ ॥  
विषं चैव तु संवृष्ट्य लि-  
खेन्नरकपालके । सम्पुटं  
चैव संलेख्यं लेखन्या  
काकपिच्छया । साध्य-  
नाम लिखेन्मध्ये हुंका-  
रपुटिं शुभम् । तत-  
आष्टदलं कृत्वा ग्रहसं-  
स्थापने यथा ॥ ३ ॥  
चतुर्दलं तु संलिख्य हुं



—ऐचकर हीं वीजके मध्यमें साध्यव्यक्तिके नामाक्षरोंको लिखे । लेखनका प्रकार  
मारणयंत्रमें कह चुके हैं, वारम्बार कहनेसे प्रथका विस्तार होगा । परन्तु लेखनी  
काकपत्रहीकी होनी चाहिये । इस प्रकार यंत्रको निर्माणकर उक्त विधानपूर्वक  
ही सब जगह पूजन करना चाहिये । पुनः यंत्रका पूजनकर नरनालिकामें रख-  
कर इमशान भूमिमें खोदकर गाढ़े तो अचानक शत्रुकी मृत्यु हो जायगी १-७  
इति यंत्र० सातवीं पीठिकाके मात्र में शत्रुमारण नामक दूसरा यंत्र ॥२॥

श्रीशिवजी वोले—अब दूरदेशमें रिथत पुरुषोंका मारण यंत्र कहताहूं, इमशा-  
नके अंगारेको विप और अजाके सधिरमें मिलाकर मनुष्यके कपालके मध्यमें  
काकपत्रकी लेखनीसे दो रेखायुक्त गोलाकार यंत्रको खेचकर उसके मध्यमें एक  
आठ दल रखें कि, जैसा प्रदक्षांशीमें खेचा जाताहै । फिर प्रत्येक दलमें

फट्टु दलमध्यतः । ततस्तु वैष्णवेत्सम्यग्वर्तुलं तु द्विरेखया ॥४॥  
 हुंकारैर्वैष्णवेत्सम्यग्विष्मैः सर्वतः प्रिये । ततस्तत्सम्पुटं मेल्य  
 भस्मना पूर्येच्छुभे ॥५॥ अग्नेरुपरि संस्थाप्य पूर्यित्वा  
 यथोदितम् । देशान्तरगतस्थापि शत्रोः संजायते ज्वरः ॥६॥  
 प्रत्यहं ज्वालनीयं तु स्तोकं स्तोकं तु सुन्दरि । दिने एकाधिके  
 विश्वे सर्वं तज्ज्वलयेत्त्रिशि ॥७॥ तस्मिन्नेव क्षणे शत्रोर्मरणं  
 जायते प्रिये । अनुग्रहे तु पूर्वोक्तं विधानमिति निश्चितम् ॥८॥

इति यं० सं० पी० देशान्तरस्थशत्रुमारणं नाम तृतीयं यन्त्रम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि मारणं सर्वदेहिनाम् ।  
 सर्वजनमारणयन्त्रम् ।



रुधिरेण मनुप्यस्य इमशानाः  
 झारघर्षणैः ॥ १ ॥ विषेण च  
 तथा लेख्यं कर्षटे वै इमशा-  
 नके । साध्यनामं लिखित्वा  
 तु हुं फट् संपुटितं तथा ॥२॥  
 एवं त्रिवारं संलिख्य विष्मैको  
 तु बरानने । ततस्तद्वैष्णवे-  
 म्यग्वर्तुलं तु विरेखया ॥३॥  
 राजिकाप्रतिमां कुर्याच्छत्रो-  
 अरणपासुना । हन्मध्ये यन्त्र-  
 कं क्षित्वा शत्रोस्ताप्या तु

—हुं फट् इस वीज मत्रोंको लिख वीचके भागमेंदो हुंकारके वीच साध्यका नाम  
 लिखे । तत्पदचान् संपुटमें लेकर भस्मसे पूरितकर अग्निके ऊपर स्थापितकरे ।  
 —यदि शत्रु विरेशमें होगा वीभा उसको ज्वर आजायगा । हे सुन्दरि ! प्रति-  
 दिन थोड़ा थोड़ा ही प्रज्वालनीय है । क्योंकि, २१ में दिन रात्रिके समयमें  
 सबही जलेगा । हे प्रिये ! उसी समय शत्रुका मरण होजायगा, पूजनके  
 पृतान्तको अनुप्रहकर प्रथम यंत्रमें कह चुके हैं ॥ १-८ ॥

इति यंत्र० मारणं विदेशस्थशत्रुमारणं नामकं तीसंरा यंत्र ॥ ३ ॥

श्रीशिवजी थोले—अथ सम्पूर्णे मरुत्योंका मारण कहा जाता है । विषि—  
 मरुप्यके रुधिरमें इमशानके अंगारेको घिसकर विष मिलाय कांकपञ्चकी

पुत्तली॥४॥ शत्रोः क्रमक्रमेणैव दाहशोपस्तु जायते । शिरोव्यथा च महती तृतीयेऽहि प्रजायते॥५॥ हस्तपादाङ्गदाहः स्यान्तरणं ततमे दिने । जायते नात्र संदेहो विधावपिन संशयः॥६॥

इति श्रीयन्त्र० सर्वजनमारणं नाम चतुर्थं यन्त्रम् ॥ ४ ॥

७० श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि यन्त्रं स्त्रीपुंसमारणम् । विभीतकस्य पत्रे तु इमशानभस्मना लिखेत ॥ १ ॥ क्रतुरत्केन सम्मिश्रं लेखन्या काकपिच्छुया । साध्यनाम लिखेन्मध्ये स्तम्भस्तम्भेति सम्पुटम् ॥ २ ॥ तताद्विकोणं संबैष्ट्य पञ्चकोणं तथोपरि । मनुप्यनालिके क्षिस्वा नलिकां पूर्य मृत्युया ॥ ३ ॥ तन्मूत्रासिक्तया देवि ततस्तत्पूर्यं पूर्येत । भूमध्ये तु खनित्वाऽथ इमशाने प्रयतो निश्ची ॥ ४ ॥ ततः संजायते रोधो रिपोर्मित्रस्य वै क्षणात् । मियते सप्तरात्रेण मोक्षः पूर्वोक्तमार्गतः ॥ ५ ॥ इति नरनारीमारणं पञ्चमं यन्त्रम् ॥ ५॥


—लेखनीसे इमशान वस्त्रके ऊपर वर्तुल तीन रेखाओले चक्रको खैचकर उसके भीतरभी तीन रेखाकी कल्पनाकरै । पुनः प्रत्येक रेखामें हुं फट् इन धीज मंत्रोंसे पुटित सानुम्बार साध्यव्यक्तिके नामको लिखै । इसके पीछे शत्रुके चरणके नीचेकी धूलिको राजिका मिथितकर एक प्रविमा बनावै । उसके हृदयमें शत्रुमारण यंत्रको स्थापितकरै तौ क्रमपूर्वक दाह और व्याधि उत्पन्न होगी और वीसरे दिन सिरमें वही पीड़ा होगी । फिर हाध पैरमें दाह हो निससन्देह सातवें दिन मृत्यु होजायगी ॥ १-६ ॥

इति यन्त्र० सर्वजन मारण नामक चौथा यंत्र ॥ ४ ॥

श्रीशिवजी बोले—अप स्त्री और पुरुषके मारणयंत्रको कहता हूं । विधि-ओंके मासिक रधिरमें इमशानकी भस्मको मिठाकर विभीतकके पत्रपर काकपश्चकी लेखनीसे त्रिकोण यंत्रको खैच पंचकोणयंत्रको उसके बहिर्भागमें लैचे । इसके पीछे त्रिकोणके भीतर स्तम्भ, स्तम्भ इन धीजोंसे पुटिव साध्यव्यक्तिके सानुम्बार नामको लिख यंत्रको नर नलिकामें घंटकर तथा साध्यव्यक्तिका मूत्रसे सोंची हुयी फिटोंसे पूर्णकर नियमपूर्वक रात्रिके समय इमशानकी भूमिको खोदकर दाखदे तौ उसी समय शत्रुको मूत्र रोग पैदा होकर सावरात्रिमें मृत्यु होजायगी । मोक्ष पूर्व कथनके अनुसार जानलेनी योग्य है ॥५

इति यन्त्रचिन्तामणिकी० नर नारी-मारण नामक पांचवां यंत्र ॥ ५॥

नरनारीमा। णवंत्रम् ।



चिन्तामणौ कल्पवरे सुयन्ते श्रीचन्द्रचूडस्य मुखाद्विनिर्गते ।  
नाम्नो महामारणसंज्ञके तु संपूर्णतां सप्तमपीठिका गता ॥ १ ॥  
पञ्चव यन्त्राणि महाधिकारे सम्मारणे पञ्चमकेऽतिरौद्रे । संहार-  
भूतानि सुकीर्तितानि मयैव देवि ( बी ) पुरतः स्फुटानि ॥ २ ॥

इति ध्रीयन्त्रं चिं ० ना ० प्र० सि० दामोदरस्पिडतोद्रते सप्तम पीठिकायां  
मारणाधिकारः समाप्तः ॥

श्रीचन्द्रचूड शिवजी महाराजके मुखकमलसे निकले चिन्तामणि नाम मारण  
यन्त्रका पञ्चयन्त्रसाहित सप्तम पीठिका । समाप्त हुई ॥ १ ॥ हे देवि !  
अतिरौद्र संमारण नाम इस पांचवें अधिकारमें संहाररूप पांच ही यन्त्र भैने  
स्फुटत्वासे तुम्हारे सम्मुख वर्णन किये हैं ॥ १ ॥ २ ॥ इति मारणाधिकार समाप्त ॥

अथोच्चाटानाधिकारः ।

देवाधिदेवस्य सदाशिवस्य बैलोक्यवन्द्यस्य पदारविन्दम् ।  
कायेन वाचा मनसा च नत्वा दामोदरो भार्गवंशजातः ॥ १ ॥  
प्रब्रह्मते संप्रति पष्टसंज्ञसुच्चाटनं नाम महाधिकारम् । यन्त्राणि  
बीजानि परिस्फुटानि शिवाजग्या लोकहिताय विप्रः ॥ २ ॥

श्री शिव उवाच ॥ अतः परं प्रब्रह्मामि शत्रोरुच्चाटनं परम् ।  
अनामिकाया रक्तेन भूर्जपत्रे वरानने ॥ ३ ॥ गं गणपतिबीजानि  
शत्रुच्चाटनवंत्रम् ।

ॐ गं गणपति प्रहितं  
हुं गं देवदत्तः  
हुं गं धं स्वां ग हा

प्रहितं प्रणवाद्विकम् । एकपंक्तो समा-  
लेख्यं हुं गं नाम विलिख्य च ॥ २ ॥  
पंक्तो द्वितीये संलेख्य तृतीये विलि-  
खेत्ततः ॥ हुं गं धं स्वांगहेति लिखित्वा  
ऋग्मतो नरः ॥ ३ ॥ ततस्तद्वे-  
ष्टयेत सम्यक् चतुष्पकोणं द्विरेख्या ।  
रक्ताम्बरधरो देवि रक्तमाल्यानु-  
लेपनः ॥ ४ ॥ चतुर्दश्यां साधकस्तु महाराघौ लिखेत्क्रमात् ।  
पूजनं रक्तकुसुर्मे रक्तगन्धैः फलैः शुभैः ॥ ५ ॥ कुमारभोजनं राघौ

श्रीशिवजीकी आज्ञासे में दामोदर नाम पेंडित देवाधिदेव तीनों लोकोंके  
वन्दन कल्याण्य सदाशिवके चरणकम्ळोंको शरीर, वाणी मनसे नमस्कार  
कर उच्चाटन नाम महाधिकारको लोकोंके उपकारके लिये बर्णन करता हैं  
कि, जिसमें यन्त्र और थीज स्फुटतासे वर्तमान हैं ॥ १ ॥ २ ॥

श्रीशिवजी योले—अब शत्रुका उच्चाटन कहा जाता है । विधि—अपनी अना-  
मिका अंगुलिके रुधिरसे भोजपत्रके ऊपर दो रेखा मिलाकर एक चतुष्पकोण  
यन्त्रको खेंच उसके भीतर तीन रेखा खेंचे । प्रथम रेखामें ‘ओं गणपति प्रहितम्’  
दूसरीमें हुं गं आदिमे लगा सानुम्बार साध्यव्यक्तिके नामको, तीसरीमें हुं गं  
धं स्वांग हा इनको लिये । तत्पश्चान् साधक लालवस्त्र धारणकर रक्तमाटा और  
रक्त अमुलेपनसे युक्त हो कृष्णपक्षकी रात्रिमें रक्तपूष्प, रक्तगंध, स्वच्छफल,  
इनसे यन्त्रका पूजनकर यथाशक्ति दक्षिणा दे कुमारको भोजन कराकर

यथाशक्त्या तु दक्षिणाम् । ध्यानं तु देवदेस्य गणनाथस्य  
सुन्दरि ॥ ६ ॥ नीलाञ्जनामं गजवज्रवर्यं शशुं गृहीत्वा निज-  
पुष्करेण । उच्चालयन्तं गगनं गणेशं ध्यात्वा तु नित्यं विधि-  
वन्मनुष्यः ॥ ७ ॥ उच्चाटयेद्व न संशयोऽस्ति दिनैस्तथैका-  
धिकविंशकेन । अयं क्रमो लेखनपूजेन च सर्वत्र उच्चाटकृता-  
धिकारे ॥ ८ ॥ खण्डं कृत्वा तु तद्यन्तमुच्छिष्ठौदनभिश्रि-  
तम् । दीयते भक्षणार्थं च वायसेभ्योऽन्तिमे दिने ॥ ९ ॥

१० श्री० य० चि० ना० म० क० प्र० सि० उ० सं० अष्टमपीठिकाया-  
मुच्चाटनाधिकारे शत्रुघ्नाटनं नाम प्रथम यन्त्रम् ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि सद्य उच्चाटनं  
परम् । विषेण तालकेनैव गोन्दतहरितालके ॥ १ ॥ चित्र-  
कस्य रसेनैव लिखेत् काकं तु कर्पटे । शमशानजे तु लेखन्या  
काकपिच्छसमुद्धवा ॥ २ ॥ साध्यनाम लिखेत्पश्चाद्वायसोदर-  
मध्यतः । पूजने लेखने चैव पूर्वोक्तस्तु विधिः स्मृतेः ॥ ३ ॥

गणोंके नाथ ऐव देवधर श्रीगणेशजीका ध्यान करे । ध्यानका ऋम इस  
प्रकार है— अंजन पर्वतके समान नीलवर्णयाले, गजमुखके धारण करनेवाले  
शत्रुको अपने शुंडदंडसे महणकर आकाश मंडलमें उछालनेवाले श्रीगणनाथका  
विधिपूर्वक ध्यानकर उच्चाटन प्रयोग करना योग्य है । इस विधानके करनेसे  
२१ दिनमें निश्चयही शत्रुका उच्चाटन होजायगा । इस प्रकारही सम्पूर्ण उच्चाटन  
प्रयोगोंका लेखन पूजन करना चाहिये । इसके पीछे उक्त यन्त्रके टुकडे  
करके छूठे भातमें मिलाकर अंतके दिन कउओंको खिलादे ॥ १-९ ॥

इति यंत्रधिन्तामणिकी आठवीं पीठिकाके उच्चाटनाधिकारमें  
शत्रु उच्चाटननाम पहला यंत्र ॥ १-१ ॥

श्रीशिवजी घोले-भव शीघ्र उच्चाटन कारक यंत्रको कहताहुं । विधि-विष,  
तालक, गोदन्ती हरताल, चीता इन सब यस्तुवोंके रसको एकप्रितकर काक-  
पत्रकी लेखनीसे इमशान घटके ऊपर एक काककी भूति निर्मणिकर उसके  
उदरमें साध्यव्यक्तिके सानुस्वार नामको लिख पहली विधिके अनुसार पूजन  
करे । इसके पीछे विभीतक पृष्ठके दक्षिणभागमें रात्रिके समय नियममें क्षपर  
हो साधकव्यक्ति उस काककी प्रतिमाको अथोमुखकर टांगदे । इस विधिके  
हो साधकव्यक्ति उस काककी प्रतिमाको अथोमुखकर टांगदे । इस विधिके

अधोमुखं तु तत्कालं लम्बमानं तु दक्षिणे । विभीतकस्य वृक्षे  
सथउद्धाटनयन्त्रम् ।



इति यन्त्रचिं० भ० प० सथउद्धाटनकर नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥ २ ॥  
तर्वजनोद्धाटनयन्त्रम् ।



—करनेसे तीसरे दिन स्थानसे उद्धाटन होजायगा और रवतक उद्दिम रहेगा कि, जबतक वह प्रतिमा टंगी रहेगी न तो घर उसको प्यारा होगा और न कही उसको मुखप्राप्त होगा । विदेश जाने परभी उसको मुख न होगा । किन्तु संशय पूर्वक ही जीवित रहेगा ॥ ३-६ ॥

इति यन्त्र चिन्तामणिकी आठवीं पीठिकाके उद्धाटनाधिकारमें  
शीघ्र उद्धाटनकारक दूसरा यंत्र ॥ २ ॥

श्रीशिवजी बोले—अब सम्पूर्णमनुष्योंका उद्धाटन विषय कहा जावा है । राक और उल्टूके नाधिरसे भोजपत्रके ऊपर गोलाकर यंत्रको खीचकर पूर्वादि चारों दिशाओंमें दो रेमायुक्त चार कमल दल रौप्य प्रत्येक दलमें विसर्गयुक्त यकारवर्णको स्थापितकर मध्यमामामें सामुस्यार साध्यव्याकिके नामको लिए-

ध्यानं देवविसर्जनम् ॥ ३ ॥ खण्डं कृत्वा तु तद्यन्त्रमुच्छि-  
ष्टोदनमिश्रितम् । दीयते भक्षणार्थं च वायसेभ्योऽन्तिमे दिने  
॥ ४ ॥ दिशं संत्यज्य यात्येव प्रामस्यैव तु का कथा ॥ ५ ॥

इति यं० चिं० दा० सर्वजनोदोषोटानं नाम तृतीयं यन्त्रम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रबङ्ग्यामि शत्रोहचाटनं  
परम् । निम्बपत्रसेलेख्यं लेखन्या काकापिच्छया ॥ १ ॥ भूर्ज-  
पत्रोपरिशिस्तं विधिः पूर्वोक्तं एव हि । मध्ये नाम लिखित्वा तु  
. वर्तुलं वेष्टयेत्ततः ॥ २ ॥ चतुर्दलं ततः कुर्याद्वीजयुक्तं मनोहरम् ।  
शत्रोहचाटनयन्त्रम् ।

र वौ ह इति चीजानि दलमध्ये  
पृथक् पृथक् ॥ ३ ॥ संपूज्य पूर्ववत्प-  
श्वान्त्रिखन्यादथ पूरयेत् । अधोमुखं  
तु तद्यन्तं पूर्वोक्तविधिना ततः ॥ ४ ॥  
एवं कृते सतमेऽहि उच्चाटयति  
नान्यथा । भ्रमेदेशो विदेशो च तृण-  
वत्परिभूयते ॥ ५ ॥


इति श्रीयन्त्र चिं० शत्रोहचाटनं नाम चतुर्थयन्त्रम् ॥ ४ ॥

—उक्त विधिसे पूजनकर ध्यानसे विसर्जनकर यन्त्रके दुकडे २ करके जूँठे भातमें  
मिलाकर अन्तके दिन कउओको खिलादे तो साध्यत्यक्ति दिशाको छोडकर  
चला जायगा प्रामकी तो बातही क्या है ॥ १-५ ॥

इति श्रीयन्त्र० उ० सर्वजनोहचाटननाम तीसरा यन्त्र ॥ ३ ॥

श्रीशिवजी चोले—अब शत्रुघ्ना परम उच्चाटनकहा जाता है । नीमके पत्तोंके  
रससे भोजपत्रके ऊपर काकपंखकी लेखनीसे गोलाकार चक्र खींचकर दो  
रेखायुक्त दल लगा र वौ ह इन वर्णोंको प्रत्येक दलमें लिख सालुस्वार साव्य-  
प्यकिंकर नामको लिखे । उपरोक्त यन्त्रकी समाप्ति इसका विधानभी पहेलेकी  
समाप्ति है । इसके पश्चात् उक्त विधान पूर्वक पूजनकर भूमि योद्दकर अधोमुख  
दावदे यदि देश अथवा विदेशमें भ्रमण करता भी होगा तौभी तृणवन् त्याग-  
कर सातवें दिन उच्चाटनको प्राप्त होगा इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं ॥

इति यन्त्रचिन्तामाणिमें शत्रुघ्नाटन नामक चौथा यन्त्र ॥ ४



श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्त्रमुच्चाटनं  
स्त्रियाः उच्चाटनयन्त्रम् ।



स्त्रियाः। गर्दभस्य, तु रक्तेन  
लेखन्या काकपिच्छया  
॥१॥ फलके चूँलिखित्वा  
तु वर्तुलं वेष्टयेत्ततः। तत-  
श्चष्टादलं कुर्याद्वीजयुक्तं  
मनोहरम् ॥ २॥ खकारं  
सविर्गान्तं ह्रांकारं तदन-  
न्तरम्। एवं यन्त्रं तु संलिः  
ख्य पूजायित्वा विधानतः  
॥३॥ निखन्य भूमौ संपूर्य

पूर्वबच्चाप्यधोमुखम् । कृते ह्येवं तृतीयेऽद्वि शत्रोरुच्चाटनं  
भवेत् ॥ ४॥ उच्चाटयति स्थानात्तु चलते वायुपर्णवत् ॥ ५॥  
इ० य० वि० ना० म० प्र० उ० स० अ० पी० स्त्रीणां

सदुच्चाटनं नामपञ्चमं यन्त्रम् ॥ ६॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि त्रिलोकयोच्चाटनं  
परम् । कृपणकुम्हुटरक्तेन भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥ ७॥ साध्यनाम

श्रीशिवजी बोले—हे देवि ! अब स्त्रीके उच्चाटनका यन्त्र कहा जाता है । विधि-गाधेके रुधिरसे काठके डुकडेके ऊपर काकपत्रकी लेखनीसे गोलाकार चक्र खैचकर आठ दलसे सुशोभितकर विसर्गान्त खकार और हीं घीजको प्रत्येक दलमें लिखकर घफके मन्यमें सामुख्यान्तर साध्यव्यक्तिके नामको लिखे । इसके पीछे विधिपूर्वक पूजनकर भूमि खोद अधोमुख दावदे तो तीसरे दिन शत्रुका उच्चाटन होगा और उच्चाटनको प्राप्त हो, पूर्ण वायुसे उडाया हुआ पत्तलके समान गमन करेगा ॥ १-५ ॥

इति यन्त्र चिन्तामणिकी आठवीं पौठिकाके उच्चाटनाधिकारमें  
स्त्रीउच्चाटन नामक पांचवां यन्त्र ॥ ५॥

श्रीशिवजी बोले—हे देवि ! अब त्रिलोकिका उच्चाटन कहा जाता है श्वरण  
करो। विधि-काले मुर्गेके रुधिरसे भोजपत्रके ऊपर एक बड़ा विक्रोणयन्त्र खैचकर

लिखित्वा तु त्रिकोणं वेष्टयेत्ततः । पुनस्त्रिकोणं संलिख्य द्वितीयं  
त्रिलोक्योषाटनयन्त्रम् ।



तु वरानने ॥ २ ॥ ततोपारे  
विभागे च द्वांकाराणां चतु-  
ष्टयम् । एतविभागे संलिख्य  
बीजानि रविसंख्यया ॥ ३ ॥  
परितो वर्तुलं कृत्वा पूजयेत्  
पूर्ववत्पुनः । एवं कृत्वा तु त-  
द्यन्वं बध्रीयाच्च शुनो गले ॥ ४  
यथायथा च्छा व्रजति तथा  
सोऽपि क्षणेन हि । उषाटयेन  
सदैहस्तत्क्षणात्सुरसुन्दरि ॥ ५

इति यं० चिं० ना० म० प्र० अ० उ० दा० त्रिलो-  
क्योषाटनं नाम षष्ठं यन्त्रम् ॥ ६ ॥

**श्रीशिव उषाच ॥** अथातः संप्रवक्ष्यामि यन्त्रमुषाटनं परम् ।  
निशाचररसेलेख्यं भूर्जपत्रे न संदायः ॥ १ ॥ साध्यनाम  
लिखित्वा तु वर्तुलं वेष्टयेत्ततः । उपर्यष्टद्वलं कृत्वा बीजपुक्तं

—उसके भीतर एक हस्त त्रिकोण और द्वेष्टकर गोलाकार चक्षे गम्भिरहर  
झाँके भीतर साध्यव्यक्तिके नाम और धीर्घत्रिकोणकी प्रतिरेताके  
नीचे धार धार ही यीजोंको लिखे । पुनः उष्ट विधानपूर्वके पूजनकर कुचेके  
गलेमें धांध दे तो जहाँ उष्ट कुत्ता जायगा वही उषाटनको प्राप्त हो उसी समय  
शत्रुभी जायगा । हे सुन्दर ! इसमें किसी पकारका संदेह नहीं है ॥ १-५ ॥

इति यन्त्र चिन्तामणिही आठवीं पीडिकामें उषाटनाधिकारमें  
त्रिलोक्योषाटन नामह छठा यन्त्र ॥ ६ ॥

**श्रीशिवजी घोटे-**अय परम उषाटन यन्त्रको कहा हूँ । निशापर ( एठीं  
। युक्ष ) के रससे भोजपत्रके ऊपर एक हस्त गोलाकार चक्षे रेष्टहर उसके  
शहिरी भागमें अष्टदल उगाकर एक यदा गोलाकार चक रीते हुकि । ऐसके  
प्रैषत्सेदलादिक गर्भगत होताय । पुनः प्रतिद्वलमें फट् इस योजको लिय-

मनोहरम् ॥ २ ॥ ततश्च लेख्यं फडिति प्रत्येकं दलमध्यतः ।  
परमोच्चाटनयन्त्रम्



ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यग्वर्तुलं रेखये-  
कथा ॥ ३ ॥ संपूज्य विधिवत्पश्चा-  
दन्तं संचूर्णयेत्ततः । खाने पाने च  
दातव्यमुच्चाटो जायते ध्रुवम् ॥ ४ ॥  
हरिद्रातरुविख्यातो गुतनामा निशा-  
चरः ॥ ५ ॥

इति यन्त्रचिं । परमोच्चाटनं नाम सतमं यन्त्रम् ॥ ७ ॥

चिन्तामणी यन्त्रवरे सुकलपे श्रीचन्द्रचूडस्य सुखादिनिर्गते ।  
उच्चाटनं नाम महाधिकारे प्रकाशिता ह्यष्टमपीठिकेयम् ॥ १ ॥  
समेव यन्त्राणि महाधिकारे उच्चाटनं श्रीशिवभाषितेऽस्मिन् ।  
रहस्यभूतानि तु कीर्तितानि विप्रेण दामोदरसंज्ञकेन ॥ २ ॥

इति यन्त्र० ना० म० प्र० उ० अ०ट० दा० अष्टम पीठिकायुतो-  
च्चाटनाधिकारः समाप्तः ॥

-हस्त गोलाकार चक्रके भीनर साध्यव्यक्तिके नामको लिख उक्त विधान पूर्वक  
पूजन कर यन्त्रका चूरणकर खाने पीनेमें देनेसे उच्चाटन होजाता है । हल्दीके  
शूक्रको निशाचर कहते हैं ॥ १-५ ॥

इति यन्त्र चिन्तामणिकी आठवीं पीठिगोके उच्चाटन अधिकारमें  
परमोच्चाटन नामकु सातवाँ यन्त्र ॥ ७ ॥

श्रीचन्द्रचूड शिवजी महाराजके मुरकमलसे तिक्के यन्त्र श्रेष्ठ चिन्तामणि  
नाम सुफलका उच्चाटन नाम महाधिकारमें अष्टम पीठिका समाप्त हुई । इस  
शिवोक्त महाधिकारमें दामोदरजीने रहस्यभूत सातही उच्चाटन यन्त्रोंका  
वर्णन किया है ॥ १-२ ॥

इति श्रीयन्त्राचिन्तामणी नाम्नि महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिपदे उमामहेश्वर  
मंवादे दामोदर पण्डितोद्दते घलदेवतसादृक्त भा० द्यो० युत  
अष्टमपीठिकामें उच्चाटनाधिकार समाप्त ॥ ।

अथ शान्त्यधिकारः ।

यः पूर्वं जनकादेशादरण्यं समपद्यत । निस्तीर्थं प्राप्तवान्  
सीतां तं रामं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥१॥ अधिकारं महद्वद्ये सर्वों-  
पद्रवनाशनम् । नवम्यां पीठिकायां तु शान्तिपुष्टिकरं परम्  
॥२॥ शान्तरक्षाकरं नाम ख्यातं सर्वत्र दुर्लभम् । न वेण्यं यस्य  
कस्यापि यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ॥३॥ नारीणां मनुजेषु शान्ति-  
ककरान्नक्षाकरान्सर्वदा बालानां च तथैव सर्वसुखदान्मन्त्राणि  
यन्नाणि ते । तांश्चेद्वृत्यं महागमाच्च विविधान् गङ्गाधरस्पात्म-  
जो नित्यं कल्पतमातिः प्रवक्ष्यति महादामोदरः साम्रतम् ॥४॥

श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि परं गुह्यं यन्वं रक्षाकरं परम् ।  
बालघ्रीपुरुषाणां च महारक्षाकरं स्मृतम् ॥१॥ कांस्यपात्रे  
तु सेलख्यं सुतिथो शोभने दिने । रोचनाकुहुभैर्नैव कर्हीरेण  
विद्रोपतः ॥२॥ मृगनाभिसमायुक्तं जातीकाष्ठेन संलिखेत् ।  
उर्ध्वमष्टाभीरेशाभिस्तर्यमेवास्तथैव च ॥३॥ एवमेकोनप-  
शाशत कोष्ठाश्च प्रभवन्ति हि । ईशानादिकभैरोऽपि स्वराः  
कोष्ठेषु संलिखेत् ॥४॥ तेनैव क्रमतो लेख्याः शोपकोष्ठेषु

जो श्रीरामजी महाराज जनक (विता) की प्रतिशाको पूर्णकर श्रीसीताजीको  
प्राप करते भये, मैं इन श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करताहूँ ॥१॥ अथ नवमी  
पीठिका कही जाती है कि जिसमें शांति पुष्टिकारक सम्मूर्णं चपटवोंका नाशक  
महापिक्षार कहा जायगा ॥२॥ सिद्धिका इच्छा करनेवाला साधक सर्वत्र हुर्त्तभ  
इस शांतरक्षाकरनामयंत्रको विना अधिकारिके दूसरेषो न दे ॥३॥ अथ श्रीपुराय  
वालक इनकी शांति रक्षा और यह इत्यादिकके देनेवाले मन्त्र तथा यन्त्रोंको  
उद्धारकर अतिनिर्मलयुद्धिपाले गंगापरजीके पुत्र दामोदरजी कर्त्तन करते हैं ॥४॥

शिरजी पोले—हे देवि! याल, दृढ़, श्वी पुरुष इनमें महारक्षाकारक यन्त्रहो  
कहता हूँ मुझो । विपान-शुभमदिन और शुभ विधिमें गोरोचन, कुकुम, शूल,  
एस्ट्रौटी इन सप वस्तुओंको एकशिवकर प्रोटीनी कष्टमसे कांसीके पात्रके  
उत्तर आठ टम्बी भौंर आठ शीढ़ी रेम्गे गीषकर१९ कोठेके यन्त्रोंको निर्माण  
कर श्वेतक रेखाओं कुम्हको विद्युत्से: पुष्टहरेण पूर्वं प्रभिममाणें रात रे  
कर श्वेतक रेखाओं कुम्हको विद्युत्से: लेहर प्रतिरेगामें भक्षारादि श्वरयुक्त व्यञ्जन  
कर्नेंको क्रमानुसार भरदे । इसके पीछे द्वेत तथा टाल कमल, माटरी, जूँ,

व्यञ्जनाः । एवं संलिख्य वीजानि श्रिशूलानि लिखेत्ततः ॥५॥  
शान्तिपौष्टिकयन्त्रम् ।

प्रतिरेखोपारि नूनं चतुर्दिक्षु क्रमाल्लिखेत् । क्रोंकाराः सप्त  
 संलेख्याः पूर्वपङ्क्तौ तु पश्चिमे ॥ ६ ॥ एवं संलिख्य तद्यन्तं  
 पूजयेद्गतिभावतः । पुण्डरीकैः सिताम्बोजैः शतपत्रैर्मनोहरैः  
 ॥ ७ ॥ मालतीयाधिकाभिश्च केतकैर्मल्लिकैस्तथा । बकुलैश्च  
 यथालाभं फलैः कालोद्धवैः शुभैः ॥ ८ ॥ निर्गन्धं रत्नवर्णं च  
 पुष्पं यत्नेन वर्जयेत् । सकर्पैश्च ताम्बूलैर्धूपैर्दीपैः सिताम्बरैः  
 ॥ ९ ॥ दिनघ्रयं तु सम्पूज्य नेवेद्यैर्विधिः प्रिये । जपेत्सप्त-  
 शतां नित्यं ब्राह्मणांस्तु दिनघ्रयम् ॥ १० ॥ संभोज्य पायसे-  
 नैव यथेष्टेन धृतेन तु । त्रिदिनं भूमिशायी स्वाद्भोजनाह्वन्ध-  
 केतकी, घमेली यथालाभं बकुल, ऋतुफल, कर्पूरयुक्तं तांबूल, धूप, दीप, गंध,  
 इवेत्वद्य, नैवेद्य इत्यादिकोंसे यन्त्रेश्वरका पूजनकर ब्राह्मणद्वारा सप्तशतांका जाप  
 कराता हुआ पायस धृत इनसे यथेष्ट ब्राह्मणोंको तीन दिनसकं भाजनकरा भूमिमें

रोचनाम् ॥ ११ ॥ उद्भृत्य गुटिकां कुर्यात्रिलोहवैष्ट्येत्ततः ।  
तच्छेषं चैव पातव्यं पानीयेन वरानने ॥ १२ ॥ परस्य जायते  
क्षोभो विद्यया वै नियोजितः । गुटिकां धारयेदेवि बाहुमूले  
गलेऽथवा ॥ १३ ॥ धारणात्स्य यन्त्रस्य उपसर्गः प्रशास्याति ।  
अलक्ष्मीः कलहश्चैव दौर्भाग्यं च विशेषतः ॥ १४ ॥ यत्परेण कृतं  
किञ्चित्तत्सर्वं च प्रणश्यति । शान्तिकं पौष्टिकं नाम देवाना-  
मपि दुर्लभम् । प्रथमं यन्त्रराजाख्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् ॥ १५ ॥

इति यन्त्र ० शान्त्यधिकारे शान्तिकं पौष्टिकं नाम प्रथमं यन्त्रम् ॥ १ ॥

**श्रीशिव उवाच ॥** शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्त्रं चारिनिवा-  
सर्पादिमयनाशनयन्त्रम् । रणम् । सर्पव्याघ्रभयं नास्ति यन्त्रे करतले

स्थिते ॥ १ ॥ पूर्वोक्तो लेखनविधिद्रव्यं  
पूर्वोक्तमेव च । सर्वत्र शान्तिके देवि विधि-  
रन्यो न विद्यते ॥ २ ॥ पूजनं चापि पूर्वोक्तं  
नियमश्चापि तादृशः । भूर्जपत्रे तु संलेख्यं  
छितीयं यन्त्रमुत्तमम् ॥ ३ ॥ ह्रींकारगर्भस्थये  
तु साध्यनाम लिखेवरः । तत्तत्पादे तु  
संयोजयं मकारं तदनन्तरम् ॥ ४ ॥ लकारं

—शयन पूर्वक वर्ते । फिर भोजनमेंसे गंप, रोचनको निकालकर गुटिका बना  
त्रिलोहके लालीजमें धंकर गले अथवा बाहुमूलमें पारण करे । हे वरानने !  
शेषभागहो पानीमें भिलाकर पीवे, इस यन्त्रके पारण करनेसे शत्रुघ्नो क्षोभ  
होगा और उपद्रव, दारिद्र, छेत्र, दौर्भाग्य अथवा अन्यहृत अभिवारा-  
दिका सम्पूर्ण दोष शांत होजायगा । शान्तिक पौष्टिक नाम देवतामोंको भी  
दुर्लभ आदिभूत यद्य यन्त्रराज शीघ्र विधासदायक है ॥ १-१५ ॥

इति यन्त्र ० शान्तिपौष्टिक नामक पहला यन्त्र ॥ १ ॥

**श्रीशिवजी** थोले-दे देवि ! अब अरिनिवारण यन्त्रसे कहा है । प्रवग  
दरो । इस यन्त्रहो पास रखनेसे सर्पव्याघ्र इत्यादिकोंका भय न होगा ।  
इसके लेखन द्रव्यभी पूर्वोक्त है । हे देवि ! सम्पूर्ण शान्तिक विद्योंकी पक्षी  
विधि दै दूसरी नहीं, पूर्वोक्त कथनके अनुसारहो पूजन साधा नियमही किया  
है । भोजपत्रके ऊपर पतुक्कोण यन्त्रसे छिपाए दीवीगड़ी, मांडोंके भीतर  
है ।

त्री	त्री
म	दे
ल	व
य	द
यू	त्त:

च वकारं च यकारान्तं प्रतिष्ठितम् । उकारस्वरसंयुक्तं शान्तिं-  
बीजं मनोहरम् ॥ ५ ॥ ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यक् चतुष्कोणं द्विरे-  
खया । त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले गलेऽथवा ॥ ६ ॥ सर्प-  
व्याघ्रभयं हन्ति हन्ति चौरभयं तथा । त्रिविधोपद्रवं हन्ति  
नात्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥


इति यंत्रचिं ना० मा० प्र० उ० न० शा० दा० सर्पव्याघ्र-  
चौरभयनाशनं नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥ २ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अग्नु देवि प्रवक्ष्यामि यन्त्रं दौर्भाग्य-  
नाशनम् । नारीणां च विशेषेण नराणां चैव सर्वदा ॥ १ ॥  
लेखने तु विधिः प्रोक्तो द्रव्यं पूर्वोक्तमेव च । लेखनी पूर्वनि-  
दिष्टा भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥ २ ॥ साध्यनाम लिखित्वा तु  
त्रिकोणं तु द्विरेखया । तस्योपरि चतुष्कोणं रेखाद्वितयशो-  
भितम् ॥ ३ ॥ कोणे कोणे त्रिंशूले तु पूर्वोक्तविधिना ततः ।  
त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले गलेऽथवा ॥ ४ ॥ धारयेद्विधि-  
—साध्यव्यनिके नामको लिखे और हींबीजके पाइमें मकार, छकार, वकार,  
यकार उकारकोभी मिलाकर त्रिलोह वेष्टितकर धाहुमूल अथवा गलेमें धारण  
करे तो सर्प, व्याघ्र, चौर इत्यादिकोंका भय न होगा । अधिक क्या ? अनेक  
प्रकारके उपद्रव शान्त होजायेंगे ॥ १-७ ॥

इति यन्त्रचिन्ताम० नवर्मी पाठिकाके व० मि० भा० टी० शान्तिअधि-  
कारमें सर्प-व्याघ्र चौर-भयनिवारण नामक दूसरा यन्त्र ॥ २ ॥

श्रीशिवजी बोले—हे देवि ! नारी तथा नरोंकी विशेषतासे दौर्भाग्यताके  
नाश करनेवाले यन्त्रोंको कहता हूँ । लेखनविधि पूर्वोक्तहीं होने योग्य है,  
यथा-चौरभयादी के लेखनीमें भोजपत्रके ऊपर दो रेखावाले त्रिकोणयन्त्रको दीच-  
कर उसके वहिर्भागमें दो रेखायुक्त चतुष्कोणयन्त्र दीचकर प्रतिरेखाको  
त्रिशूलसे मिलित करे, तत्प्राप्त त्रिकोणके भीतर साध्यव्यक्तिके नामको लिख  
दक्षिणित्वसे पूजनकर त्रिलोहके तारीजमें रखकर उपरोक्त विधिसे नारी

वन्ध्यागर्भधारणयन्त्रम् ।



वत्पूर्वं नारी वा पुरुषोऽथवा । विविधोपद्रवं हन्ति वन्ध्या गर्भ-  
वती भवेत् ॥५॥ सौभाग्यमतुलं प्राप्य देववन्मोदते सदा ॥६॥

इति श्रीयन्त्रविं ना० म० प्र० उ० नवमपी० शान्त्य० सौभाग्यजननं  
वन्ध्यागर्भधारणं नाम तृतीय यन्त्रम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव उघाच ॥ अयातः संप्रवक्ष्यामि ज्वरनिर्नाशनं  
यन्त्रम् । भूतजं तु ज्वरं हन्ति विद्यते वैद्यकोदितम् ॥३॥ यालानां

-अथवा पुरुष घारण परे तो अनेकप्रकारके उपद्रव शांत होंगे, वंच्या खो  
गर्भवती होंगी । अनेक प्रकारके सौभाग्यको प्राप्त होकर सदा देवदाती  
समान सुखको प्राप्त होंगे ॥ १-६ ॥

इति यन्त्रायित्वासणिकी नवर्दी पीठिकाके ४० मि० भा० टी० शान्ति-  
अधिकारमें सौभाग्यजनन वन्ध्यागर्भधारण नामक तीसरा यन्त्र ॥ ३॥

श्रीशिवजी के लेख-अथ उपरेक नाशकरनेका यन्त्र कहता है, यदि वैद्यकशास्त्रमें  
कहा हुआ यन्त्राज्ञ भूतनाशके उपरेको नाश करता है। इस यन्त्रायज्ञका धारण

च वकारं च यकारान्तं प्रतिष्ठितम् । उकारस्वरसंयुक्तं शान्ति-  
बीजं मनोहरम् ॥ ५ ॥ ततस्तद्देष्येत्सम्यक् चतुष्कोणं द्विर-  
खया । विलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले गलेऽथवा ॥ ६ ॥ सर्प-  
व्याघ्रभयं हन्ति हन्ति चौरभयं तथा । विविधोपद्रवं हन्ति  
नाम्र कार्या विचारणा ॥ ७ ॥

इति यन्त्रदिं ना० म० प्र० उ० न० शा० दा० सर्पव्याघ-  
चौरभयनाशनं नाम द्वितीयं यन्त्रम् ॥ २ ॥


श्रीशिव उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्त्रं दौर्भाग्य-  
नाशनम् । नारीणां च विशेषेण नराणां चैव सर्वदा ॥ १ ॥  
लेखने तु विधिः प्रोक्तो द्रव्यं पूर्वोक्तमेव च । लेखनी पूर्वनि-  
दिष्टा भूर्जपत्रे लिखेन्नरः ॥ २ ॥ साध्यनाम लिखित्वा तु  
निकोणं तु द्विरेखया । तस्योपरि चतुष्कोणं रेखाद्वितयशी-  
भितम् ॥ ३ ॥ कोणे कोणे विशूले तु पूर्वोक्तविधिना ततः ।  
विलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले गलेऽथवा ॥ ४ ॥ धारयेद्विधि-

-साध्यव्यक्तिके नामको लिखे और हीबीजके पाइमें मकार, लकार, वकार,  
यकार उकारकोभी मिलाकर विलोह वेष्टितकर बाहुमूल अथवा गलेमें धारण  
करे तो सर्प, व्याघ्र, चौर इत्यादिकोंका भय न होगा । अधिक क्या ? अनेक  
प्रकारके उपद्रव शान्त होजायेंगे ॥ १-७ ॥

इति यन्त्रचिन्ताम० नवमीं पाठिकारके व० मि० भा० टी० शान्तिअधि-  
कारमें सर्प-व्याघ्र चौर-भयनिवारण नामक दूसरा यन्त्र ॥ २ ॥

श्रीशिवजी बोले-हे देवि ! नारी सथा नरोंकी विशेषतासे दौर्भाग्यताके  
नाश करनेवाले यन्त्रोंको कहता हूँ । लेखनविधि पूर्वोक्तही होने योग्य है,  
यथा-चमेलीकी लेखनीसे भोजपत्रके ऊपर दो रेखावाले त्रिकोणयन्त्रको सैंच-  
कर उसके बाहिर्भागमें दो रेखायुक्त चतुष्कोणयन्त्र सैंचकर प्रतिरेखाको  
विशालसे मिश्रित करे, तत्पश्चात् त्रिकोणके भीतर साध्यव्यक्तिके नामको लिख  
उक्तविधिसे पूजनकर विलोहके ताबीजमें रखकर उपरोक्त विधिसे नारी

वन्ध्यागर्भधारणयन्त्रम् ।



वत्पूर्वं नारी वा पुरुषोऽथवा । विविधोपद्रवं हन्ति वन्ध्या गर्भ-  
वती भवेत् ॥५॥ सौभाग्यमतुलं प्राप्य देववन्मोदते सदा ॥६॥

इति श्रीयन्त्रचिं ना० म० प्र० उ० नवमषी० शान्त्य० सौभाग्यजननं  
वन्ध्यागर्भधारणं नाम तृतीयं यन्त्रम् ॥ ३ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि ज्वरनिर्नाशनं  
परम् । भूतजं तु ज्वरं हन्ति विद्यते वैद्यकोदितम् ॥१॥ बालानां

-अथवा पुरुष धारण करे तो अनेकप्रकारके उपद्रव शांत होंगे, वंद्या स्त्री  
गर्भवती होंगी । अनेक प्रकारके सौभाग्यको प्राप्त होकर सदा देवताकी  
समान सुखको प्राप्त होंगे ॥ १-६ ॥

श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी नवर्दी पीठिकाके च० मि० भा० टी० शान्ति-  
अधिकारमें सौभाग्यजनन वन्ध्यागर्भधारण नामक तीसरा यन्त्र ॥ ३॥

श्रीशिवजी योले-अब उसके नाशकरनेका यन्त्र कहता है, यह वैद्यकशास्त्रमें  
कहा हुआ यन्त्रराज भूतमात्रके उपरको नाश करताहै । इस यन्त्रएजका बाल-

ज्वरनाशनयन्त्रम् ।



हु सदा कार्यं यन्त्रं वै ज्वर-  
शान्तये । उन्मत्तस्य रसे-  
लेंख्यं कर्पटे वै इमशानके  
॥ २ ॥ कृष्णाष्टम्यां चतुर्द-  
श्यां संपूज्य निखनेत्ततः ।  
इमशाने तु द्विंवं स्थानि-  
राहोरेण मानवः ॥ ३ ॥ चतु-  
ष्कोणोपरि चतुर्भवेदष्टदलं  
तथा मध्ये नाम लिखित्वा  
तु रकारस्य तु संपुटे ॥ ४ ॥

दुल्मध्येऽन्तराले तु रकारं संप्रतिष्ठितम् । एवं विंशतिरेफाः  
स्युः सर्वं तत्र क्रमेण तु ॥ ५ ॥ संपूर्य भूमौ संपूज्य बलिपुष्पे-  
र्मनोहरैः । तत्क्षणाद्याति भूतं तु ज्वरस्फं पं तु दाहणम् ॥ ६ ॥  
इति यन्त्रचिन्तामणीं ज्वरनाशनं नाम चतुर्थं यन्त्रम् ॥ ४ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवद्ध्यामि यालानां शान्ति-  
कारकम् । यन्त्रं रक्षाकरं श्रेष्ठं सर्वोपद्रवनाशनम् ॥ १ ॥ पृथ्योक्त-

कोंके ज्वरशान्तिके अर्थ अवश्य प्रयोग करना चाहिये । विधान-पत्रोंके रससे  
मशानके वस्त्रके ऊपर चतुर्दशकोणकर्पटकर कोण निकाल दूसरा चतु-  
ष्कोण उसके ऊपर और लिये भीतर साध्यव्यक्तिके नामको चार रकार  
वर्णसे बेटितकर लिये और प्रतिकोणके भीतर वथा बाहर एक एक रकार  
बर्ण लिये इस प्रकार सब २० रकार होने योग्य हैं । पिर मनोहर बलि पुष्प  
दत्यादिकोंसे पूजनकर उपवासयुक्त हो कृष्णपश्चकी अष्टमी तथा चतुर्दशीको दिनके  
समय पूजनकर गाढ़ दो ती उसी समय धारकोंका ज्वर दूर होजायगा ५-६ ॥

इति यन्त्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकाके ४० मिं ० भा० टी० शान्ति  
अधिकारमें ज्वरनाशक नामक चौथा यन्त्र ॥ ४ ॥

श्रीशिवजी शोडे—अथ वालकोंकी शान्ति करनेवाले तथा रक्षा करनेवाले  
अनेकों रोगोंके शान्त करनेवाले यत्रोक्तो बहुत हैं । उक्त उच्छ्रोंसे उक्त विधानके

बालरक्षकिरनन्म् । विधिना लेख्यं द्रव्यैः पूर्वोदितैः क्रमात् ।  
 भूर्जपत्रोपारि देवि पूर्वोक्तविधिनाऽर्चनम्  
 ॥ २ ॥ मध्ये नाम लिखित्वा तु बर्तुलं  
 वेष्टयेत्ततः । ततश्चाष्टदलं कुर्याद्वीज-  
 युक्तं मनोहरम् ॥ ३ ॥ सकारान्सविसर्गा-  
 न्तान्दले प्रत्येकद्वारा न्यसेत् । सम्पूर्ण  
 विधिवत्पश्चाद्वाहुमूले गलेऽथवा ॥ ४ ॥

धारयद्यन्तरोजं तु लोहत्रितयवेष्टितम्। शाकिन्यो वाऽथ डाकि-  
 न्यो बालग्रहास्तयापरे ॥ ५ ॥ गच्छन्ति बालकं मुत्तवा यन्त्र-  
 राजस्य धारणात् ॥ ६ ॥

इति श्रीयन्त्रचिं ना० म० प्र० उ० न० शा० दा०

बालरक्षाकरं नाम पञ्चमं यन्त्रम् ॥ ९ ॥


श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि तृनीयज्वरनाश-  
 नम् । पूर्वोक्तविधिना लेख्यं भूर्जपत्रे सुशोभने ॥ १ ॥ साध्य-

समान भौजपत्रके ऊपर एक गोलाकार चक्र खैचकर अष्टदल लगा प्रत्येक-  
 दलमे विसर्गान्त सगारको लिख थीचमें बालकके नामको लिख रत्नशात् त्रिलो-  
 इके तापीजमें रसकर विधानपूर्वक पूजनकर मुजा अथवा गलेमें बौंध दे, तो  
 शाकिनी, शाकिनी, बालग्रह इत्यादि बाटकाँको छोडकर छले जायेगे ॥ १-६ ॥

इति यन्त्रचिन्तामणि० बलदेवप्रसादमिश्रकृतभाषाटीकासाहित  
 बालरक्षाकरक पौचवां यन्त्र ॥ ९ ॥

भीमेवजी योले-अथ थीसरा ज्वरनाशक यन्त्र कहता हूँ । विधान-उक्त  
 विधानपूर्वक भौजपत्रके ऊपर त्रिकोणगर्भित त्रिकोणयन्त्रको खैचकर नज्य-

तृतीयज्वरनाशनयन्त्रम् ।



इति श्रीयन्त्रचिं ० तृतीयज्वरनाशनं नाम पुष्टं यन्त्रम् ॥ ६ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि वेलाज्वरविनाशनम् । पूर्वोक्ताविधिना लेख्यं द्रव्यैः पूर्वोदितैः क्रमात् ॥ १ ॥ भूर्जपत्रे तु संलेख्यं पूजयित्वा विधानतः मध्ये नाम लिखित्वा तु वर्तुलं वेष्टयेत्ततः ॥ २ ॥ ऊर्ध्वाधो ह्यप्रतः पुष्टे वकारस्य तु संपुटम् । ततश्चाष्टदलं कुर्याद्वीजयुक्तं तु सर्वतः ॥ ३ ॥ प्रत्येकं दलमध्ये तु नकारं विन्दुभूषितम् । दलान्तरे तु हीं-  
-भागमें यकार पुटित वालके नामको लिखकर प्रतिरेखाके नीचे चार चार यकार वर्ण लिखकर दही भातकी बलि दे । वालक अथवा शूद्र अपने दहिने हाथमें धौंधेंगे तो निश्चय ही उसी समय ज्वरसे हृष्ट जायेंगे ॥ १-५ ॥

इति यन्त्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकांके ८० मि० भापाटीका शान्ति-  
आधिकारमें तीसरा ज्वरनाशक नामक छठा यन्त्र ॥ ६ ॥

श्रीशिवजी घोषे—अथ · समय धौंधकर आनेवाले ज्वरको शांत करनेवाले यन्त्रको फहता हैं । उक्त द्रव्योंसे उक्त विधानपूर्वक भोजपत्रके ऊपर गोलाकार चक्र खेंच आठ दल लगाकर अनुम्बारयुक्त साध्यव्यक्तिके नामको लिखकर चारों ओर विसर्गान्त चार वकारोंको लिख प्रातिदलके भीतर नं धीजोंको और

कारानष्टौ सर्वत्र विन्यसेत् ॥ ४ ॥ एवं संलिख्य संपूज्य शीत-  
तोये विनिक्षिषेत् । मुच्यते विदिनाद्रोगी ज्वरद्वन्द्वात् संशयः  
ज्वरशमनयन्त्रम् ।



॥५॥ उण्णोदके तु संक्षितं ज्वरं शीतं विनाशयेत् । हस्तमूले  
तु तद्वद्वं ज्वरं वेलासमुद्धवम् ॥ ६ ॥ नाशयेन्नात्र संदेहो  
भूतजं सुरसुन्दरि ॥ ७ ॥

इति यन्त्रविं ज्वरशमनं नाम सत्तम यन्त्रम् ॥ ७ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रबद्ध्यामि वालानां रक्षणं  
सदा । यन्त्रं ज्वलनरक्षारूपमायुर्वृद्धिकरं परम् ॥ १ ॥ पूर्वोक्त-

-याहर हीं योंजोंको लिये, किर विधानपूर्विक पूजनकर ठेडे पानोंमें ढालदे तो  
सोगी दून्दूज ज्वरसे लींग दिनमें गुक्त होजायगा । इसमें किसी प्रकारकाभी  
संदेह नहीं है । हे सुन्दरि ! यदि हाथमें बांधलिया जाय तो भूतसे पैदा हुआ  
ज्वर रक्षण दूर होजायगा ॥ १-७ ॥

इति यन्त्रचिन्तामणिकी नववीरीठिकाके य० मि० भा० शान्ति-  
अधिकारमें ज्वरशमन नाशक सातवां यन्त्र ॥ ७ ॥

श्रीशिवजी थोले—अथ सदा यालकोंकी रक्षा वया आयु वृद्धि करनेवाले  
ज्वलन रक्षा नामवाले यन्त्रको कहता हूं । विधानपूर्वक केद्वाप्रदृष्ट्योंसे भोज-

बालानां ज्वरादिस्तम्भनर्यन्त्रम् ।



विधिना लेख्यं द्रव्येः पूर्वोदितैः शुभेः । भूर्जपत्रे तु संलेख्यं  
साध्यनाम तु मध्यनः ॥२॥ ततस्तद्देष्टयेत्सम्यक् चतुष्कोणं  
तु रेखया । तस्योपरि चतुष्कोणं त्रिशूलं कोणतो लिखेत ॥३॥  
कोणान्तरे लिखेद्वीजं चकारं चिन्दुभूषितम् । उपर्यधोऽन्तराले  
तु ह्रींकारं विलिखेद्वधः ॥४॥ एवं संलिख्य तद्यन्तं पूजायित्वा  
विधानतः । त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा बधीयात्कण्ठमध्यनः ॥५॥  
ये चोपसर्गताः केचिद्वोगाः शारीरमानसाः । ईर्ष्या कोपस्तथा  
दोपो दन्तानां संभवः पुनः ॥६॥ न वाधते बालकस्य  
स्तन्यद्रोपः कदाचन ॥७॥

इति श्रीयंत्र० बालानां ज्वरादिस्तम्भनं दन्तरोगादिकृतिमोपद्रवनाशनमष्टमं यंत्रम् ॥

—पत्रके ऊपर दो रेखावाले चतुष्कोणयन्त्रको खींचकर प्रत्येक कोणमें त्रिशूल लिख  
पूर्वोदि चारों दिशाओंमें हीं चं इन धीजोंको लिखकर धीचमें सातुस्वार साध्य-  
व्यक्तिके नामको लिखे, फिर उक्त विधानसे पूजनकर त्रिलोहके तावीजमें  
वन्दकर गलेमें धाघ दे तो उपसर्गजरोग, शारीरक रोग, मानसिकरोग, ईर्ष्या,  
ओप, दांतोंका रोग, स्तनरोग इत्यादि कभी बालकको धाघा न देंगे ॥१-७॥  
इति यन्त्रचिंतामणिः । नवमीं पीठि० व० मि०भा०टी०शान्ति अधिः० यंत्रम् ज्वरादि-  
स्तम्भनदंतरोगादिकृतिमोपद्रवनाशनामक आठवां यन्त्र ॥८॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि मूत्रापस्मारना-  
शनम् । शाकिनीभूतवेतालैर्गृहीतोऽपि सुदारुणैः ॥ १ ॥ तदा  
बालदोषनाशनयंत्रम् ।



तन्मोहनार्थाय कुर्याद्यन्वं  
मनोहरम् । स्वस्यस्य तु प्रकृ-  
र्वीति स तु दोषेर्न वाध्यते  
॥ २ ॥ इव्यैः पूर्वोदितैलेख्यं  
पूर्वोक्तविधिना नतः । मध्ये  
नाम लिखित्वा तु भूर्जपत्रे  
वरानने ॥ ३ ॥ वर्तुलं वेष्ट्य  
संलेख्यं तस्योपरि दलाष्ट-  
कम् । ह्रींकारं दलमध्ये तु प्रत्येकं विलिखेत्सुनः ॥ ४ ॥ एवं  
संलिख्य संपूज्य लोहत्रितयवेष्टितम् । सुवर्णं रजतं ताम्रं  
त्रिलोहं परिचक्षते ॥ ५ ॥ बालानां गलके धार्य यन्वं त्रिपुरभै-  
रवम् । मुच्यते बालको रोगादपस्माराङ्गानने ॥ ६ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ नाभिं भ० प्र० उ० न० शा० बालाना  
दोषनाशन नाम नवम यन्त्रम् ॥ ९ ॥

श्रीशिवजी बोले—अब मूत तथा मृगीरोगके नाश करनेवाले यन्त्रको  
कहता हूँ, इस यन्त्रका प्रयोग उस समय करता धाहिये कि, जिस समय  
बालक शाकिनी भूत वेताल इत्यादिकोंसे पीड़ित हो । यदि स्वस्यबालकके  
ऊपर इस यन्त्रराजका प्रथमहीं प्रयोग करदिया जाय तो कदापि दोषप्रसित  
न हो । पूर्वोक्त पूजादि विधानसे भोजपत्रेक ऊपर एक गोलाकार चक्र खेंच  
उसके बाहर आठ दल ढागाकर प्रत्येक दलमें हीं बीज और मध्यभागमें  
साध्यव्यक्तिके नामको लिखे । फिर पूजनकर त्रिलोहके तारीजमें घन्द करके  
बालकके गलेमें थोड़दे तो बालक अपस्मारादिरोगोंसे मुक्त होकर सुर पावे ।  
सोना, चांदी, तांबा इनको त्रिलोह कहते हैं, इस यन्त्रका त्रिपुरभैरव नाम है—६

इति यन्त्रचिन्तामणिको नववीं पीठिकाके ष० मि० भा० टी० शान्ति  
अधिकारमें बालदोषनाशक त्रिपुरभैरवनामक नीवां यन्त्र ॥ ९ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि सर्पात्संरक्षणं परम् ।  
सर्पादिभिर्यथा बालः प्रौढो वापि विशेषतः ॥ १ ॥ न दंश्यते यथा  
सर्पस्तंभनयत्रम् ।



देवि प्रमादाद्विशान्त-  
यः । पूर्वोक्तविधिना लेख्यं  
पूजयित्वा विधानतः ॥ २ ॥  
मध्ये नाम लिखित्वा तु  
वर्तुलं तु द्विरेख्या । संबे-  
ष्ट्य च दलान्यष्टौ हंसवी-  
जान् पृथक् पृथक् ॥ ३ ॥  
त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा वाहु-  
मूले तु धारयेत् । न इयन्ति  
दर्शनात्तस्य दन्दशूका-

श्चतुर्दशम् ॥ ४ ॥ प्रमादात्पतिते पादे तिष्ठन्ति स्तम्भिता ध्रुवम् ।  
अथ दृष्टः प्रमादेन विषं नैवाऽधिरोहति ॥ ५ ॥ सर्पाणां  
स्तम्भनार्थाय यन्वं गरुडभाषितम् ॥ ६ ॥

इति श्रीयन्त्र० सर्पस्तम्भनं नाम दशमं यन्त्रम् ॥ १० ॥

श्रीशिवजी बोलं-अब सर्पसे रक्षा करनेवाले यन्त्रको कहता हैं, जैसे कि  
सर्पादि हिंसकजीव याल अधबा तरुणादिकोंका कुछ विचार नहीं करते हैं,  
इसी प्रकार अग्निशांतिमें भी कुछ विचार नहीं है । विधान-पूर्वोक्त विधान-  
पूर्वक भोजपत्रके ऊपर दो रेखावाले गोलाकार चक्रोंखेचकर अष्टदल  
मिश्रित कर हैं सः इन धारोंको प्रतिदलमें लिख कर मध्यभागमें सानुस्वार  
साध्यव्यक्तिरे नामको लिख, पूजनादि श्रियाकर त्रिलोहके ताबीजमें घन्दकर  
धारण करें तो दर्शनमात्रहीसे मच्छुरादिकोंका चारों दिशाओंमें नाश होजा-  
यगा, यदि सर्पादिके ऊपर प्रमादसे पैर पड़भी जाय तौभी स्तम्भित रहेंगे किंतु  
दंशनादिकिया कुछभी न करसकेंगे अथवा काटभी लेंगे क्वो उनका विष न  
चढ़ेगा । इस यन्त्रको सर्पोंके स्तम्भनकेलिये श्रीगण्डजीने प्रकाश किया है १-६

इति यन्त्रचिन्तामणिकी नवधी पीठिकाके घ० मि० भा० टी० शान्ति०

अधिकारमें सर्पस्तम्भन नामक दसवां यन्त्र ॥ १० ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि डाकिनीत्रासनं परम् । भूतप्रेतपिशाचाद्यैर्दाकिनीवह्नराक्षसैः ॥ १ ॥ यदा ग्रस्तो नरः कोऽपि नारी वा बालकोऽपि वा । तदा यन्त्रं प्रकुर्वीत त्रासार्थं भूतरक्षसाम् ॥ २ ॥ खडिकया लिखित्वा तु खर्षे भूतत्रासनयन्त्रम् । नूतने शुभे । चतुर्स्त्रस्तिर्यगरेखा

हीं	हीं	हीं	हीं
हीं	हीं	हीं	हीं
हीं	हीं	हीं	हीं

उधर्वास्ताः पञ्चरेखिकाः ॥ ३ ॥ एवं भवनितकोष्ठानां द्वादशैव वरानने । ह्रींकारं प्रतिकोष्ठे तु विलिङ्घ्याय प्रपूजयेत् ॥ ४ ॥ वलिपुष्पोपहारैश्च ततो धूल्या प्रपूजयेत् । संस्थाप्य चाम्रेरुपरि ज्वालयेत् खदिरानलैः ॥ ५ ॥ रुदन्तं च महाभूतं वेषमानं पलायते । तत्क्षणाद्वालकं त्यक्त्वा देशत्यागेन गच्छति ॥ ६ ॥

इति श्रीयन्त्रविंशतिं न० स० ग्र० उ० न० पी० दा० भूतत्रासनं नामैकादर्शं यन्त्रम् ॥ ११ ॥

श्रीशिवजी बोले—अब डाकिनियोंको त्रास देनेवाले यन्त्रको कहता हूँ । इस यन्त्रका प्रयोग उस समय करे कि जिस समय बालक, युद्ध, स्त्री, पुरुष भूत, प्रेत, पिशाचादिकोंसे प्रसित हों तब उनके त्रासके लिये यन्त्रका प्रयोग करे ॥ विधान—नये खण्डके ऊपर खड़िया मिट्टीसे द्वादश कोष्ठक यन्त्रको लिख प्रत्येक कोष्ठमें हीं वीजोंको लिखे, फिर वलि पुष्प इत्यादिकोंसे यन्त्रका पूजनकर धूलिसे पूर्णकर अग्निमें रखकर खेरकी आगसे प्रज्वलित करे तो भूतादिक रोते और कौपते हुए बालकादिकोंको छोड़कर भाग जायगे और उस देशमेंभी त्रास नहीं करेंगे विशेष तो कहनाही क्या है ॥ ३-६ ॥

इति यन्त्रविन्तागणिका नववीं पीठिकाके बलदेवप्रसादकृतभाव्युत शान्ति अधिकारमें भूतत्रासन नामक ग्यारहवां यन्त्र ॥ ११ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि ज्वरनिर्नाशनं परम् । निशाचररसेनैव लिखितं यन्त्रमुत्तमम् ॥१ ॥ ताम्बूल-एकान्तरज्वरनाशनयन्त्रम् ।



पत्रे संलेख्यं बर्जुरस्य तु कण्टकैः । साध्यताम् लिखित्वा तु क्रोंकारपुटितं शुभम् ॥ २ ॥ षट्कोणमण्डलं मध्ये अ॒ प्रत्येकं प्रणवं लिखेद् । क्रोणोपरि तु ह्रींकारं सर्वतो विलिखेत्क्रमात् ॥ ३ ॥ ताम्बूलं भक्षणार्थं च पूजयित्वा प्रदीयते । यन्त्रस्य भक्षणादेवि अ॒ ज्वरो याति न संशयः ॥ ४ ॥ एकान्तरं क्षणेनैव नात्र कार्या विचारणा ॥ ५ ॥

इति यन्त्रचिं ना० म० प्र० उ० न० पी० शा० दा० एकान्तर-ज्वरनाशनं नाम द्वादशं यन्त्रम् ॥ १२ ॥


श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि गर्भरक्षाकरं परम् । हस्तिमदेन संलेख्यं भूर्जपत्रे सुशोभने ॥ १ ॥ मध्ये नाम

श्रीशिवजी घोले—अब ज्वरनाशक यंत्रको कहता हूँ । हलदीके रससे पानके ऊपर बबूलके कॉटेसे पट्कोण यंत्रको लिख प्रत्येक कोणके भीतर औंकारको लिख ऊपरके तीनों कोनोंमें हीं बीजको लिख बीचमें ओं बीजसे पुटित साध्यव्यक्तिके नामको लिखे । फिर ताम्बूलका पूजनकर रोगीको खवादे तो हे देवि! एकांतर ज्वर क्षणमात्रमें नाश हो जायगा, इसमें कुछ विचार नहीं है ॥१-५॥

इति यंत्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकाके शांति अधिकारमें एकांतर-ज्वरनाशन नामक वारहवां यंत्र ॥ १२ ॥

श्रीशिवजी घोले—अब गर्भरक्षा कारक यंत्रको कहता हूँ । हे सुशोभने ! शाधीके मदसे भोजपत्रके ऊपर चतुर्कोणयंत्र खैचकर चारों दिशाओंमें

गर्भरक्षाकरयन्त्रम् ।



लिखित्वा तु चतुष्कोणं द्विरेखया । संवेष्ट्य कर्णिका कार्या वर्तुला तु चतुर्दिशम् ॥२॥ यकारं च रकारं च विसर्गान्तं पृथक् पृथक् । कर्णिकामध्यतो लेख्याः पूर्ववत्पूजयेत् क्रमात् ॥३॥ लोहैकेन तु संवेष्ट्य गर्भिण्याः कण्ठतो न्यसेत् । सुखान्त्रसूतिर्भवति छलछिद्धं च नश्यति ॥४॥

इति श्रीयन्त्रविं ना० म० प्र० उ० न० शा० दा० गर्भरक्षाकरं नाम त्रयोदशं यन्त्रम् ॥१३॥

श्रीशिव उवाचः ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि अन्तर्बल्नीसुरक्षणम् । यन्त्रं योनिव्यथा याति दासुणं भूतनाशनम् ॥१॥ पूर्वोक्तविधिना लेख्यं द्रव्यैः पूर्वोदितैः क्रमात् । भूर्जपत्रे विधानेन मध्यदेशे विचक्षणः ॥२॥ प्रणवं च तथा ह्रीं च

—कर्णिका लगाकर सुशोभितकर प्रत्येक कर्णिकामें यः रः इन बीजोंको लिख भयभागमें साध्यव्यक्तिके नामको लिखे । फिर उक्त विधानपूर्वक पूजनकर चांदीके तारीजमें घंडकर गर्भिणी खीके कण्ठमें बाँध दे तो सम्पूर्ण छठ छिद्र नाश होजायेंगे और सुखपूर्वक संतान पैदा होगी ॥ १-४ ॥

इति यन्त्रचितामणिकी नवर्वी पीठिकाके शान्ति अधिकारमें गर्भरक्षाकारक नामवाला तेरहवाँ यंत्र ॥१३॥

श्रीशिवजी बोले—अब गर्भिणी खीके रक्षा और सुखपूर्वक प्रसूतिकारक यंत्रको कहता हूं । यह यंत्र गर्भव्यथा तथा भूतादिकोंकी व्यथाको दूर करता है । विधान यथा—उक्त द्रव्योंसे भोजपथके ऊपर पटवत् चतुष्कोण यन्त्रको रोचकर दीपिरेखासे युक्तकर प्रतिकोष्ठकमें लो हीं इन बीजोंको लिख ओ हीं

आद्यन्तं नामतो लिखेत् । पटवच्च चतुष्कोणं दीर्घं संवेष्ट्य  
रेखया ॥ ३ ॥ उपर्यधोऽपि निदलान्कोणेककं प्रतिष्ठितम् ।

सुखप्रसादकरमन्तम् ।



ह्रीं क्षं च तथा ह्रीं च कोणे दलगतं लिखेत् ॥ ४ ॥ कोंकारं च  
तथा ह्रीं च डलशेषेषु वै लिखेत् । एवं संलिख्य संपूज्य लोह-  
विनयवेष्टितम् ॥ ५ ॥ गर्भिण्याः कण्ठदेशो तु धार्य यन्वं न  
संशयः । योनिशूलं शिरःशूलं भूतदोषः प्रणश्यति ॥ ६ ॥  
सुखं प्रस्तुतिर्भवनि व्यानाशं न संशयः । रहस्योऽयं समा-  
ख्यानो यन्त्रराजो महाद्रूतः ॥ ७ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी नामि नहादले प्रब्रक्षति ० द० न० शास्त्रदिक्षा-  
कारे दा० गर्भिणीरक्षणं सुखप्रसादनिकरणं नाम चतुर्दशं वन्नम् ॥ ४ ॥


-दो वांजोंसे पुटिव साथके नामझो वीचमें लिखे निर पूजनकर क्रियोहके  
तारीजमें बंदकर गर्भिणीके गलेमें चांदेदे वो गर्भशूल और शिरशूल  
भूतदोष यह सन्मूर्त उपद्रव दांत हों सुखनूरुक्ष प्राप्ति होगी । हे देवि ! इस  
यंत्रराजके रहस्यको मैने कहा है इसका विषयानभी पूर्वकी समान है ॥१-५॥

इति चंत्रचिन्तामणिकी नववी पीठिकाके शांति-अधिकारमें गर्भिणीरक्षण  
सुखप्रसादकरक चौदहवां यंत्र ॥ १४ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि तृतीयज्वरनाशनम् । द्रव्येः पूर्वोदितैलेख्यं भूर्जपत्रे वरानने ॥ १ ॥ मध्ये नाम भूततृतीयज्वरनाशनपञ्चम् ।

लिखित्वा तु त्रिकोणं वेष्टये-

यः यः यः यः यः



ततः । तस्याधः स्वस्तिकं कार्यं तत्सर्वं वेष्टयेत्ततः ॥ २ ॥ चतुष्कोणं शिलाकारं तस्योपरि लिखेद्ग्राह्यः । यकारेः सविसर्गान्तौर्बिष्पर्मेवेष्टयेत्ततः ॥ ३ ॥ संपूज्य तस्य वेलायां बध्नीयादक्षिणे करे । ज्वरो याति न संदेहो भूतजस्तु तृतीयकः ॥ ४ ॥ रोगजं नैव ग्रात्येष न योज्यं तत्र वेकदा ।

इति श्रीपञ्चचिं ना० म० प्र० उ० न० शा० दा० भूत-  
तृतीयज्वरनाशन नाम पञ्चदशं यन्त्रम् ॥ १९ ॥

श्रीशिवजी कलि-अथ तृतीयज्वर नाशक यन्त्रको कहसा हूँ । हे वरानने ! पूर्वकथित द्रव्योंसे भोजपत्रके ऊपर एक चतुष्कोण यन्त्र लेंचकर उक्त त्रिकोणके नर्चे स्वस्तिक लिख पुनः इन सद्यको चतुष्कोणयन्त्रसे वेष्टित करे । किर त्रिकोणके भीतर साध्यव्यक्तिके नामरूप और द्वितीय चतुष्कोणके भीतर विसर्गान्त तीन यकार वर्णोंको पूर्वादि चारों दिशाओंमें लिख पूजन कर ज्वरके समय दहिने हाथमें धाँधे तो तीसरे दिन आनेवाला ज्वर दूर होगा । यदि भूतादिकोंके उपद्रवसे होगा तो अवश्य दूर होजायगा । अथवा रोगजज्वर हो तो इसका प्रयोग न करै क्योंकि इस यन्त्रसे रोगज्वर दूर नहीं होता किन्तु भूतजही दूर होता है ॥ १-५ ॥

इति यन्त्रचिन्तामाणीकी नवर्दी पीठिकाके शान्तिभिरारम्भे तृतीयक  
भूतज्वरशमन नामक पञ्चदशां यंत्र ॥ १५ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि सर्वरक्षाकरं परम् ।  
छलछिद्रहरं नाम सर्वतोभद्रसंज्ञकम् ॥ १ ॥ ऊर्ध्वरेखाः पञ्च पञ्च  
सर्वतोभद्रयंत्रम् ।

अ	धा	इ	ई
उ	ऊ	ऋ	ऋ
ए	ए	ऐ	ऐ
ओ	ऑ	ओ	ओः

तिर्यग्रेखास्तु संलिखेत् । एवं कृते  
भवन्त्येते कोष्टाः पोडशसंज्ञकाः ॥ २ ॥  
अकारपूर्वाः क्रमशो विलिख्य सर्वत्र  
कोष्टे निशि भूतजेऽङ्गि । भूर्जस्य  
पत्रे मृगनाभिचन्दने हिमेन संमेल्य  
लिखेत्रकमेण तु ॥ ३ ॥ संपूज्य पुष्पे-  
र्विविधैश्च गन्धैर्धूपैर्मनोज्ञर्विधौप-  
चारैः । संपूज्य विप्रान्वसनैर्धनैश्च यन्त्रं च तद्धक्तियुतः समर्च-  
येत् ॥ ४ ॥ संवेष्टय लोहत्रितयेन पश्चात्संहष्टुचेता विधिवन्म-  
लुप्यः । तं धारयेद्वक्षिणवाहुमूले नारी गले यन्त्रवरं प्रयत्नात्  
॥ ५ ॥ तद्वारणात् प्राप्तमनःप्रसादः सर्वप्रियो भाग्ययुतः स  
तृणम् । संजायते सर्वभयेन हीनो लोके यथा प्राप्तमहाष्ट-  
सिद्धिः ॥ ६ ॥

इति श्रीम० चि० ना० म० प्रत्यक्षसि० उ० न० शा० दा० सर्व-  
सौभाग्यवर्धनं सर्वतोभद्राल्यं घोडशं यन्त्रम् ॥ १६ ॥

श्रीशिवजी बोले—अब सब प्रकारके छलछिद्रोंके नाश करनेवाले और  
सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले सर्वतोभद्र नामक यन्त्रको कहता है । विधान  
यथा—भोजपत्रके ऊपर कहती, लालबन्दन, हिम इन सब वस्तुओंको एक-  
त्रितकर सोलह कोष्टकाले यन्त्रको खीचे । फिर प्रतिकोष्टकमें अकारादि सोलह  
स्वरोंको लिख गन्ध, धूप, दीप इत्यादिकोंसे यन्त्रराजका पूजनकर धन  
वज्रादिकोंसे भाषणोंको संतुष्टकर भोजन करावै । फिर यत्तपूर्वक त्रिलोह  
निर्मित ताथीजमें बन्दकर पुरुष दक्षिणहाथमें और खी गलेमें बाँधेल तो प्रस-  
न्नचित्त और भाग्ययुक्त हो सबके प्रिय होंगे और सब प्रकारके भयोंसे रहित  
जैसे कि अष्टसिद्धिके प्राप्त होनेसे मुख होता है उसकी समान सुरत पावैगे ।

इति यन्त्रचिन्तामणिकी नववीं धीठिसांके शान्ति अधिकारमें सौभाग्य

वर्द्धक सर्वतोभद्र नामक सोलहवाँ यन्त्र ॥ १६ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवर्ख्यामि यन्त्रं द्यूतजया-  
वहम् । सर्वद्यूते हि परमं जयं स्यादान्वधारणात् ॥१॥ वाजिनः  
द्यूतविजयकरयंत्रम् ।

 क्रममार्ख्यातं चतुर्षष्ठिस्तु

मे	ये	र	कं	द	ये	रु	पा
कु	जि	ज	तं	द	नी	च	नः
छ	दा	वी	य	मं	त्रं	ते	प
हे	ष्टि	वा	मो	क्षि	प	पा	वं
वं	पा	ण	क्षि	मो	वा	ष्टि	हे
प	ते	त्रं	मं	य	वी	दा	छ
नः	च	नी	द	त	ज	नि	क
पा	रु	ये	ठ	कं	र	स्त्रे	मे

कोष्ठकम् । तद्वारणाजयं  
देवि द्यूते सर्वत्र निश्चितः ।  
एरण्डपत्रे संलेख्यं लेखन्या  
काकपिच्छुया । कञ्जलस्य  
मधीं कृत्वा लिखेद्रात्रौ  
शुचिस्मिते ॥ ३॥ तिर्यगू-  
र्ध्वास्तु संलेख्या नव  
रेखास्तु विस्तृताः । एवं


भवन्ति कोष्ठाश्च चतुःषष्ठिरानने ॥ ४॥ मध्ये वीजाः सुसं-  
लेख्याऽनुलोमप्रतिलोमतः । ते एव हि पुनर्लेख्याः श्रेष्ठकोष्ठेषु  
च क्रमात् ॥५॥ मेष्टेरक्तंदयेरुपाकाजिजतंदनचिनः ॥ छदार्वी-  
यमंत्रंतेरुष्टेष्टिवामोक्षिणपात्रम् ॥ ६॥ एतान्येव तु वीजानि  
द्वाविंशाद्विलिखेत् क्रमात् । दामोदरकवीन्द्रेण चित्रो वाजि-  
क्रमः कृतः ॥७॥ स्वेच्छुया नीयते येन चतुःषष्ठिपदं जनेः ।

श्रीशिवजी बोले—अब जुएमें जयके देनेवाले यन्त्रको कहताहूँ इस ऐसा  
यन्त्रके घारणकरनेसे सब प्रकारके जुएमें जय होतीहै इस सोलह कोष्ठरुवाले  
यन्त्रमें वाजिक्रम कहा है, हे देवि ! इस यन्त्रके घारण करनेसे सत्र प्रकारके  
जुओंमें जय होती है । हे शुचिस्मिते ! रात्रिके समय एरण्डपत्रके ऊपर काक-  
यन्त्रकी लेखनीसे काली स्यादीके ६४ कोष्ठक बना प्रतिकोष्ठकमें अनुलोम वथ  
विलोमसे इन २२ शीजोंको लिखे । शीज यथा—मे, स्त्री, रु, कं, द, ये, रु, पा, क, जि,  
ज, सं, द, नी, च, नः छ, दा, वी, य, मं, वं, ते, प, हे, ष्टि, वा, मो, क्षि, ण,  
पा, वं । यह वाजिक्रम चित्र दामोदर पण्डितने बर्णन किया है । जो मनुष्य-

प्रसन्नं तु मया प्रोक्तं यन्त्रं चित्रं मनोहरम् ॥ ८ ॥ सर्वदृते  
जयं प्रोक्तं धारणाज्ञायते प्रिये ॥ ९ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणि, ना, म, प्र, ३, न, शा दा, शृतविजयकरं  
सप्तदशं यन्त्रम् ॥ १७ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि बन्धमोक्षं मनोह-  
रम् । बद्धो रुद्धः क्षणेनैव मुच्यते यत्प्रमादतः ॥ ? ॥ यदा  
बन्धमोक्षणं यन्त्रम् ।



—इस ६४ वोष्टु यन्त्रको धारणकर जुएमे जायेंगे वे लोग निश्चयहीं जयको  
प्राप्त होकर प्रसन्न होंगे कारण कि इस यन्त्रका नामहीं प्रसन्नयन्त्रहै ॥ १-१ ॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी नववीं पाठिहाके शान्ति अधिकारमे  
शृतविजयकर नामक सत्रहवाँ यन्त्र ॥ १७ ॥

श्रीशिवजी बोले—अब मनोहरवर्द्दमोक्षनाम यंत्रको कहताहै । इस यन्त्रके  
प्रयोगकरनेसे वेदों धर्मसाम्राज्यमें धंधनसे धृष्ट जायगा । अथवा दिसी जीवरे

केनापि संहद्रो न विन्देन्मुक्तिमात्मनः । तदा यन्वं प्रकुर्बींत  
तत्क्षणान्मुक्तिदायकम् ॥ २ ॥ कर्षरं कुंकुमेनैव भूर्जपत्रे सुवि-  
स्तुते । लेखनीयं प्रयत्नेन एकान्ते यन्त्रमुत्तमम् ॥ ३ ॥ मध्ये  
नाम लिखित्वा तु हृष्णेखातदनन्तरम् । ततस्तद्वेष्टयेत्सम्य-  
ग्वतुलं तु द्विरेखयः ॥ ४ ॥ मां मोचयेति सर्वत्र चतुर्दिशु  
प्रवेष्टयेत । चतुष्कोणं तु संबेष्टय रेखाद्वितयकेत तु ॥ ५ ॥  
पूजनीयं प्रयत्नेन गन्धपुष्पैः फलैः शुभैः । विलोहवेष्टितं कृत्वा  
चाहुमूले गलेऽथवा ॥ ६ ॥ धारणात्तत्क्षणान्मुक्तः संसार इव  
निर्ममः । स्वस्थता धारणान्नित्यमवरोधः कदाचन ॥ ७ ॥  
जायते नैन संदेहः स्वप्रेष्टपि हि कदाचन ॥ ८ ॥

इति श्रीय, चि, ना, म, प्र, उ, न, शा, वन्धमोक्षणं

नामाऽष्टादशं यंत्रम् ॥ १८ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि भववन्धविनाश-  
नम् । निर्वाणपद्योजयं हि निवेदपददायकम् ॥ १ ॥ पद-

-किसीने रोकलिया हो और उसके निकलनेका कोई विषय न हो तो युक्ति-  
कारक इस यन्त्रराजका प्रयोगकरै । विधान-कपूर, कुंकुम इनको एकत्रित  
करके विस्तारित भोजपत्रके ऊपर एक चतुष्कोणको, खेंचकर उसके मध्यमें  
दो रेखा मिथित एक गोलाकार चक्र लिखकर उसमें विसर्गान्त साध्य-  
व्यक्तिके नामको लिखकर अन्तमें हृष्णेष्टा इसको लिख उक्त गोलाकारके  
बहिर्भाग पूर्वादि चारों दिशाओंमें “मां मोचय” इस वाक्यको लिखे ।  
फिर गन्ध पुष्प इत्यादिकोंसे यंत्रका पूजनकरके विलोहके तावीजिमें बंदकर  
गले अथवा बाहुमूलमें धारणकरे तो वृंदी वसी क्षणमें वंधनसे छूट जायगा, जैसे  
कि संसाररूप वंधनसे ममतारहित मुमुक्षुलोग छूट जाते हैं । हे देवि ! इस  
यंत्रके धारण करनेसे शरीरको स्वस्थता रहेगी, वंधन तो स्वप्नमें न होगा १-८ ॥

इति श्रीयंत्रवितामणिकी नववीं पीठिकाके शान्ति अधिकारमें  
वंधमोक्षण नामक अठारहवां यंत्र ॥ १८ ॥

श्रोशिवजी वेले-भव भववंयन नाशक और मोक्षपदके देनेवाले यंत्रको  
कहता हैं । विवान-गोरोचन, लाल-घंडन इनको भिलाकर भोजपत्रके, उपर

कोणस्य तु मध्ये तु साध्यनाम प्रतिष्ठितम् । निःसारं सम्पुटं  
भवमोचनयन्त्रम् ।



कृत्वा भूर्जपत्रे सुविस्तृते ॥२॥  
निःसारं तु लिखेत्कोणे रोचना-  
चन्द्रनेन तु ॥३॥ लोहमध्य-  
गतं कृत्वा रक्षयेच्छिरसा  
सदा । तद्वारणात्कर्मेणैव  
विरक्तः संप्रजायते ॥४॥  
ज्ञानयोगं समासाद्य सुच्यते  
नाव संशयः । पितृमित्रकल-  
ब्रेषु निमोहः संप्रजायते ॥५॥

निर्बन्धस्तु वनारण्यदुर्गपर्यटनं गिरी । जायने नाड्व संदेहो  
योगी सर्वत्र पृजितः ॥ ६ ॥

६ नि १० चि ० ना ० म० प्र० उ० न० शा० दामोदरपणि-  
तोहृते भवमोचन नाम एकोनविश यन्त्रम् ॥ १९ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि दुष्टसत्वात्प्रमोचनम् ।  
यदारण्ये सर्विदुर्गे दुष्टसत्त्वेन चाधितः ॥ ? ॥ तद्वा यन्त्रं प्रकुर्वीत

—एक पद्मोण यन्त्रको संच प्रत्येक कोणमे निःसार इस पद्मों को लिखे और  
इसकी शब्दसे पुटित साध्यव्यक्तिके नामको यन्त्रके भीतर लिखे । तत्पश्चात्  
उक्त विधानपूर्वक यन्त्रराजका पृजनकर त्रिलोहके तावीजमें यन्दकर शिरमें  
धारण कर तो विरक्त हो जानमार्गको अनुसरण करताहुआ पुत्रादेहोंके मोहसे  
रह्य होकर पर्वतादि ध्रेष्टम्यानोंमें यन्त्ररहित पूजनीय योगीभर होगा ॥१-६॥

८ विद्यन्त्र चिन्तामणिकी नवधी पीडिङ्गाके शान्ति अधिकारमें भवमो-  
चन नामक उम्मीसवां यंत्र ॥ १९ ॥

श्रीशिवजी थोले—अब दुष्टजार्दिमें मोचन करनेवाले यन्त्रको कहता हूँ ।  
इस यंत्रका उस समय प्रयोग करें कि, जिस समय वन मढ़ी शाढ़ी इत्यादि

दुष्टसत्त्वप्रमो-वामहस्ततलोपरि । निष्ठुविनेन ह्रींकारं लिखित्वा  
चनयंत्रम् । पूजयेत्तदा ॥ २ ॥ अनामाद्वेवरत्तने चतुर्दिशु प्रसे-  
त्तीं चयेत् । तत्क्षणान्मुच्यते जन्तुर्यावद्वीपिमहोरगैः  
॥ ३ ॥ रुद्धो वृक्तेश द्विरभिरन्यैर्दुष्टैर्न संशयः ॥ ४ ॥

इति श्रीयंत्रविद० ना० दुष्टसत्त्वाप्रमोचनं नाम विशं यन्त्रम् ॥ २० ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणी नाम्नि महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धि-  
प्रदे उमामहेश्वरसंबादे दामोदरपणिडतोद्धृते नवमी-  
पीठिकायुतः शान्त्यधिकारः समाप्तः ॥

अथ मोक्षाधिकारः ॥

आपादमस्तकनिबद्धजनः क्षणेन मोक्षं प्रयाति निगडेश्व  
सुवेष्टिताङ्गः । यस्याज्ञया जगति देवमनुप्यसिद्धास्तां भक्ति-  
युक्तमनसा प्रणतोऽस्मि बन्दीम् ॥ १ ॥ अधिकारं महद्वृत्ये  
बन्दीमोक्षकरं नृणाम् । विश्वासात्तक्षणाद्वेवि सर्वकार्यप्रसा-  
धकम् ॥ २ ॥ देवानां मनुजेशिनां नृपञ्जुपां खीणां शिशूना-  
ततो बद्धानां निगडेश्विरं ततुञ्जुपां मोक्षाय सिद्धिप्रदम् ॥ ३ ॥

-मागास सिंहादि दुष्ट जीवोंसे भययुक्त हो । विधान-अपने थूकसे बायें  
हाथके ऊपर चतुर्फोणयन्त्र खेचकर भीतरके भागमें हीं बीजको अनामिका  
अंगुलीके रुधिरको पूर्वादि चारों दिशाओंमें सेचन करे तो तत्क्षण साध्य-  
व्यक्ति उक्त हिंसक जीवोंके भयसे विमुक्त हो सुखका भागी होगा ॥ १-४ ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकाके बलदेवप्रसादमिश्रजीकृत  
भाषाटीहयुत शांति अधिकारमें दुष्टसत्त्वात् मोचन  
नामक बीसवां थंत्र ॥ २० ॥

इति श्रीयंत्रचिन्तामणीनाम्नि महाकल्पे प्रत्यक्ष सिद्धिप्रदे उमामहेश्वर  
सम्बादे दामोदरपणिडतोद्धृते ४० बलदेवप्रसादमिश्रकृत भा० टी०  
युत नवमी पीठिकायुते शान्त्यधिकारः समाप्तः ॥

श्री बन्दीदेवीको नमस्कार है । मरतकसे लेकर चरणपर्वत समूर्धं भूमि  
निगडवंथ पुरुप जिस बंदी देवीकी आज्ञासे विमुक्त हो सिद्धादि गतिको प्राप्त-  
होते हैं उस बंदीदेवीको भक्तियुक्त मनसे नमस्कार करता है ॥ ५ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवद्यामि बन्दीमोक्षप्रसा-  
धनम् । यत्प्रसादात्क्षणेनैव बन्दीमोक्षः प्रजायते ॥ १ ॥ साध्य-  
बन्दीमोक्षतयंत्रम् ।



सुच्यते जन्तुर्दृष्टवद्भोजपि सत्तमे ॥ ४ ॥

ऐं हीं श्रीं बन्दीदेव्यै अमुकस्य बन्धमोक्षं कुरु कुरु मात-  
र्नमः स्वाहा अनेन मन्त्रेण नाम गृहीत्वा पुनः प्रनिमन्त्रं गुग्गुल-  
वटिकां होमयेत् ॥ अष्टोत्तरशतां सततविंशतिदिनपर्यन्तं सर्वथा  
बन्धमोक्षो भवनि नान्यथा ॥ यन्त्रकल्पविहितसिद्धमन्त्रोऽयम् ॥


इति श्रीय. चिं. ना. म. प्र. ड. मोक्षाधिकारे दा. बन्धमोक्षन  
नाम प्रथम यन्त्रम् ॥ ५ ॥

श्रीशिवजी बोले—हे सुंदरि ! जिसके प्रयोग करनेसे बंदी कैदसे छूट  
जाया है अब उस यंत्रराजको कहता हैं । विधान-पुष्येके ऊपर धूतसे एक  
गोलाकार घक लिखकर उसके बीभार्गमें एक चक्र और लिंग । किर प्रथम  
यंत्रके भीतर साध्यव्यक्तिके नामाध्यर और दूसरे यंत्रके पूर्वादि चारोंभागमें  
हीं बीज लिखकर गंध पुष्पादिकोंसे यंत्रका प्रज्ञनकर साध्यव्यक्तिको ग्रन्थादें तो  
वीन दिन धधवा सात दिनमें धन्यनसे छूट जायगा ॥ १-४ ॥

ऐं हीं श्रीं बन्दीदेव्यै अमुकस्य बन्धमोक्षं कुरु २ मातर्नमः स्वाहा ॥ इस  
मन्त्रमें नाम उचारण करके गुग्गुल वटिकासे जाहूति देकर हवन करे ।  
सच्चाईस दिनतक १०८ पार वक्त मंत्रका जापकरे तो बंदीकी अवश्य मोक्ष  
होनायगी अर्थात् कारागारसे छूटजायगा । यह कल्पविहित सिद्ध मंत्र है ॥

इति यंत्रचिन्तामणिकी दृश्वर्णी पीठिकाके मोक्षाधिकारमें धन्यनमोक्षन  
नामक पहला यंत्र ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि यन्त्रं निगडमोचनम् । हस्तपादतले बद्धो मुच्यते यत्प्रसादतः ॥ २ ॥ कांस्यपात्रोपरि लेख्यं रोचनाचन्दनेन च । कर्परकुङ्कुमाभ्यां च मृग-  
निगडमोचनयन्त्रम् ।



नाभियुतेन च ॥ २ ॥ हीङ्गारं मध्यदेशे तु वर्तुलं वेष्टयेत्ततः । ततस्तु पोडशदलानकारादिस्वरान्वितान ॥ ३ ॥ ततस्तद्वेष्ट-

श्रीशिवजी बोले—अब निगडमोचन यन्त्रको कहताहूँ कि जिस यन्त्रराजके प्रतापसे सर्वज्ञवंदी मुक्त होसकता है । विधान—गोरोचन, लालचंदन, कपूर, कुंकुम, कालूरे इन सब वस्तुओंको एकावितकर कांसोके पात्रके ऊपर एक गोलाकार चक्र खैचकर मध्यभागमें हींथीजको स्थापितकर उक गोलाकारके बहि-

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवद्यामि बन्दीमोक्षप्रसा-  
धनम् । यत्प्रसादात्क्षणेनैव बन्दीमोक्षः प्रजायते ॥ १ ॥ साध्य-  
बन्धमोक्षनयंत्रम् ।



न्मुच्यते जन्तुर्दुष्टबद्धोऽपि सत्तमे ॥ ४ ॥

ऐं होैं श्रीैं बन्दीदेव्यै अमुकस्य बन्धमोक्षं कुरु कुरु मात-  
र्नमः स्वाहा अनेन भन्त्रेण नाम गृहीत्वा पुनः प्रतिमन्त्रं गुगुल-  
बटिकां होमयेत् ॥ अष्टोत्तरशतं सतविंशतिद्विनपर्यन्तं सर्वथा  
बन्धमोक्षां भवति नान्यथा ॥ यन्त्रकल्पविहितसिद्धमन्त्रोऽयम् ॥


इति श्रीय. चिं. ना. म. प्र. ड. मोक्षाधिकारे दा. बन्धनमोक्षनं  
नाम प्रथम यन्त्रम् ॥ १ ॥

श्रीशिवजी बोले-हे सुंदरि ! जिसके प्रयोग करनेसे बंदी कैदसे छूट  
जाता है अथ उस यंत्रराजको कहता हूँ । विधान-पुष्येके ऊपर घृतसे एक  
गोलाकार चक्र लिखकर उसके ब्रह्मांगमें एक चक्र और लिखे । फिर प्रथम  
यंत्रके भीतर साध्यव्यक्तिके नामाक्षर और दूसरे यंत्रके पूर्वादि चारोंभागमें  
होैं बीज लिखकर गंध पुष्पादिकोंसे यंत्रका पूजनकर साध्यव्यक्तिको गवाइं तो  
तीन दिन अधिका मात्र दिनमें बंधनसे छूट जायगा ॥ १-४ ॥

ऐं होैं श्रीैं बन्दीदेव्यै अमुकस्य बन्धमोक्षं कुरु २ मातर्नमः स्वाहा ॥ इस  
मन्त्रसे नाम उक्षारण करके गुगल बटिकासे आहुति देकर हवन करे ।  
सत्ताईस दिनतक १०८ बार उक्त मंत्रका जापकरे तो बंदीकी अवश्य मोक्ष  
होजायगी अर्थात् कारागारसे छूटजायगा । यह कल्पविहित सिद्ध मंत्र है ॥

इति यंत्रचिन्तामणिकी दशवीं पीठिकाके मोक्षाधिकारमें बंधनमोक्षन  
नामक पहला यंत्र ॥ १ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रबद्ध्यामि यन्त्रं निगडमोच-  
नम् । हस्तपादतले बद्धो मुच्यते यत्प्रसादतः ॥ ? ॥ कांस्य-  
पात्रोपरि लेख्यं रोचनाचन्दनेन च । कर्षरुद्धमाभ्यां च मृग-  
निगडमोचन्तपन्त्रम् ।



नाभियुतेन च ॥ २ ॥ ह्रीङ्कारं मध्यदेशो तु वर्तुलं वैष्ट्येत्तः ।  
ततस्तु पौडशद्वलानकारादिस्वरान्वितान् ॥ ३ ॥ ततस्तुष्ट्य-

भीशिवजी थोडे—अथ निगडमोचन यन्त्रको कहाहै कि जिस यन्त्रराजके  
प्रतापसे मर्दाहिंदी मुण्ड होसकता है । विधान—गोरोचन, दालचंदन, कपूर,  
तुंगुम, दमरू इन सभ वस्तुओंको एकत्रितकर कांसोके पात्रके ऊपर एक गोला-  
धार घट देखकर मध्यभागमें हीयोजहो स्थापितहर उक्त गोलाकारके थहि-

येत्सम्य गवर्तुलं रेखया पुनः । तस्योपरि प्रकर्तव्यं द्वाविंश-  
दलसंयुतम् ॥ ४ ॥ ककारादिसकारान्तं यन्त्रनानि लिखेत्क-  
मात् । प्रतिष्ठाप्य महापूजां गन्धपुष्पैः फलैः शुभैः ॥ ५ ॥  
नेवेद्यैर्बलिहोमेश्च दीपदानैर्मनोहरैः । अँ नमश्चण्डकायै स्वा-  
हेति मन्त्रेणाऽप्तोत्तरशतं ज्ञाहुयात् । पायसैर्मधुखायैश्च गुग्गु-  
लेन विशेषतः ॥ ६ ॥ प्रत्यहं तु प्रकर्तव्यं सप्तमैऽहनि पूर्यते ।  
उद्भृत्य प्रणतः पूर्वं भोजनाद्वन्धरोचनम् ॥ ७ ॥ पानार्थमर्धं  
दातव्यं गुटिकार्घ्येन कल्पयेत् । तद्वारणात्प्रसुच्येत चिरं बद्धो-  
ऽपि मानवः ॥ ८ ॥

इनि यन्त्रचिन्तामणी ना० म० प्र० उ० द० म० दा० निगड-  
वधमोक्षकर नाम द्वितीयं यंत्रम् ॥ २ ॥

श्रीशिव उवाच ॥ अथातः सम्बवक्ष्यामि यन्त्रं वै वन्धमोक्ष-  
णम् ॥ विवरे चारुबद्धोऽपि सुच्यते यत्प्रसादतः ॥ १ ॥ ह्रींकार-

—मार्गमें पोडदाल लिखकर अकारादि १६ अवरोंको क्रमानुसार प्रत्येक कोष्ठमें  
लिखे । फिर और एक दीर्घसा गोलाकारसे उक्त पोडदा दलोंकोमी लेटितकर  
३२ दलोंसे युक्तकरके प्रत्येक दलमें क्रमानुसार फकारसे लेकर सकारपर्यन्त  
वत्तीस व्यंजन वर्णोंको प्रत्येक कोष्ठमें लिखे । तत्पश्चात् यन्त्रराजकी प्रतिष्ठा  
करके गंधकूलोंसे महापूजा करै धूप दीप नवेद्य व मनोहर दीपदानदे । ‘ओं  
नमश्चण्डकायै स्वाहा’ इस मन्त्रका १०८ घार जपकरै । यीर, मधु राश और  
विशेषकर गृगलकी प्रतिदीनीं बोलिदे और ढक्कर रखदे । प्रणाम करनेके पूर्व  
उसको निकाले और गन्ध धूप देकर भोजन करै ॥ पीनेके लिये इसका  
आधा भागदे और आधेकी गुटिका बन वे । इस गुटिकाके धारण करनेसे  
जन्म कैदाभी हृटजायगा ॥ १-८ ॥

इति यन्त्राचिन्तामणिकी दशवीं पीठिकाके मोक्षाधिकारमें निगड-  
वधमोक्षकारक दूसरा यंत्र ॥ २ ॥

श्रीशिवजी बोले—अब वंधमोक्षण नाम यंत्रको कहताहूं—यदि कालकोठरी  
इत्यादिकमें भले सकार बद्धभी होगा तथापि यन्त्रराजके प्रतापसे हृटजायगा ।  
पिपि-भोजपत्रके ऊपर कुंकुमसे चतुर्कोण यंत्रको लिखे । तत्पश्चात् हीं धीजके

वंधमोक्षकरयन्त्रम् । मध्यदेशे तु साध्यनाम च यत्नतः ।

तिंदि  
व  
द  
च

लिखित्वा भूर्जपत्रे तु रोचनाकुहुमेन च ॥२॥  
तद्यन्तं पूजयित्वा तु वहमानेऽम्भसि क्षिपेत् ।  
तदस्मःपक्वेनान्नेन भोजनं तस्य कारयेत् ॥३॥  
एवं कृते तृतीयेऽद्विमुच्यते नात्र संशयः । विव-  
रस्थोऽत्र यो बद्धो गूढस्थोऽपि विमुच्यने ॥४॥

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणी नात्रि महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंज्ञादे  
दशमपीठिकायां मोक्षाधिकारे दासोदरपिङ्गितोदृते वन्धमोक्षकरं  
नाम तृतीयं यन्त्रम् ॥ ३ ॥

यन्त्रचिन्तामणिं नाम कल्पं श्रीशिवभाषितम् । धर्मार्थका-  
मफलदं वैरिनिग्रहकारणम् ॥ १॥ यस्तु पूजयते नित्यं धारये-  
द्रापि मानवः । अवध्यः सर्वलोकानां जायते नात्र संशयः ॥ २॥ शृणोति यस्तु धर्मात्मा वाच्यमानं कदापि च । सोऽपि  
पूज्यश्च मान्यश्च जायते मत्प्रसादतः ॥३॥ यन्त्रचिन्तामणिं यस्य  
श्रुत्वा श्रद्धा न जायते । न वन्द्यः पापकृदेवि दुर्मगो भुवि

-मध्यमे साध्यव्यक्तिके नामको लिख यन्त्रराजके भीतर स्थापित करे । पुनः  
उक्त विधानसे पूजनकर यन्त्रको वहवेहुए जलमें डालदे और उस जलसे  
पकान्नहे साथ उक्त व्यक्तिको भोजन करावे । इस विधिके करनेसे तीसरे दिन  
विवररथ तथा गुपस्थानमें स्थित व्यक्तिभी गुरु होजायगा ॥ १-४ ॥

इति यन्त्रचिन्तामणिकी दशवीं पीठिकाके पं० षलदेवप्रसादमिश्रजी-  
कृतभाषाटीकायुत मोक्षाधिकारमें वंधमोक्षकर नामक तीसरा यंत्र ॥ ३ ॥

श्रुतेनप्रहकारक धर्म, अर्थ, काम, फलके देनेवाले शिवोक्त इस चिन्ता-  
मणि नाम कल्पको जो मनुष्य नित्यप्रवि पूजन अथवा धारण करता है वह  
मनुष्य निःसन्देह सब लोकोंका अवध्य होता है ॥१॥२॥ जो धर्मात्मा मनुष्य  
वर्णितकरे हुए इस चिन्तामणि नामक फलको अवण करता है वह मनुष्य  
मेरे प्रसादसे पूज्य तथा माननीय होता है ॥ ३ ॥ हे देवो ! इस चिन्तामणि  
नाम यन्त्रको अवण करकेभी जिस व्यक्तिरी यन्त्रशास्त्रमें श्रद्धा नहीं होती है  
उस संशयरूप व्यक्तिको किसी प्रकारभी प्रणामादि न करना चाहिये,

निश्चितम् ॥६॥ यस्तु श्रद्धाभियुक्तः सन्यन्त्रचिन्तामणिं श्रयेत् । तेन सार्वं तु कः कुर्याद्विरुद्धं वै जिजीपुकः ॥ ५ ॥ अतः परं किं वहुनोदितेन कल्पप्रभावं वहुधा तु देवि । यः शुद्धरूपी जगतः प्रशास्ता मनेजसा भाति सुशोभमानः ॥७॥ पुण्यं पवित्रं परमं रहस्यं सुसारसं यत्परिकीर्तिं ते । चिन्तामणिं चिन्ति-नकार्यसाधकं प्रत्यक्षकामादिकल्पसाधकम् ॥८॥ वद्याभिधानं प्रथमं द्वितीयमाकर्षणं स्तम्भनकं तृतीयम् । विद्वेषणं मारणकं नतश्च उच्चाटनं शान्तिकरं च सप्तमम् ॥९॥ वन्दीप्रसादजनकं तु महाप्रभावमत्यन्तमुच्चाटनकं वदन्ति । अष्टाधिकारं प्रबद्धं नि कल्पं चिन्तामणी देववरैः सुपूजिते ॥१०॥ स्वर्गच्युतस्य वहुभाग्ययुतस्य पुंसः पुण्याधिकस्य वहुयोगयुतस्य लोके । प्राप्तिर्भवेत्कल्पवरेण नस्य येनार्चिनो देववरो महेशः ॥१०॥ इनि श्रीय० महा० दशमपीठिकायुतो मोक्षाधिकारः समाप्तः ॥

पर्याकि वह मनुष्य संसारमें दुर्भागी कहाता है ॥ ४ ॥ जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक यन्त्रचिन्तामणि नाम कल्पका आध्रय लेते हैं उन मनुष्योंके साथ ऐसा कौनसा व्यक्ति है जो जीवनकी इच्छा कर विरोध करेगा अर्थात् कोईभी नहीं ॥ ५ ॥ हे देवि ! इस चिन्तामणि नाम कल्पके अत्यन्त प्रताप वर्णन करनेसे कथा है ? यह समुद्ररूप लोकोंको शिशा देनेवाला मेरे तेजसे प्रकाशित है ॥६॥ हे देवि ! पुण्यदायक अत्यन्त पवित्र परमरहस्य प्रीतिदायक जो यह कल्प मैंने तुमसे कहा है सो यह चिन्तामणि नाम कल्प चिन्तितकार्योंके कल्पका देनेवाला है ॥७॥ इस चिन्तामणि नाम कल्पमें आट अधिकार हैं जो कि देवपूजित हैं, संघ्या-पहिला वश्याधिकार, दूसरा आकर्षणाधिकार, तीसरा स्तम्भनाधिकार, चौथा विद्वेषणाधिकार, पांचवां मारण आधिकार, छठा उच्चाटनाधिकार, सातवां शांति अधिकार, आठवां वंदीमोक्षणाधिकार ॥८॥ जो मनुष्य स्वर्गसे आये हैं और जो अत्यन्त भाग्यवान् हैं आंतर जिनके अतिपुण्य हैं जो अत्यंत योगोंसे युक्त हैं, जिन्हेंने देव ध्रेष्ठ श्रीशिवजी महाराजका भक्तिसे पूजन किया है उनकोही इस श्रेष्ठ कल्पकी प्राप्ति होती है, दूसरेषो नहीं ॥९॥

इति श्रीयंत्रः ८० धलदेवप्रसादमित्रजीवृत्तभापार्टिकासहित

दशमपीठिकायुतो मोक्षाधिकारः समाप्तः ।

अथ सर्वसाधारणयन्त्रविधिः ।

तंत्रान्तरे—सुस्मातः सुवर्खचन्दनादिभिर्भूषितो यथोक्तद्व्यैः  
शुद्धदेशो यन्त्रं लिखेत् । तत्रादौ पष्ठचन्तं साधकपदं मध्ये वीजं  
तदधो द्वितीयान्तं साध्यनाम तत्पार्थयोः कुरु कुरु तदधो  
वियद्युक्तं सर्गवीजं लिखेत् । तत ईशानादिचतुष्कोणेषु हंसः  
सोऽहं प्राणवीजं चतुर्दिक्षु दिग्वीजानि प्रतिदिशं यन्त्रगायत्री-  
वर्णान् लिखेत् ॥ यन्त्रगायत्री—यन्त्रराजाय विद्वहे महायन्त्राय  
धीमहि । तत्रो यन्त्रः प्रचोदयात् ॥ इति यन्त्रगायत्र्या प्राणप्र-  
तिष्ठामन्त्रवर्णेन च यन्त्रं सर्वतो वेष्टयेत् । एवं यन्त्रं लिखित्वा  
सावधानतया सुवर्णादिना वेष्टितं कृत्वा यन्त्रप्रतिष्ठां कुर्यात् ॥  
सा यथा—सर्वतोभद्रमण्डलेऽष्टदले वा कर्णिकायां कलशस्था-  
पनविधिना कलशं संस्थाप्य तदुपरि यन्त्रं स्थापयेत् । मण्डल-  
कोणचतुष्ये चतुष्कलशान्तसंस्थाप्य प्रतिकलशं आँ ह्रीं क्रो  
इति त्र्यक्षरीविद्यां कूर्चवीजयुतां सहस्रं जपेत् ॥ ततस्तद्यन्तं  
चतुष्कलशोदकेरभिषेकमन्त्रेरभिषिद्य गन्धादिभिः सम्पूज्य

अय सब यंत्रोंके धारण करनेस्थि विधि कहते हैं—तंत्रोंमें लिखा है कि; प्रथम  
स्नानकर चन्दन लगाय सुन्दर वधोंको पहनकर जिस द्रव्यसे जिस यन्त्रके  
लिखनेको कहा गया हो, उस द्रव्यसे शुद्धस्थानमें ( वैठकर ) यंत्रको लिखे ।  
पहले साधकके नामके अन्तमें पष्ठीविभक्ति लगाकर लिखे, धीरमें वीजोंको  
लिख नीचे साध्यके नामके अंतमें द्विवीयाविभक्ति लगाकर लिखे, दोनों  
ओर नीचे कुरु २ उसके नीचे वियद्युक्त सर्गवीजको लिखे । पिर ईशानादि  
चारों कोनोंमें हंसः सोऽहं और प्राणवीजके चारों ओर दिग्वीजोंको  
प्रत्येक दिशामें यंत्रगायत्रिके तीन वर्णोंको लिखे । यंत्रगायत्री—“ यंत्र-  
राजाय विद्वहे महायन्त्राय धीमहि । चारों यंत्रः प्रचोदयात् । ” इस  
यंत्र गायत्रीके द्वारा प्राणप्रतिष्ठाके मानोंके वर्णोंसे यंत्रस्ते चारों ओरसे वेष्टित  
करे । इस भाँति सावधानीसे यंत्रको लिखकर सुवर्णादिसे वेष्टनकर यंत्रको  
प्रतिष्ठाहरे । सर्वतोभद्रमण्डलमें आठों दलोंमें कलशोंको स्थापनकर उसके ऊपर  
यंत्रको रखी । मण्डलके चारों कोनोंमें चार कटशोंको स्थापित करे और प्रत्येक

यन्त्रे प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण यन्त्रदेवताप्राणान् प्रतिष्ठाप्य यन्त्रे  
यत्था यंत्रं पोडशोपचारैः सम्पूर्ज्य ब्राह्मणसुवासिनीः कुमा-  
संभोज्य दक्षिणां दत्त्वा तेषामाश्रिषो गृहीत्वा यथोक्ताङ्गे वि-  
बधीयात् । अनुकलखेनस्थले भूर्जपत्रम् । अनुकलखेन  
केसरगोरोचनकर्षरकस्तूरीगजमदचन्दनागरुद्रव्याणि ।  
त्कलेखनिकायां सुवर्णशलाका । अनुकलेष्टने सुवर्णम् ॥ अंड-  
धारणाङ्गे दक्षिणवाहुः ॥ इति सर्वसाधारणयन्त्राविधिः ॥

इति श्रीदामोदरपण्डितोद्भूतो यंत्रचिन्तामणि: समाप्तः ॥

—कलशपर (हाधधर) आँ हाँ क्रौं इन तीन अक्षुरोंवाली विद्यामें कूर्चवीं  
लगाफर हजारथार जै । किर उस यंत्रको चारों कलशोंके जलसे अभिन्न-  
मंत्रोद्वारा अभिविक्तकर गंधपुष्पादिसे पूजनकर यंत्रमें प्राणप्रतिष्ठाके मंत्रों  
यंत्रदेवताकी प्राणप्रतिष्ठा करके यंत्रगायत्रीके द्वारा यंत्रकी पोडशोपचारसे  
करमुंद्ररवस्त्र पहननेवाली ब्राह्मणकी कन्याको भोजनकराय दक्षिणा देकर उस  
आशीर्वादे ले किर जिस अंगमें यंत्रधारण करना लिखा हो उस अंगमें यंत्र-  
धारण करोजहाँ किसीपर यंत्र लिखनेका विधान न हो वहाँ भोजपत्रपर लि-  
जहाँ यंत्रके लिखनेमें द्रव्यका विधान न हो वहाँ केसर, गोरोचन, क-  
कस्तूरी, गजमद, चंदन और अगर इनमेंसे किसीके द्वारा लिखे । जहाँ कि  
लेखनीका विधान न हो वहाँ सोनेकी सडाईसे लिखे । जहाँ किसीमें धरकर-  
धारण करनेका लेखन हो वहाँ सुवर्णके तावीजमें धरकर धारण करना चाहि-  
जहाँ किसी अंगमेंधारण करनेका लेखन हो वहाँ दक्षिणभुजामेंधारण करे ॥

इति श्रीपांडित-बलदेवप्रसादभिन्नजीकृतभापाठीकासाहित  
यंत्रचिन्तामणि समाप्त ।

### पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

“झाविष्णु श्रीकृष्णदास,	खेमराज श्रीकृष्णदास,
“लक्ष्मीविष्णुटेश्वर” स्टीम-प्रेस,	“श्रीविष्णुटेश्वर” स्टीम-प्रेस,
कल्याण-बम्बई.	सेतवाडी-बम्बई.